



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20—जनवरी 26, 2007 (पौष 30, 1928)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20—JANUARY 26, 2007 (PAUSA 30, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2007

सं. 34, दिनांक 26 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (87) के अधिकारी श्री प्रजनादिप्ता मोहनती का भारतीय आयुध निर्माणियां, आयुध निर्माणी बडमाल से स्थानांतरण होने पर उन्हें 5.12.2006 (पूर्वाह्न) से 4.12.2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. देव
अवर सचिव

सं. 35, दिनांक 28 दिसम्बर 2006—भारत के राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

अवैतनिक नौ सेना एडीसी-01 अगस्त, 2006 से प्रभावी

वाईएस एडमिरल वैकट भरतन् प. वि. से. मै. वि. से. मै. (00790 डब्ल्यू)

एस. डी. बांगा
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 36, दिनांक 29 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 02/91 शुद्धि पत्र 05/02 द्वारा संशोधित उपबंधों के तहत शाखा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व वायुसैनिक से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

(सिर्फ चेतन के लिए 18 दिसम्बर 2002 से प्रभावी
दो वर्ष की पूर्व दिनांक के साथ)

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर जयाचन्द्रन गेफालाकृष्णन नायर (28293), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एस. श्रीबास्तव
विंग कमांडर
जेडीसीओ-3 (डी)

वायु शाखा

सं. 37, दिनांक 29 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन ऑफिसर की पुष्टि, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर निशांत सुहाग (28264), पूजा मिश्रा (28265), जया गौतम (28266), श्वेता चौधरी (28267), अपर्णा विष्ट (28268), सरगम तद्वावाड़ी (28269), सौम्या बी (28270), सुगन्या कामाक्षी पोवन (28272), शिखा शर्मा (28273), आत्मा त्रिपाठी (28274), संकु भारती (28276), टी मुकिला (28277), रंजना सैनी (28278), ग्रेस निर्मला (28279), मीना अरोड़ा (28280), अनुदीप्ति (28281), लक्ष्मी सोभना (28282), कुलकर्णी वरूणाली दीपक (28283), बी सुबा बन्दना (28284), धनश्री पुतिया वीतिल (28285)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

अंतरा डे चौधरी (28294)

-- 17 जनवरी 2005 से प्रभावी।

सांभरिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर भावना मित्तल (28286), अभिलाषा श्रीवास्तव (28287), सरह एलेवेंटिन (28288), आर सिंधिया (28289), धुमल पल्लवी सुधीर (28290)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर मिश्रा ललिता अखिलेश एस (28291)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर प्रिया जोशी (28291)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर पी पाटिल (27937)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर कुमार विक्रम सिंह बघेल (28170), देवेन्द्र बूट (28180), दीपक कुमार देहरी (28193), मोहित चौहान (28196), अयुश रावत (28202), विकास त्याल (28203), विक्रान्त सिंह जमवाल (28216), और रजनीश चन्द कटोच (28222)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर अभय कुमार सिंह (28169), विरेन्द्र सैनी (28171), निखिल कुमार रथ (28172), सागिल साई किरण (28173), वरूण फौजदार (28174), अंकित राज सिंह (28175), रोहित सिंह (28176), गुप्ती सिंह डिलन (28177), शुक्ल (28178), वैभव विशाल (28179), रंजित सिंह सिंधु (28181), प्रशांत उनियाल (28182), प्रशांत सिंह नेगी (28183), करण कपूर (28184), निमिष माहेश्वरी (28185), ध्रुव कुमार (28186), रवि राज खत्री (28187), संदीप रनवा (28189), योगेश शर्मा (28194), अतुल आनंद (28195), एम सुरेन्द्रन (28197), विरेन्द्र खत्री (28199), अंगद प्रताप (28200), धीरज अहलावत (28201), गौतम सिंह (28204), मनीष (28205), रोहित विष्ट (28206), चेतन सी जे (28207), गौरव कुण्डलिया (28209), नवरेन्द्र कनवर (28210), अभिषेक सिंह तंवर (28211), अजय चौहान (28213), सुनील प्रतिया (28214), करण शिरिण देव (28215), अब्बर असगर मौलवी (28217), आशीष कपूर (28218), सयन्तन चक्रवर्ती (28219), संसार (28220), हरमीत तलवार (28221), परिक्षित हास्तेकर (28223) और सुमेध अशोक जाम्कर (28224)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन ऑफिसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर ब्योमिका सिंह (28261), टीमा मथ्यु (28262), और मधुरा अशोक वारनेकर (28263)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर पुरुषोत्तम मरूदा मरियप्पन (28225), शर्मा सुरज कुमार हरिकांत (28226), विकास चौधरी (28227), सागर भारद्वाज (28228), धन मोहन सिंह (28229), जगत बेहरी देश (28230), आशिष कक्कड़ (28231), परितोष कुमार सिंह (28232), कंगेयम हनुमंतराव नागार्जन (28233), मनीष चन्द्रा (28234), देवेन्द्र सिंह (28235), दीपक कुमार चौबे (28236), गौरव कपिल (28237), चिमोय सन्याल (28238), जे श्रीनिवास (28239), पलश घोष (28240), पंकज कुमार शाह (28242), शिरके विवेक वसंत (28243), कृष्णा कुमार पी एन (28244), कोदिलला हरि प्रसाद (28245), दुर्गा शंकर दास

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

सांभरिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर ब्रजेश कुमार (28247), मालेकुदेय जॉर्ज स्टीफन (28248), विजेन्द्र कुमार वर्मा (28249), सौरभ कुमार (28250), जयंत कुमार पात्रा (28251), प्रदीप कुमार (28252)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

लेखा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर सतीश न वड्डाक्कनदी (28253), कुमार मनिया राजा (28254), रामाकृष्णन कैप्पिलै (28255), सुनील गुप्ता (28256), चन्द्रशेखर बीजूकुमार (28257), सीरा श्रीनिवास श्रीधर (28258)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर मुराली कृष्णा (27935), निदुमन्दा संदेश अप्पेचाह (27936), सुरेन्द्र सिंह (28259), प्रशान्त बी एस (28260)

--18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एस. श्रीवास्तव

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3(डी)

सेना शाखा

सं. 38 दिनांक 26 दिसम्बर 2006.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-489126ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार उगमा राम (जेसी-489141पी), 12 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर दास (जेसी-489296के), 21 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद जाट (जेसी-489145एल), 05 जून 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-488860एफ), 23 फरवरी 2005

नायब सूबेदार शिशु पाल सिंह (जेसी-489324एल), 23 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-489336ए), 13 मार्च 2005

नायब सूबेदार राम मेहर सिंह (जेसी-489309एन), 24 जून 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-489157ए), 01 मई 2005

नायब सूबेदार राज कपूर (जेसी-489194एन), 01 मई 2005

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-489179वाई), 01 मई 2005

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-489195डब्ल्यू), 01 मई 2005

नायब सूबेदार विद्याधर वर्मा (जेसी-489276डब्ल्यू), 01 मई 2005

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-489278एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रन सिंह (जेसी-489222पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार ओमपाल सिंह, एस एम (जेसी-489240एक्स), 18 मई 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दीपा राम (जेसी-489303पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार महताप सिंह (जेसी-489342एन), 01 मई 2005

नायब सूबेदार भैरा राम (जेसी-489391डब्ल्यू), 25 जुलाई 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कर्मबीर (जेसी-489503एल), 01 मई 2005

नायब सूबेदार सुरजा राम (जेसी-489259डब्ल्यू), 22 मई 2005

नायब सूबेदार जय करण सिंह (जेसी-489160ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-489223एक्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार धर्मपाल (जेसी-489239एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार प्रतिपाल सिंह (जेसी-489310एल), 01 जून 2005

नायब सूबेदार राम भन सिंह (जेसी-489311एन), 01 जून 2005

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-489316एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार दुदा राम (जेसी-489331एफ), 01 जून 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-489357डब्ल्यू), 01 जून 2005

नायब सूबेदार जगदीश कुमार (जेसी-489090एम), 30 जून 2005

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद बेनिवाल (जेसी-489142एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अर्जुन लाल भिखर (जेसी-489204एम), 14 जुलाई 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-489249एम), 09 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-489318एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-489332के), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार जगदीश कुमार (जेसी-489265के), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-489392वाई), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार राजबीर सिंह चहल (जेसी-489299एक्स), 02 जुलाई 2005

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-489307एल), 04 जुलाई 2005

नायब सूबेदार शिश राम (जेसी-489244एन), 05 जुलाई 2005

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-489210ए), 03 नवम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उदय सिंह (जेसी-489245डब्ल्यू), 08 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-489394के), 26 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कपूर सिंह गिल (जेसी-489256एच), 02 दिसम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-489280वाई), 23 जुलाई 2005

नायब सूबेदार राजमल सिंह (जेसी-489120वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-489248के), 12 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रामकेश (जेसी-489279के), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-489325एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार साई राम जाट (जेसी-489170पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-489326डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रती राम (जेसी-489271एक्स), 24 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-489297एम), 22 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलवान चन्द (जेसी-489302एम), 12 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-489354एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मोहर सिंह महल्ला (जेसी-489383एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-489355एल), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-489250एफ), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जेसी-489393पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह सांगवान (जेसी-489442वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-489438डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-489180एन), 07 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार बलवाडा (जेसी-489281एफ), 12 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रूप सिंह (जेसी-489122के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-489137एम), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सत सिंह (जेसी-489234के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मुबारिक सिंह (जेसी-489282के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-489386एल), 01 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-489387एन), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-489459एम), 04 सितम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-489143ए), 30 दिसम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रनजीत सिंह पूनिया (जेसी-489370ए), 28 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार विध्याधर (जेसी-489262डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-489263वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-489229वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद वर्मा (जेसी-489235एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-489251के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल (जेसी-489283एम), 27 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-489284पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-489341एल), 14 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-489356एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-489410डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र चहार (जेसी-489374डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार आजाद सिंह (जेसी-489402एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-489424डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार धनवीर सिंह (जेसी-489425वाई), 28 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मेवा सिंह (जेसी-489451ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-489447एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-489480पी), 01 जून 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-489300एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-489285एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बद्री प्रसाद (जेसी-489301के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रनवीर सिंह, सेना मेडल (जेसी-489329के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मिथू राम (जेसी-489304एक्स), 20 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुखी राम सिंह (जेसी-489317पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-489319ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-489339एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-489350एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जिले सिंह (जेसी-489377के), 20 मई 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार इन्द्र पाल सिंह तेवतिया (जेसी-489504एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-489512एम), 30 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जय रामा राम (जेसी-489428एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-489429पी), 23 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लाल चन्द (जेसी-489513पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार ग्यारसी लाल जाट (जेसी-489448ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-489460एफ), 08 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-489462एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-489466एच), 01 जून 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बच्चू सिंह (जेसी-489522डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रभू सिंह (जेसी-489340एच), 04 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार खड़ग सिंह (जेसी-489376एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार श्री राम चौधरी (जेसी-489395एम), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) राम फल सिंह (जेसी-488700एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) श्यामल आर्चाया (जेसी-488708एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (जेसी-488720पी), 31 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) महेन्द्र सिंह यादव (जेसी-488720पी),
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) राम किशन जांगु (जेसी-488810डब्ल्यू),
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रभु राम सागवान (जेसी-488927पी),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-488832पी), 01 अप्रैल
2006

नायब सूबेदार (लिपिक) रोहिताश कुमार मावी (जेसी-488833एक्स),
18 जुलाई 2006*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रेम शंकर यादव (जेसी-488778एक्स),
04 जुलाई 2006*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) अवाया कुमार रविन (जेसी-488879ए),
01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) हरि ध्यान सिंह (जेसी-488833एक्स),
01 जुलाई 2006

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) देव प्रकाश ब्रह्मचारी
(जेसी-488097के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) सुर्या प्रकाश चतुर्वेदी
(जेसी-488274वाई), 18 मार्च 2005

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) सुरेश चन्द्र (जेसी-488298एच),
30 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हरी शंकर चौबे (जेसी-488379एच),
14 फरवरी 2006*

*(सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-488859एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-488877पी), 07 जुलाई 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्याम गीर (जेसी-488894पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार कासमीर सिंह (जेसी-488836डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब ओंकार सिंह (जेसी-488959एक्स), 11 सितम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विद्या धर (जेसी-488969एफ), 28 जून 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह (जेसी-489024के), 07 जून 2004

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय नारायण (जेसी-489016एल), 28 अगस्त 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रणधीर सिंह नेहरा (जेसी-489077एच), 13 जुलाई
2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजपाल (जेसी-4891078एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-489106एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शक्ता राम (जेसी-489118एफ), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रनवीर (जेसी-489163एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार तेजा राम (जेसी-489133डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार भाना राम कटनिया (जेसी-489139एक्स), 22 अगस्त
2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्णपाल सिंह (जेसी-489140एम), 26 जुलाई 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-489149एम), 26 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह दहिया (जेसी-489200डब्ल्यू), 01 जून
2004

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-489232वाई), 22 सितम्बर 2004

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-489176एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-489196वाई), 01 जून 2004

नायब सूबेदार कुलदीप (जेसी-489212एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-489213एन), 03 जून 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जेथमल चौधरी (जेसी-489214डब्ल्यू), 01 जून 2004

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-489215वाई), 13 जून 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-489266एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार हरलाल सिंह कजला (जेसी-488989पी), 05 जून 2004

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-489267पी), 06 जून 2004

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-489098वाई), 13 जून 2004

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-489101एन), 23 जून 2004

नायब सूबेदार तारा चन्द्र (जेसी-488978एच), 24 जून 2004

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-489099एफ), 25 जून 2004

नायब सूबेदार सुभ करन सिंह (जेसी-488990के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार बजरंग लाल भारिआ (जेसी-488993के), 09 अगस्त 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहन राम (जेसी-489053वाई), 24 अक्टूबर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बक्सा राम (जेसी-489013एक्स), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार नफे सिंह (जेसी-489054एफ), 06 सितम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-489055के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार भूप सिंह (जेसी-489056एम), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार बाबू राम वर्मा (जेसी-489022वाई), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-489026पी), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार रामअवतार (जेसी-489027एक्स), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार ब्रह्म देव (जेसी-489102डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-489038के), 11 सितम्बर 2004

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-489049डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राकेश दलाल (जेसी-489050एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-489051एन), 30 जुलाई 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवी राम (जेसी-489070वाई), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-489081एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-489082एन), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-489071एफ), 04 अक्टूबर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-489104एफ), 05 सितम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पीथा राम (जेसी-489066डब्ल्यू), 12 जुलाई 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-489128एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-489159एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार जमीत सिंह (जेसी-489129एन), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार उमरावत सिंह (जेसी-489094एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार चांदी राम (जेसी-489116डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार चन्द्रबीर सिंह (जेसी-489100एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार गोपी राम (जेसी-489161एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार दया सिंह बल्हारा (जेसी-489109ए), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार कृष्णा राम (जेसी-489130एच), 17 मार्च 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनधीर सिंह राठी (जेसी-489146एन), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-489132ए), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार रतन लाल (जेसी-489135एफ), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-489136के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-489164डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार शिव करण सिंह (जेसी-489138पी), 28 जुलाई 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लायक राम (जेसी-489165वाई), 01 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार लाल चन्द (जेसी-489166एफ), 01 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार रोमेश सिंह (जेसी-489148वाई), 01 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार नेम सिंह (जेसी-489167के), 01 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार रामफल (जेसी-489150डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार हनुमान राम जाट (जेसी-489169पी), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार गिराज सिंह (जेसी-489197एफ), 17 जनवरी 2005 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रूप राम (जेसी-489273एच), 15 अक्टूबर 2004 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-489168एम), 02 जुलाई 2004
 नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-489042एम), 08 जुलाई 2004 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बीर बहादुर सिंह (जेसी-489155पी), 09 दिसम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-489018डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-489058एक्स), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार चन्द्र पाल (जेसी-489092एक्स), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार राधा कृष्ण (जेसी-489151वाई), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-489170के), 30 अगस्त 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-489241ए), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह (जेसी-489205पी), 01 नवम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-489237एक्स), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-489096एन), 11 सितम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-489293डब्ल्यू), 12 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रभु दयाल यादव (जेसी-489246वाई), 20 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-489062ए), 07 अक्टूबर 2004 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-489084वाई), 21 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-489315के), 28 नवम्बर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सरजन सिंह (जेसी-489320पी), 15 सितम्बर 2004 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-489360डब्ल्यू), 28 नवम्बर 2004 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-489002एल), 14 अक्टूबर 2005 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार डाल सिंह (जेसी-489023एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार तुला राम (जेसी-489033एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-489043पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-489045ए), 29 अक्टूबर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विद्याधर सिंह महालावत (जेसी-489065एन), 01 अक्टूबर 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुधीर कुमार (जेसी-489114एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-489083डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-489097डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-489095एल), 01 जनवरी 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नबाब सिंह (जेसी-489162एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जैसी-489147डब्ल्यू), 20 जनवरी 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जैसी-489158एच), 29 अक्टूबर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जैसी-489187एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मुरलीधर (जैसी-489183एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार गणेश राम जाट (जैसी-489189एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जैसी-489224ए), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जगमेन्द्र सिंह (जैसी-489172पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार देवी राम (जैसी-489260एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जैसी-489261एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सोहन लाल (जैसी-489203के), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मेम्बर सिंह (जैसी-489228डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द्र (जैसी-489277वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राज सिंह (जैसी-489242एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जैसी-489247एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार भरत सिंह (जैसी-489252एम), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार योगेन्द्र कुमार (जैसी-489308एन), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जैसी-489321एक्स), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मूल चन्द (जैसी-489649वाई), 01 जून 2006

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जैसी-489337एच), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जैसी-489322ए), 13 फरवरी 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बजरंग लाल (जैसी-489333एम), 01 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जैसी-489238ए), 08 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार हनुमान राम (जैसी-489369एल), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गनपत राम (जैसी-489398ए), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जैसी-489399एच), 21 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम मेहर सिंह (जैसी-489413के), 28 नवम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम मेहर (जैसी-489174ए), 20 अक्टूबर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जैसी-489063एच), 20 फरवरी 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भगुबीर सिंह (जैसी-489064एल), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जैसी-489243एल), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जैसी-489291एल), 01 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय भगवान (जैसी-489292एन), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राज पाल (जैसी-489124पी), 22 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार महिपाल (जैसी-489125एक्स), 29 मार्च 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुलतान सिंह (जैसी-489264एफ), 24 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार सोदान सिंह (जैसी-489041के), 28 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राजवीर सिंह लुहाच (जैसी-489044एक्स), 28 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार सूरत सिंह (जैसी-489105के), 23 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल (जेसी-489107पी), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द डाका (जेसी-489108एक्स), 08 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-489119के), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-489178डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-489254एक्स), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-489255ए), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-489294बाई), 25 जून 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-489295एफ), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-489338एल), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-489347एम), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जगबीर (जेसी-489152एफ), 11 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जेसी-489171एम), 11 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-489185एम), 11 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-489131एल), 12 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 3180584वाई अब जेसी-489872एच), 30 अप्रैल 2006

हवलदार जगदीश कुमार (सं. 3178880एल अब जेसी-489873एल), 04 मई 2006

हवलदार पूरन सिंह (सं. 3177591के अब जेसी-489874एन), 13 मई 2006

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 3178283डब्ल्यू अब जेसी-489875डब्ल्यू), 01 जून 2006

हवलदार सोरन सिंह (सं. 3180328के अब जेसी-489876वाई), 01 जून 2006

हवलदार जलदीप सिंह (सं. 3180719पी अब जेसी-489877एफ), 01 जून 2006

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 3180337एल अब जेसी-489878के), 16 जून 2006

हवलदार मंगी लाल (सं. 3181351के अब जेसी-489879एम), 01 जुलाई 2006

हवलदार बागा राम (सं. 3177473डब्ल्यू अब जेसी-489880एफ), 05 जुलाई 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3178723वाई अब जेसी-489881के), 09 जुलाई 2006

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3181038वाई अब जेसी-489882एम), 13 जुलाई 2006

हवलदार मान सिंह जाट (सं. 3179510एक्स अब जेसी-489883पी), 28 जुलाई 2006

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं. 3178582पी अब जेसी-489884एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3184398ए अब जेसी-489885ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 3178974एच अब जेसी-489886एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 3180112एच अब जेसी-489887एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार समुन्दर सिंह (सं. 3177158ए अब जेसी-489888एन), 06 अगस्त 2006

हवलदार सुभाष (सं. 3180082डब्ल्यू अब जेसी-489889डब्ल्यू), 20 अगस्त 2006

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 3178640एन अब जेसी-489890एल), 01 सितम्बर 2006

हवलदार राम निवास (सं. 3178587एन अब जेसी-489891एन), 01 सितम्बर 2006

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 3179574एच अब जेसी-489892डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार सुखवीर सिंह (सं. 3194587एक्स अब जेसी-489893वाई), 01 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार आंचल सिंह (सं. 3180340एल अब जेसी-489894एफ), 06 जुलाई 2006

हवलदार भांवरा राम (सं. 3181406एम अब जेसी-489895के), 17 जुलाई 2006

हवलदार मनवीर सिंह (सं. 3178065एक्स अब जेसी-489896एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार निहाल सिंह (सं. 3178800एच अब जेसी-489897पी), 06 अगस्त 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3181276एल अब जेसी-489898एक्स),
23 अगस्त 2006

हवलदार महताब सिंह पुनिया (सं. 3175977एल अब जेसी-489899ए), 23 अगस्त 2006

हवलदार शेर सिंह झाड़डिया (सं. 3182417एफ अब जेसी-489900के),
01 सितम्बर 2006

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3178923पी अब जेसी-489901एम),
01 सितम्बर 2006

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3179488एक्स अब जेसी-489902पी),
11 सितम्बर 2006

हवलदार रागेन्द्र सिंह (सं. 3177824ए अब जेसी-489903एक्स),
22 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

हवलदार सुखबीर (सं. 3188109एक्स अब जेसी-489904ए),
01 सितम्बर 2006

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3175895एच अब जेसी-489905एच),
01 सितम्बर 2006

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 3179482डब्ल्यू अब जेसी-489906एल),
01 सितम्बर 2006

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 3176762वाई अब जेसी-489907एन),
01 सितम्बर 2006

हवलदार मांगे राम (सं. 3176880एम अब जेसी-489908डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार जवाहर लाल जाट (सं. 3177180एल अब जेसी-489909वाई), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 3180475एम अब जेसी-489910एन),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार श्यामवीर सिंह (सं. 3179979एन अब जेसी-489911डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार विनोद कुमार (सं. 3179243एफ अब जेसी-489912वाई),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार कमल सिंह (सं. 3179055ए अब जेसी-489913एफ),
01 नवम्बर 2006

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) सदानन्द (जेसी-439170एम), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) गोपालन पी (जेसी-439133ए), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) राजन नागत (जेसी-439154डब्ल्यू),
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) रविन्द्रन वी (जेसी-439160के), 01 मई
2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) एडिसन जे (जेसी-439171डब्ल्यू), 01 जून
2006*

*(सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
वरीयता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) बी श्रीशैलम (जेसी-439173एफ), 27 जुलाई
2006*

*(सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
वरीयता 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) अब्दुल ख़ादर माकान्दर (जेसी-439220एन),
14 अगस्त 2006*

*(सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
वरीयता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) असोकन एन (जेसी-439219वाई), 21 अगस्त
2006*

*(सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
वरीयता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ए चेल्सापान्डी (जेसी-439371एम), 26 अगस्त 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
05 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जी पेरुमाल (जेसी-439372पी), 02 सितम्बर 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजा वेल के (जेसी-439419पी), 07 सितम्बर 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के वन्मुगम (जेसी-439224के), 29 सितम्बर 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार काटरी नागेस्वरा राव (जेसी-439197एल), 18 अगस्त
2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दामोदरन पी (जेसी-439305के), 21 सितम्बर 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता
01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जी राजेन्द्रन (जेसी-439359एल), 21 सितम्बर 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना करीयता
01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सदाशिव लुगारी (सं. 2591675ए अब जेसी-439750एच),
14 अक्टूबर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार के रवी (सं. 2589938पी अब जेसी-439727पी),
19 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जी रामा पूपाथी (सं. 8039529वाई अब जेसी-439729ए),
19 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कुसान्नी मोगुल्य्या (सं. 2590008ए अब जेसी-439751एल),
14 अक्टूबर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मनोहरन एस (सं. 2585751एल अब जेसी-439730पी),
23 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेसन के (सं. 2592967पी अब जेसी-439744पी),
04 अक्टूबर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार टी चिदम्बरम (सं. 2587886एल अब जेसी-439739के),
04 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गायम तिरुपथय्या (सं. 2590459ए अब जेसी-439709एम),
24 जुलाई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जे सेबास्टियन (सं. 2584639एम अब जेसी-439720एल),
15 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कुन्जुमोन के (सं. 3387557एफ अब जेसी-439721एन),
15 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अडेकेप्पा मनागुट्टी (सं. 2586875एम अब
जेसी-439722डब्ल्यू), 15 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार के अच्छीमुथू (सं. 2587279एम अब जेसी-439723वाई),
23 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार के सेकर (सं. 2591206एक्स अब जेसी-439718एल),
01 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार आर ससीकुमार (सं. 2591283एम अब जेसी-439718एन),
01 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुधाकरन पी (सं. 2588709एक्स अब जेसी-439732ए),
01 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार के बी रामकृष्णा (सं. 2588695एन अब जेसी-439733एच),
01 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मन भडारगडे (सं. 2590791डब्ल्यू अब
जेसी-439734एल), 01 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार आर गोविन्दाराज (सं. 2590920एल अब
जेसी-439735एन), 01 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार पान्ड़ा श्रीनिवासुलु (सं. 2591428एम अब जेसी-
439706वाई), 09 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जे ए जैकुमार (सं. 2590737एच अब जेसी-439735एन),
01 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सतीष बाबु एन (सं. 3391306पी अब जेसी-439738एफ),
08 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार टी सीता रामलू (सं. 2588755एम अब जेसी-439780वाई),
11 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार टी नागाधाम (सं. 2591547एच अब जेसी-439741एफ),
11 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एम महाराजन (सं. 2589025एन अब जेसी-439737वाई),
04 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार भीमासेन ईश्वर डोने (सं. 2591291एल अब
जेसी-439719डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रोना गाला राजा राव (सं. 2589568ए अब
जेसी-439724एफ), 04 सितम्बर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुहास ठेरे (सं. 2587614एल अब जेसी-439742के), 01
अक्टूबर 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रवी कुमार डी (सं. 2588938एच अब जेसी-439728एक्स),
19 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

सहायक रेजिमेंट

नायब सूबेदार/आरटी (पंडित) के पदोन्नति

रिवरूट/आरटी (पंडित) गोविंद प्रसाद मिश्रा (जेसी-439613के),
10 दिसम्बर 2005

रिवरूट/आरटी (पंडित) हेम चन्द्र जोशी (जेसी-439614एम),
10 दिसम्बर 2005

रिवरूट/आरटी (पंडित) सुभाष चंद्र काकटवान (जेसी-439620ए),
10 दिसम्बर 2005

रिवरूट/आरटी (पंडित) चंद्र किशोर मिश्रा (जेसी-439621एच),
10 दिसम्बर 2005

दि राजपूत रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर राज कुमार (जेसी-478377के), 16 जून 2006

सूबेदार मेजर द्वारिका प्रसाद (जेसी-478554वाई), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक ठाकुर दास (जेसी-479059एम), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार लिपिक ब्रह्म प्रकाश (जेसी-479060एफ), 01 जुलाई 2006

सूबेदार लिपिक आनन्द कुमार पान्डेय (जेसी-479134एल),
01 अगस्त 2006

सूबेदार लिपिक सतेन्द्र पाल सिंह (जेसी-479135एन), 01 सितम्बर
2006

सूबेदार लिपिक जंग बहादुर सिंह चौहान (जेसी-479287पी),
01 अक्टूबर 2006

सूबेदार लिपिक सोने लाल पान्डेय (जेसी-479354पी), 01 अक्टूबर
2006

सूबेदार के रूप में

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-479176एक्स), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार शिव कुमार (जेसी-479083एच), 01 जुलाई 2005

सूबेदार हरी शंकर (जेसी-479371पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार जगदीश प्रसाद गुर्जर (जेसी-479302वाई), 01 मार्च 2006

सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-479166एन), 09 मार्च 2006

सूबेदार रूप नारायण सिंह (जेसी-479228एच), 09 मार्च 2006

सूबेदार रहमान खान (जेसी-479314एन), 09 मार्च 2006

सूबेदार अमिरुद्दीन (जेसी-479329डब्ल्यू), 09 मार्च 2006

सूबेदार इशाक अहमद (जेसी-479194ए), 25 मार्च 2006

सूबेदार रघुनाथ (जेसी-479150एच), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार रघु राज सिंह (जेसी-479363एक्स), 07 अप्रैल 2006

सूबेदार रघु सिंह (जेसी-479333के), 01 मई 2006

सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-479344एच), 01 मई 2006

सूबेदार धंकर सिंह (जेसी-479425के), 01 जून 2006

सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-479157एम), 01 जून 2006
 सूबेदार बारिश्टर सिंह (जेसी-479203डब्ल्यू), 01 जून 2006
 सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-479223के), 01 जून 2006
 सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479391एच), 01 जून 2006
 सूबेदार लाल चन्द गुर्जर (जेसी-479364वाई), 01 जून 2006
 सूबेदार छत्तरमल गुर्जर (जेसी-479386एक्स), 01 जून 2006
 सूबेदार समुन्दर सिंह (जेसी-479409एम), 01 जून 2006
 सूबेदार अमर सिंह ठाकुर (जेसी-479416के), 01 जून 2006
 सूबेदार अजब सिंह पुन्डीर (जेसी-479425एल), 01 जून 2006
 सूबेदार कन्हैया लाल गुर्जर (जेसी-479426एन), 01 जून 2006
 सूबेदार सूरज मल गुर्जर (जेसी-479440ए), 01 जून 2006
 सूबेदार राम अक्तर गुर्जर (जेसी-479452पी), 01 जून 2006
 सूबेदार सत्यभान सिंह (जेसी-479468ए), 01 जून 2006
 सूबेदार सवायी सिंह गुर्जर (जेसी-479471ए), 01 जून 2006
 सूबेदार रामभगत चतुर्वेदी (जेसी-479479एम), 01 जून 2006
 सूबेदार अतर सिंह (जेसी-479482एम), 01 जून 2006
 सूबेदार सुरेन्द्र सिंह राघव (जेसी-479496एम), 01 जून 2006
 सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-479486एच), 01 जून 2006
 सूबेदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-479498एक्स), 01 जून 2006
 सूबेदार महेश कुमार (जेसी-479522एच), 01 जून 2006
 सूबेदार सत प्रकाश (जेसी-479552ए), 01 जून 2006
 सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-479583ए), 01 जून 2006
 सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-479639एफ), 01 जून 2006
 सूबेदार राम किशोर गुर्जर (जेसी-479160एम), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार गुरु दयाल गुर्जर (जेसी-479195एच), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार बचन सिंह (जेसी-479249वाई), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार जोरावर सिंह (जेसी-479322एम), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार शिव चरन (जेसी-479366के), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार किशन सिंह (जेसी-479235वाई), 01 अगस्त 2006
 सूबेदार राम निवास (जेसी-479256पी), 01 अगस्त 2006
 सूबेदार महाबल सिंह (जेसी-479286एम), 01 अगस्त 2006
 सूबेदार कृष्ण पाल सिंह (जेसी-479299के), 01 अगस्त 2006
 सूबेदार राज सिंह (जेसी-479331एन), 01 अगस्त 2006
 सूबेदार राजेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-479397के), 20 अगस्त 2006

सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-479167डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006
 सूबेदार पुंख राज गुर्जर (जेसी-479516एन), 01 सितम्बर 2006

कुमाऊं रेजिमेन्ट

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार पूरन चन्द्रा (जेसी-539585एक्स), 13 जुलाई 2006/01जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-539586अल्फा), 07 जुलाई 2006/01जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार अशोक सिंह (जेसी-539620पी), 07 जुलाई 2006/01जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-539577वाई), 13 जुलाई 2006/01जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार सूरेश पाल सिंह यादव (जेसी-539629के), 07 जुलाई 2006/01जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार त्रिभुवन चन्द (जेसी-539498के), 17 अप्रैल 2006/01 अक्टूबर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई है।)

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार कुशाल सिंह गरिया (जेसी-538112एम), 02 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2006 से दी गई है।)

सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-538121एन), 03 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है।)

सूबेदार कमला पति भट्ट (जेसी-538156के), 02 अप्रैल 2006

सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-538182एल), 20 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2006 से दी गई है।)

सूबेदार सत्यपाल यादव (जेसी-538195एच), 01 अगस्त 2006

सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-538221वाई), 02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी गई है।)

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-538245एच), 01 जनवरी 2006

सूबेदार आनन्द सिंह (जेसी-538247एन), 24 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है।)

सूबेदार दलप सिंह (जेसी-538354पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-538654एक्स), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार दिवानी राम (जेसी-538691के), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार घमंडी लाल यादव (जेसी-538699पी), 14 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2006 से दी गई है।)

सूबेदार पदम सिंह (म्यूजिसियन) (जेसी-539033के), 17 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई है।)

सूबेदार डब्ल्यू एस लुंथा अनल (जेसी-218034अल्फा), 10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई है।)

सूबेदार एल के वंगरीसीम (जेसी-208183अल्फा), 01 मई 2005

सूबेदार क्लर्क बलबीर सिंह यादव (जेसी-538387अल्फा), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क प्रेम सिंह कन्डारी (जेसी-538488एन), 03 जुलाई 2005/01 जून 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी गई है।)

सूबेदार क्लर्क रामा शंकर (जेसी-538536एच), 08 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी गई है।)

सूबेदार क्लर्क नारायण सिंह देवपा (जेसी-538545के), 02 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में, ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2006 से दी गई है।)

नायब सूबेदार के पद में

सी क्यू एम एच त्रिलोक सिंह जेठी (सं. 4177675एन अब जेसी-540034वाई), 12 मई 2006/08 फरवरी 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 फरवरी 2006 से दी गई है)

सी एच एम खुशाल सिंह (सं. 4177782पी अब जेसी-540038पी), 06 मई 2006/09 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2006 से दी गई है)

सी एच एम महेन्द्र सिंह वलदिया (सं. 4178930एफ अब जेसी-540039एक्स), 06 मई 2006/09 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4180379एन अब जेसी-540040एम), 06 मई 2006/009 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार जीवन सिंह (सं. 4178360डब्ल्यू अब जेसी-540041पी), 08 मई 2006/09 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार केशर सिंह (सं. 4177344एम अब जेसी-540054एम), 07 जुलाई 2006/03 जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 जून 2006 से दी गई है)

हवलदार कैलाश सिंह विष्ट (सं. 4178687पी अब जेसी-540045एल), 06 जून 2006/08 मई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 मई 2006 से दी गई है)

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4179292अल्फा अब जेसी-540055पी), 01 जुलाई 2006

हवलदार भीम सिंह (सं. 4179237के अब जेसी-540035एफ), 30 मई 2006/01 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 02 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार सूरेश सिंह (सं. 4180644वाई अब जेसी-540037एम),
30 मई 2006/02 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 02 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार खडक सिंह (सं. 4181269एल अब जेसी-540042एक्स),
16 मई 2006/01 मई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2006 से दी गई है)

हवलदार धरम सिंह (सं. 14701166डब्ल्यू अब जेसी-540043अल्फा), 01 मई 2006

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14701561के अब जेसी-540046एन),
01 जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है)

हवलदार नाथू सिंह (सं. 4179521अल्फा अब जेसी-540044एच),
10 मई 2006/01 मई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2006 से दी गई है)

हवलदार राज पाल (सं. 4180448वाई अब जेसी-540050डब्ल्यू),
20 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 4180483एफ अब जेसी-540051वाई),
20 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

सीएचएम सुरेन्द्र सिंह (सं. 4179302वाई अब जेसी-540052एफ),
20 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार मोहन चन्द्रा (सं. 4178657एक्स अब जेसी-540036के),
19 मई 2006/01 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2006 से दी गई है)

नागा रेजिमेंट

सी क्यू एम एच के टी कोलेन्सन अनल (सं. 14702278एच अब जेसी-590194पी), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार कमई लन्नागई रोगमई (सं. 14702283एन अब जेसी-590195एक्स), 04 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

सी एच एम श्याम सिंह (सं. 14701112पी अब जेसी-590196अल्फा), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार श्री प्रसाद थापा (सं. 14701786एम अब जेसी-590197एच), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार उमेद सिंह (सं. 14701107के अब जेसी-590198एल),
26 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार चतुर बहादुर थापा (सं. 14701688एम अब जेसी-590189के), 24 अप्रैल 2006/30 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14701695एच अब जेसी-590190वाई),
20 अप्रैल 2006/30 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार चंगरलेम्बा (सं. 14701967एक्स अब जेसी-590191एफ),
24 अप्रैल 2006/30 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार एस बेन्जामिन (सं. 14702260एम अब जेसी-590192के),
20 अप्रैल 2006/30 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 मार्च 2006 से दी गई है)

हवलदार के सपनायेमा कोम (सं. 14702416वाई अब जेसी-590193एम), 19 मई 2006/30 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 मार्च 2006 से दी गई है)

कुमाऊँ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार पुष्कर चन्द (सं. 1482308एल अब जेसी-540062एल),
09 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 14701159अल्फा अब जेसी-540057अल्फा), 10 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2006 से दी गई है)

हवलदार हरी चन्द (सं. 14701535एच अब जेसी-540058एच), 08 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2006 से दी गई है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4177564डब्ल्यू अब जेसी-540059एल), 15 जुलाई 2006/04 जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 जून 2006 से दी गई है)

हवलदार गणेश सिंह (सं. 4178185एम अब जेसी-540060अल्फा), 06 जुलाई 2006/16 मई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 16 मई 2006 से दी गई है)

हवलदार धरमदेव (सं. 4176180पी अब जेसी-540061एच), 01 अगस्त 2006/2006×

हवलदार ब्रजेश कुमार (सं. 4181644एल अब जेसी-540063एन), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार नन्दलाल सिंह (सं. 4175628एक्स अब जेसी-540070के), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4177823एन अब जेसी-540065वाई), 02 अगस्त 2006/06 जून 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 जून 2006 से दी गई है)

हवलदार रतन सिंह (सं. 4181327के अब जेसी-540064डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

हवलदार बस्ती राम यादव (सं. 4181353एल अब जेसी-540069पी), 06 अक्टूबर 2006/19 सितम्बर 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 19 सितम्बर 2006 से दी गई है)

सी क्यू एम एच आनन्द सिंह (सं. 4182861एक्स अब जेसी-540066एफ), 31 अगस्त 2006/02 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 02 जुलाई 2006 से दी गई है)

आर पी एच एम हरीश चन्द्र (सं. 4180443अल्फा अब जेसी-540049एफ), 20 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार सी क्यू एम एच अनिल कुमार (सं. 4180451वाई अब जेसी-540020वाई), 11 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

हवलदार सुरेश कुमार यादव (सं. 4180526एल अब जेसी-540020वाई), 31 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पाटिल भरमाणा लक्ष्मण (जेसी-458182एक्स), 12 जुलाई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2006 से दी गई है)

सूबेदार ईश्वर लक्ष्मण पाटील (जेसी-458479वाई), 22 जून 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी गई है)

सूबेदार बालासाहेब बाबू काटकर (जेसी-220660एफ), 15 जुलाई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी गई है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परशुराम रामा कैलाप गावडे (जेसी-459188एल), 01 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार खलाटे रामचन्द्र विठोबा (जेसी-459179के), 23 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार पाटील केशव पांडुरंग (जेसी-459192एन), 10 जुलाई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार भातकाण्डे जोतिबा शंकर (जेसी-459213एन), 08 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार सादिक अलि खान (जेसी-459242एन), 09 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार नागाणे अंकुश बाबू (जेसी-459232के), 14 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार वसप्पा (जेसी-459135एम), 26 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र मिश्रा (जेसी-459243डब्ल्यू), 24 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार विचारे प्रमोद गजानन (जेसी-458901एल), 8 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार जाधव मारुती गोविंदा (जेसी-459249एक्स), 22 जुलाई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार प्रमोद पोचिराम भोयर (जेसी-458935वाई), 26 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार धुमाल दिलीप शंकर (जेसी-459221एक्स), 03 अगस्त 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार मुण्डे अभिमान व्यंकटराव (जेसी-459072पी), 03 अगस्त 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-458977एल), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार तानाजी संतराम देवेकर (जेसी-458985के), 05 अगस्त 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार रामचन्द्र भुरालाल जाधव, एस एम (जेसी-458986एम), 10 अगस्त 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक रोहतास (जेसी-459070के), 08 जुलाई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आईर उमेश सखाराम (सं. 2784055एल अब जेसी-459651एफ), 08 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी गई है)

हवलदार कोष्टी महानंदा (सं. 2786011एम अब जेसी-459652के), 26 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी गई है)

हवलदार चौधरी रामदास हरिदास (सं. 2782975के अब जेसी-459653एम), 17 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

हवलदार जाधव तानाजी शामराव (सं. 2782063एल अब जेसी-459654पी), 17 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

हवलदार काशिद रामचंद्र मारुति (सं. 2783525वाई अब जेसी-459655एक्स), 21 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी गई है)

हवलदार बाबू अष्टेकर (सं. 2783052एल अब जेसी-459656ए), 24 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2006 से दी गई है)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नन्द कुमार लिम्बू (जेसी-218091एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार धन बहादुर लिम्बू सेना मेडल (जेसी-634075एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार लावपा छिरींग शेर्पा (जेसी-634181ए), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मदिम बहादुर राई (जेसी-634155वाई), 14 अप्रैल 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से)

सूबेदार मनी राई (जेसी-634166एल), 01 मई 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विरथा मान राई (जेसी-634520पी), 07 फरवरी 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से)

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर राई (जेसी-634537एच), 01 मार्च 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से)

नायब सूबेदार प्रेम कुमार राई (जेसी-634534पी), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार पाण्डु मान राई (जेसी-634521एक्स), 08 अप्रैल 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से)

नायब सूबेदार टका वीर लिम्बू (जेसी-634535एक्स), 01 मई 2006
नायब सूबेदार अर्जुन तामांग (जेसी-634558वाई), 01 मई 2006
नायब सूबेदार श्याम बहादुर मुखिया (जेसी-634543डब्ल्यू), 01 जून 2006
नायब सूबेदार लोक मान राई (जेसी-634551पी), 01 जून 2006
नायब सूबेदार सांग छिरींग लेप्चा (जेसी-634556एन), 01 जून 2006
नायब सूबेदार चित्र बहादुर गुरुंग (जेसी-634618एच), 01 जून 2006
नायब सूबेदार बिक्रम पचाभईया (जेसी-634540एच), 13 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार देवी राम राई (जेसी-634591डब्ल्यू), 13 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार जागीर मान राई (जेसी-634603ए), 13 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार टिका तामांग (जेसी-634544वाई), 14 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार अमन लामा (जेसी-634548पी), 14 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार आश बहादुर राई (जेसी-634576पी), 14 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार धन बहादुर राई (जेसी-634577के), 14 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार बेनु प्रासाद सुब्बा (जेसी-634549एक्स), 15 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार रवीन्द्रा कुमार राई (जेसी-634542एन), 16 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार तुल बहादुर लिम्बू (जेसी-634545एफ), 16 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार राजा राई (जेसी-634541एल), 16 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार जगत बहादुर श्रेष्ठ (जेसी-634570ए), 16 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार तप्ता बहादुर कार्कि (जेसी-634596पी), 16 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार शिव राज प्रधान (जेसी-634565पी), 19 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार आईता बहादुर लिम्बू (जेसी-634567एल), 19 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार खेम राज राई (जेसी-634552एक्स), 24 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र तामांग (जेसी-634560डब्ल्यू), 25 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार बुद्धि राज राई (जेसी-634555एल), 26 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार सुकबीर सुब्बा (जेसी-634619एल), 27 जून 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार नूर बहादुर तामांग (जेसी-634572ए), 01 अगस्त 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार राम कुमार राई (जेसी-634569एल), 12 अगस्त 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार भरत मान राई (जेसी-634601पी), 21 अगस्त 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हेम बहादुर शाही (सं. 9418226पी अब जेसी-634726एम), 01 मई 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006)

हवलदार रबिन कुमार लिम्बू (सं. 9417499एल अब जेसी-634727पी), 01 मई 2006

हवलदार अनिल देव राई (सं. 9418468एक्स अब जेसी-634728एक्स), 06 मई 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार इन्द्रा बहादुर लिम्बू (सं. 9417607के अब जेसी-634729ए), 26 जून 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006)

हवलदार कमल कुमार राई (सं. 9418103एच अब जेसी-634730पी), 01 जून 2006

हवलदार/लिपिक विजय बहादुर शर्मा (सं. 9418013एफ अब जेसी-634731एक्स), 01 जुलाई 2006

हवलदार बिम बहादुर देवान (सं. 9418101एक्स अब जेसी-634732ए), 01 जुलाई 2006

हवलदार बोली राज सम्बामभे (सं. 9418243पी अब जेसी-634733एच), 01 जुलाई 2006

हवलदार प्रधान राई (सं. 9417805पी अब जेसी-634734एल), 26 जुलाई 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2006)

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर क्लर्क रैंक में

सूबेदार क्लर्क कश्मीर सिंह पठनियाँ (जेसी-428510एल), 01 जनवरी 2006

सूबेदार क्लर्क सुरेन्द्र कुमार (जेसी-428522ए), 01 जून 2006

सूबेदार क्लर्क प्रेम चन्द शर्मा (जेसी-428537एच), 01 जुलाई 2006

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क आदर्श कुमार (जेसी-428993एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार क्लर्क कमल सिंह (जेसी-428994डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार क्लर्क आर एस सैनी (जेसी-428998एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार क्लर्क जगदीश चन्द (जेसी-428995वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार क्लर्क बलदेव सिंह (जेसी-428996एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार क्लर्क तरलोक सिंह (जेसी-428999पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार क्लर्क दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-429029वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार क्लर्क रनधीर सिंह (जेसी-429030एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार क्लर्क रोशन लाल (जेसी-429037एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार क्लर्क मोहिन्दर सिंह डोगरा (जेसी-429041ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क सुरजीत कुमार (जेसी-429080वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क मस्त राम वर्मा (जेसी-429115के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क भगवान दास शर्मा (जेसी-429116एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क राम कृष्ण (जेसी-429196पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क गौरी दत्त शर्मा (जेसी-429203ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क राजेन्द्र प्रकाश (जेसी-429295एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क परमपाल सिंह सोही (जेसी-428958एल),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार क्लर्क जगदीश चन्द शर्मा (जेसी-429318एल),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार क्लर्क जरनैल सिंह वशिष्ठ (जेसी-429296ए),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार क्लर्क सत पौल (जेसी-429345एक्स), 01 अप्रैल
2006

नायब सूबेदार क्लर्क हरदित सिंह (जेसी-429346ए), 01 मई 2006

नायब सूबेदार क्लर्क अनिल कुमार (जेसी-429410एम), 01 जून
2006

नायब सूबेदार क्लर्क सुनील सिंह (जेसी-429449वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार क्लर्क जैपाल सिंह (जेसी-429435वाई), 01 जुलाई
2006

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर लिपिक जी. डी. के रैंक में

सूबेदार सी डी शर्मा (जेसी-578626एम), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर
2006

सूबेदार जी. डी. के रैंक में

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-579808एम), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-579821डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जेसी-579795एम), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-579835डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-579958एच), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-579867वाई), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-579913एच), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-579805वाई), जैक राईफल्स,
01 मई 2006

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-579854डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 मई 2006

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-579842एम), जैक राईफल्स,
01 जून 2006

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-579843पी), जैक राईफल्स, 01 जून
2006

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-579833एल), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार रामा नन्द शर्मा (जेसी-579893ए), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार हरी कृष्ण (जेसी-579893ए), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार अमर नाथ (जेसी-579560एन), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-579575डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार मस्त राम (जेसी-579577एफ), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-579624एन), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार भाग सिंह (जेसी-579625डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार सोम बहादुर राना (जेसी-579635ए), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार बीरी सिंह (जेसी-579748एच), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-579756एफ), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-579758एन), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार उत्तम चन्द (जेसी-579759पी), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-579783एल), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-579811एम), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-579865एन), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार भूप सिंह (जेसी-579882एन), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-579905के), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-579906वाई), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-580002वाई), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-579855के), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2006

सूबेदार लिपिक जी. डी. के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सुभास चन्द्रा सिंह (जेसी-579442ए), जैक
राईफल्स, 01 जून 2006

नायब सूबेदार लिपिक दाता राम (जेसी-579588एन), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार लिपिक नरेन्द्र चौधरी (जेसी-579603एक्स), जैक
राईफल्स, 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार लिपिक सुखबीर सिंह (जेसी-579614एक्स), जैक
राईफल्स, 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार लिपिक रमेश चन्द राना (जेसी-579630एफ), जैक
राईफल्स, 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार लिपिक हरपाल सिंह (जेसी-579631के), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार लिपिक धना सिंह (जेसी-579642डब्ल्यू), जैक
राईफल्स, 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार कमलेश चन्द शर्मा (सं. 13748570ए अब जेसी-580308एफ),
19 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दूर्गा सिंह (सं. 13748589वाई अब जेसी-580309के),
12 अगस्त 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दया राम (सं. 13748590एन अब जेसी-580310वाई),
12 अगस्त 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम लाल (सं. 13747795डब्ल्यू अब जेसी-580311एफ),
23 अगस्त 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दविन्दर सिंह (सं. 3381886एफ अब जेसी-580312के),
19 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 24 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार स्वामी राम (सं. 13749229पी अब जेसी-580314पी),
11 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रन सिंह ठाकुर (सं. 13748680पी अब जेसी-580315एक्स),
12 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रह्म राम (सं. 13749310एफ अब जेसी-580316ए),
12 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदर्शन सिंह ठाकुर (सं. 13749313पी अब
जेसी-580317एच), 12 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीस काल्य (सं. 13756372के अब जेसी-580318एल),
21 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जसवन्त सिंह, एस एम (सं. 13747720वाई अब
जेसी-580319एन), 11 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार यस पॉल (सं. 13748621एल अब जेसी-580320एच),
23 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद नीशाल खान (सं. 13752455एक्स अब
जेसी-580321एल), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजवीर चीता (सं. 13752457एच अब जेसी-580322एन),
18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार समेल खान ढिलों (सं. 13752482एफ अब जेसी-580323डब्ल्यू), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 13752575डब्ल्यू अब जेसी-580324वाई), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सेवा राम (सं. 13749395एच अब जेसी-580325एफ), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 13752753एन अब जेसी-580326के), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गुरचरण सिंह (सं. 13752685एल अब जेसी-580327एम), 18 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 13749068एक्स अब जेसी-580328पी), 14 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक मन्थोज प्रधान (सं. 13751215एन अब जेसी-580313एम), 01 सितम्बर 2006 *

हवलदार लिपिक रविन्दर दत्ता (सं. 13751245एल अब जेसी-580329एक्स), 03 अक्टूबर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार जय सिंह (सं. 13747698वाई अब जेसी-580294एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार बदरी दास (सं. 13747908एन अब जेसी-580295पी), 02 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार योग राज (सं. 13749190एन अब जेसी-580300पी), 04 सितम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13748017एक्स अब जेसी-580301एक्स), 01 सितम्बर 2006

हवलदार रूप लाल (सं. 13748346एन अब जेसी-580302ए), 01 सितम्बर 2006

हवलदार पुरशोत्तम लाल (सं. 13748419पी अब जेसी-580303एच), 01 सितम्बर 2006

हवलदार प्रित्त सिंह (सं. 13748462पी अब जेसी-580304एल), 01 सितम्बर 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13749307एफ अब जेसी-580305एन), 01 सितम्बर 2006

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 13749320एल अब जेसी-580306डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार चम्पन लाल (सं. 13749021एम अब जेसी-580307वाई), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक अश्वनी कुमार विश्वकर्मा (सं. 13751200एल अब जेसी-580296एक्स), 01 सितम्बर 2006

हवलदार लिपिक चन्द्रा सेरवर अचारिया (सं. 3989647वाई अब जेसी-580297ए), 01 सितम्बर 2006

हवलदार लिपिक रन्जन नाथ (सं. 13751205के अब जेसी-580298एच), 01 सितम्बर 2006

हवलदार एस सिंगाराज (सं. 13751226ए अब जेसी-580299एल), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

रिकूट आर टी मनोज कुमार तिवारी (सं. 580117एम अब जेसी-580117एम), 10 दिसम्बर 2005

पैराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-412776एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दौलत सिंह मेनराल (जेसी-412440एन), 14 अगस्त 2006

नायब सूबेदार तारा चन्द्र (जेसी-412645एच), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार बीर बहादुर थापा (जेसी-412796एन), 15 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-412684एफ), 26 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार हरि सिंह (जेसी-412657एक्स), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार हरि हर प्रसाद गिरी (जेसी-412693एच), 01 अक्टूबर 2006

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार समित्तर सिंह गौडल (जेसी-519165डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक प्रताप सिंह चौहान (जेसी-518689एल), 01 अगस्त 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सोदागर सिंह (जेसी-519719के), 12 जुलाई 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-519703वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-519837एक्स), 28 अगस्त 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-519890एच), 01 जुलाई 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार उद्यम सिंह (जेसी-519871एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-519872ऐ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-519892एन), 01 जुलाई 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार देव राज (जेसी-519874एल), 01 सितम्बर 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-519939एन), 22 अगस्त 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जेसी-519893डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार चौहान (जेसी-519888एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुखदेव कुमार (जेसी-519889एन), 23 जून 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार नारायण सिंह खेमता (जेसी-519894वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार अविनाश सिंह (जेसी-519900एफ), 01 जुलाई 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-519903पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार कश्मीरी लाल (जेसी-520007एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द (जेसी-519737एम), 27 अगस्त 2006+
+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से)

नायब सूबेदार सुख देव (जेसी-519738पी), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक हंस राज चम्बियाल (जेसी-519833एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक दर्शन सिंह (जेसी-519816एफ), 01 जून 2006

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दयाल सिंह, शौर्य चक्रा (जेसी-519084डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जेसी-519284एम), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार बलबीर सिंह कौशल (जेसी-518980एक्स), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-519672के), 15 मई 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार बीरा राम (जेसी-519844एन), 13 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-519836पी), 27 अगस्त 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-519855ऐ), 13 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द (जेसी-519859डब्ल्यू), 11 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-519873एच), 01 जून 2006

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-519891एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-519896के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार विजय कुमार हरचन्द (जेसी-519935एक्स), 05 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-519944वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार लशकरी राम ठाकुर (जेसी-519977के), 15 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-519946के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार संजय कुमार (जेसी-520008डब्ल्यू), 12 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार रमेश लाल (जेसी-519982पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार मेहर चन्द (जेसी-520019एच), 22 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-520020एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-520043वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार रामा कान्त (जेसी-519907एल), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हेम राज (जेसी-518976पी), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-518992एम), 01 नवम्बर 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कमलजीत सिंह कटोच (जेसी-519849एम), 15 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार बलविन्द सिंह (जेसी-519932के), 27 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार कुशल सिंह नेगी (जेसी-519933एम), 15 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-519943डब्ल्यू), 21 अगस्त 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

4—424 GI/06

नायब सूबेदार शक्ति चन्द चन्देल (जेसी-519972एल), 23 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-519973एन), 05 अक्टूबर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार सुरिन्द्र कुमार (जेसी-520066ए), 15 सितम्बर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-520103एच), 04 अक्टूबर 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक जगदीश चन्द पटियाल (जेसी-519935एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार लिपिक स्वर्ण कुमार बल (जेसी-519860एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार लिपिक बलवन्त सिंह (जेसी-519952 एक्स), 21 अगस्त 2006+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 3984724एफ अब जेसी-520369के), 17 फरवरी 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3983535एच अब जेसी-520370के), 30 जून 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से)

हवलदार अजीत लाल (सं. 3983657एम अब जेसी-520371एम), 01 मई 2006

हवलदार सोहन (सं. 3985713वाई अब जेसी-520372पी), 04 मई 2006

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 3984175के अब जेसी-520373एक्स), 06 जून 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2006 से)

हवलदार सुशील कुमार (सं. 3985953डब्ल्यू अब जेसी-520374ए), 06 मई 2006

हवलदार डोला सिंह (सं. 3988268डब्ल्यू अब जेसी-520375एच),
20 जून 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 मई 2006 से)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 3984084ए अब जेसी-520376एल),
24 जुलाई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

हवलदार दिदू राम ठाकुर (सं. 3986340एच अब जेसी-520377एन),
01 जून 2006

हवलदार वेद प्रकाश ठाकुर (सं. 3986365पी अब जेसी-520378डब्ल्यू),
01 जून 2006

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 3387112पी अब जेसी-520379वाई),
30 जून 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 जून 2006 से)

हवलदार सुरिन्द्र कुमार (सं. 3387119वाई अब जेसी-520380एन),
24 जुलाई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 जून 2006 से)

हवलदार मेहर सिंह (सं. 3984709के अब जेसी-520381डब्ल्यू),
29 जून 2006

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 3390444के अब जेसी-520382वाई), 19
अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से)

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 3984767एन अब जेसी-520383एफ),
27 जुलाई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 जुलाई 2006 से)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक रविन्द्रा कुमार अचल (सं. 3985675एन अब
जेसी-520384के), 01 जून 2006

हवलदार लिपिक प्रभाती लाल (सं. 3985975पी अब जेसी-
520385एम), 01 जून 2006

हवलदार लिपिक मंगाला प्रसाद सिंह (सं. 3986102डब्ल्यू अब
जेसी-520386पी), 01 जुलाई 2006

हवलदार लिपिक विजय जसवाल (सं. 3985548वाई अब
जेसी-520387एक्स), 11 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3985638ए अब जेसी-520393एल),
01 जुलाई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 मार्च 2006 से)

हवलदार रविन्द्र प्रकाश (सं. 3995296एल अब जेसी-520394एन),
12 मई 2006

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3982612ए अब जेसी-520395डब्ल्यू),
12 मई 2006

हवलदार बहादुर चन्द (सं. 3984184एल अब जेसी-520396वाई),
28 जुलाई 2006

हवलदार झधरी लाल (सं. 3984430एल अब जेसी-520397एफ),
28 जुलाई 2006

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 3984222डब्ल्यू अब जेसी-520398के),
19 अगस्त 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 जून 2006 से)

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 3984945एल अब जेसी-520399एम),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार परस राम (सं. 3983644पी अब जेसी-520400डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार धर्म सिंह (सं. 3983749वाई अब जेसी-520388ए), 22 मई
2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 मार्च 2006 से)

हवलदार भीम सिंह (सं. 3983770एफ अब जेसी-520389एच),
01 अप्रैल 2006

हवलदार किशन चन्द (सं. 3983775ए अब जेसी-520390एक्स),
10 जुलाई 2006

हवलदार बिहारी लाल (सं. 3983765डब्ल्यू अब जेसी-520391ए),
10 जुलाई 2006

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 3983638एफ अब जेसी-520392एच),
01 सितम्बर 2006

राजपूताना राईफलस

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) के रैंक में

घनश्याम (जेसी-469871वाई), 13 मई 2006

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करान्डे राजेन्द्र मारुति (सं. 4558424एल अब जेसी-559808वाई), 17 मई 2006@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 4555485पी अब जेसी-569809एफ), 05 जून 2006@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 मई 2006)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 4557576एक्स अब जेसी-569810डब्ल्यू), 12 जून 2006@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 मई 2006)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4557668के अब जेसी-569811वाई), 12 जून 2006#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2006)

हवलदार श्री शिवराज सिंह भादोरिया (सं. 4559948डब्ल्यू अब जेसी-569812एफ), 04 जून 2006

हवलदार हीरा सिंह (सं. 8031471एम अब जेसी-569813के), 15 अगस्त 2006##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2006)

हवलदार मुखतियार सिंह (सं. 4556262के अब जेसी-569814एम), 15 अगस्त 2006###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2006)

हवलदार भैया लाल शुक्ला (सं. 4556295पी अब जेसी-569815पी), 01 अगस्त 2006

हवलदार चैतन्य बेहरा (सं. 4558077पी अब जेसी-569816एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 4559076वाई अब जेसी-569817ए), 15 अगस्त 2006\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2006)

हवलदार अशोक कुमार सिंह यादव (सं. 4554565ए अब जेसी-569800एम), 01 जून 2006@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006)

हवलदार रामटेके सुरेश यादवराओ (सं. 4560041पी अब जेसी-569801पी), 19 जून 2006@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006)

हवलदार बनवारी लाल यादव (सं. 4554920एम अब जेसी-569802एक्स), 08 जून 2006@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006)

हवलदार नारायण वेहरा (सं. 4555574एन अब जेसी-569803ए), 13 जून 2006#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार कमल चन्द्र रे (सं. 4554257ए अब जेसी-569804एच), 25 मई 2006##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार गंगा सरण सिंह (सं. 298359एक्स अब जेसी-569805ए), 02 जून 2006

हवलदार मनोज कुमार ठाकुर (सं. 8031373एम अब जेसी-569806एन), 21 जुलाई 2006###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार मोली राम चोबदार (सं. 4557705एम अब जेसी-569807डब्ल्यू), 21 जुलाई 2006\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार जगविन्दर सिंह (सं. 4465350एन अब जेसी-509384के), 21 जून 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 4466996के अब जेसी-509385एम), 14 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4465810एच अब जेसी-509386पी), 14 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार तिलकराज सिंह (सं. 4466968एक्स अब जेसी-509387एक्स), 05 जून 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 4465884एक्स अब जेसी-509388ए), 22 जून 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार गुरसेवक सिंह (सं. 4465806ए अब जेसी-509389एच), 05 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार धर्म सिंह चौहान (सं. 4463582एम अब जेसी-509390एक्स), 10 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार सूबा सिंह (सं. 4467578एफ अब जेसी-509391ए), 23 जून 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार संतोख सिंह (सं. 4465940एल अब जेसी-509392एच), 03 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार मेजर सिंह (सं. 4463129पी अब जेसी-509393एल), 03 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4464473एम अब जेसी-509394एन), 08 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) अकोलकर भगवान जगननाथ (सं. 4466582एक्स अब जेसी-509395डब्ल्यू), 07 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 4467280एक्स अब जेसी-509396वाई), 05 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 4469992वाई अब जेसी-509397एफ), 15 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 4468277के अब जेसी-509398के), 17 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 1616042एन अब जेसी-509399एम), 19 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 4463966एफ अब जेसी-509400डब्ल्यू), 22 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 4468457एम अब जेसी-509401वाई), 28 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 4463256के अब जेसी-509402एफ), 31 जुलाई 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार तेजा सिंह (सं. 4466894एन अब जेसी-509403के), 07 सितम्बर 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4466566ए अब जेसी-509404एम), 07 सितम्बर 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार पालजीत सिंह (सं. 4466805के अब जेसी-509405पी), 07 सितम्बर 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार जागीर सिंह (सं. 4463084ए अब जेसी-509406एक्स), 07 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 4465167के अब जेसी-509407ए), 07 अगस्त 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2006 से दी जाती है)

असम रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार देवाजित गोगोड़ (सं. 4357887एफ अब जेसी-549127पी), 27 मार्च 2006/17 नवम्बर 2004

हवलदार दिपेन बोरा (सं. 4360020पी अब जेसी-549139के),
27 मार्च 2006/30 जून 2005

हवलदार बिष्णु प्रसाद गुरूंग (सं. 5750687एम अब
जेसी-549140वाई), 27 मार्च 2006/30 जून 2005

हवलदार मनोज कुमार गुरूंग (सं. 5449542डब्ल्यू अब
जेसी-549141एफ), 27 मार्च 2006/30 जून 2005

हवलदार हेम बहादुर राणा (सं. 5448857एन अब जेसी-549142के),
27 मार्च 2006/30 जून 2005

हवलदार कोदार मंगेर (सं. 5449697एल अब जेसी-549143एम),
27 मार्च 2006/30 जून 2005

हवलदार हेम बहादुर थापा (सं. 5449774पी अब जेसी-549144पी),
02 मई 2006/04 जुलाई 2005

हवलदार कार्तिक सिंहा (सं. 13614724ए अब जेसी-549178एच),
14 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लालेंगजवा (सं. 4355101एल अब जेसी-549182एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार सुबोध चंद्रा नर्जरी (सं. 4355678एल अब
जेसी-549196एल), 24 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार अमीत कुमार नाथ (सं. 4426546के अब
जेसी-549203डब्ल्यू), 04 मार्च 2006/28 अगस्त 2005

हवलदार जुनु सिंहा (सं. 4356362एल अब जेसी-549204वाई),
24 मई 2006/01 सितम्बर 2005

हवलदार निजेद्रा बरूआ (सं. 4357228एम अब जेसी-549205एफ),
01 मार्च 2006/10 नवम्बर 2005

हवलदार चित्तर बहादुर (सं. 4355172एम अब जेसी-549206के),
14 मार्च 2006/27 नवम्बर 2005

हवलदार भद्रा गोगोइ (सं. 4362655एम अब जेसी-549207एम),
02 मार्च 2006/15 दिसम्बर 2005

हवलदार खामगौ (सं. 4353997वाई अब जेसी-549208पी),
17 अप्रैल 2006/23 दिसम्बर 2005

हवलदार लैशरम भोरोत सिंह (सं. 4355447पी अब
जेसी-549209एक्स), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार सुखेद्रा सिंहा (सं. 4355200एन अब जेसी-549210एम),
27 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार मनि बाबु सिंघा (सं. 4356262ए अब जेसी-549211पी),
19 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार चरन चंद्रा दास (सं. 4355670एल अब
जेसी-549212एक्स), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार दल बहादुर दारलमि (सं. 10244526एन अब
जेसी-549214एच), 14 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 4356731एक्स अब
जेसी-549215एल), 17 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार बिहारी सिंघा (सं. 4356254एफ अब जेसी-549216एन),
15 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार पी एस फिलिप अनल (सं. 4355898वाई अब
जेसी-549217डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार मोहम्मद मोहर अलि (सं. 4355771एम अब
जेसी-549218वाई), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार एच शांति सिंह (सं. 4357325के अब जेसी-549219एफ),
17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार चिंखममंग पाईते (सं. 4357762के अब
जेसी-549220डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार मलखम दवंगालियना (सं. 4360047एम अब
जेसी-549221वाई), 17 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार निंगथाउजाम सनहाल सिंह (सं. 4356532के अब
जेसी-549222एफ), 26 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार चक्राधर दास (सं. 4356693एम अब जेसी-549223के),
25 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार सुकुमार बसुमतरी (सं. 4357155एल अब
जेसी-549224एम), 19 मई 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार गुलखोहेन खोउथंग (सं. 4358223ए अब जेसी-549225पी),
10 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार बाबुल सैकिया (सं. 4358778एफ अब
जेसी-549226एक्स), 10 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार एस आर जाम अनल (सं. 4359141के अब
जेसी-549227ए), 02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार डब्लू एस कोरुवंग (सं. 4359130एक्स अब
जेसी-549228एच), 02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार गोपाल बहादुर (सं. 4359303एच अब जेसी-549229एल),
02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार ए नोबिन सिंघा (सं. 4359271एम अब जेसी-549230ए),
02 मार्च 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार एल एच मोंगम अनल (सं. 4357360एम अब
जेसी-549231एच), 20 अप्रैल 2006/06 जनवरी 2006

हवलदार देवाजित सिंघा (सं. 4358786ए अब जेसी-549232एल),
10 अप्रैल 2006/19 जनवरी 2006

हवलदार ब्रोजा बिहारी सिंघा (सं. 8031182एक्स अब
जेसी-549233एन), 17 मार्च 2006/01 फरवरी 2006

हवलदार यम बहादुर छेत्री (सं. 4356433एफ अब जेसी-549234डब्ल्यू), 17 मार्च 2006/01 फरवरी 2006

हवलदार साइकुगा (सं. 4356026वाई अब जेसी-549235वाई), 08 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006

हवलदार पतिश चंद्रा राय (सं. 4358928एम अब जेसी-549236एफ), 15 मई 2006/01 फरवरी 2006

हवलदार बहिराम सुत्राधार (सं. 4359021एफ अब जेसी-549237के), 18 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006

हवलदार जामनी कांता राय (सं. 4359216एल अब जेसी-549238एम), 10 अप्रैल 2006/27 फरवरी 2006

हवलदार बिरेन राभा (सं. 4356293ए अब जेसी-549241एम), 06 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006

हवलदार नोरेन बीराह (सं. 10244503एम अब जेसी-549242पी), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006

हवलदार नीला कांता डेका (सं. 4355409वाई अब जेसी-549243एक्स), 16 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार नंदलाल राभा (सं. 4355570एन अब जेसी-549244ए), 16 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार वुगंजापाउ (सं. 4354829एम अब जेसी-549245एच), 01 मार्च 2006

हवलदार खुम बहादुर थापा (सं. 4356206एफ अब जेसी-549246एल), 01 मार्च 2006

हवलदार अनंदा बोरदोलोई (सं. 4355590एफ अब जेसी-549247एन), 25 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार लाइमोल नाइसियाल (सं. 4357258के अब जेसी-549248डब्ल्यू), 25 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार थांगखोगिन (सं. 4357722एच अब जेसी-549249वाई), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006

हवलदार दुलाल चंद्र नाथ (सं. 4358710ए अब जेसी-549250एन), 09 मई 2006/01 मार्च 2006

हवलदार मुना चिरु (सं. 4355140के अब जेसी-549251डब्ल्यू), 03 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार देवा कुमार भुयान (सं. 4355680एच अब जेसी-549252वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार करम ओकेंद्रा सिंह (सं. 4356471एक्स अब जेसी-549253एफ), 06 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार रफिकुल इस्लाम पठान (सं. 4356792पी अब जेसी-549254के), 06 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार गुनेन कुमार नाथ (सं. 4356799वाई अब जेसी-549255एम), 06 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार इने (सं. 4356792पी अब जेसी-549254के), 06 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार चिनगेंथुग (सं. 4357423के अब जेसी-549257एक्स), 30 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार कुजाधन सिंघा (सं. 4357600वाई अब जेसी-549258ए), 26 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार सुनील बरूआ (सं. 4355647एल अब जेसी-549259एच), 05 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार अथलम्बा सिंघा (सं. 435756एक्सय अब जेसी-549260एक्स), 05 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार श्याम बहादुर थापा (सं. 4356338पी अब जेसी-549261ए), 26 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार अवनि बारुकिल (सं. 4355646एच अब जेसी-549262एच), 10 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार सनामल खाखलरि (सं. 4356271एफ अब जेसी-549263एल), 05 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार तिलकराम छेत्रि (सं. 4356287एम अब जेसी-549264एन), 08 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार वाई रंजन सिंह (सं. 4362444के अब जेसी-549265डब्ल्यू), 08 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार जगत देहिगिया (सं. 4356416एफ अब जेसी-549266वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार अमुल्या चंद्रा दास (सं. 4356456एच अब जेसी-549267एफ), 15 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार दिलिप कुमार रसैली (सं. 4356431डब्ल्यू अब जेसी-549268के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रविन्द्रा सिन्हा (सं. 4357862पी अब जेसी-549269एम), 10 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार पॉवसुवंथांग जॉ (सं. 4356672डब्ल्यू अब जेसी-549270एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार कुजा दास (सं. 4356704एम अब जेसी-549271के), 01 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार अनील गोगोई (सं. 4356817डब्ल्यू अब जेसी-549272एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 4357906एफ अब जेसी-549273पी), 17 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार एम बिरेद्रा सिंघा (सं. 4358685एम अब जेसी-549274एक्स), 17 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार दीपक फुलामे मुगर (सं. 4357144वाई अब जेसी-549275ए), 15 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार रोमेन चंद्रा रॉय (सं. 4357240एन अब जेसी-549276एच), 13 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार लालरिवमा (सं. 4361647एफ अब जेसी-549277एल), 05 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार प्रदीप दास (सं. 4356245ए अब जेसी-549278एन), 30 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार रंजीत देवराजा (सं. 4357755एन अब जेसी-549279डब्ल्यू),
15 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार सईखुप दिमगेल (सं. 4357813एम अब जेसी-549280एल),
16 मई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार पॉतिलाल वाईफाई (सं. 4357290वाई अब जेसी-549281एन), 15 मई 2006/01 मई 2006

हवलदार कृष्णा बहादुर छेत्रि (सं. 4359606वाई अब जेसी-549282डब्ल्यू), 15 मई 2006/01 मई 2006

हवलदार स्वपन कुमार वर्मन (सं. 4356781एच अब जेसी-549283वाई), 24 जून 2006/01 मई 2006

हवलदार मोहम्मद अलिफुदिन अहमद (सं. 4356809एक्स अब जेसी-549284एफ), 01 मई 2006

हवलदार नंदा किशोर राजबोगशि (सं. 4358021वाई अब जेसी-549287पी), 02 जून 2006/01 नवम्बर 2005

हवलदार सईमिनथांग चोगलोइ (सं. 4363387ए अब जेसी-549288एक्स), 01 जुलाई 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार महेश नेवार (सं. 4355083एन अब जेसी-549289ए), 09 जून 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार थांगवाय कुकी (सं. 4356824एम अब जेसी-549290पी), 12 जून 2006/28 फरवरी 2006

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 4357921डब्ल्यू अब जेसी-549291एक्स), 08 जुलाई 2006/01 मार्च 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 4351152एल अब जेसी-549294एल), 14 जुलाई 2006/01 मार्च 2006

हवलदार रुपेश्वर गोगोई (सं. 4355562पी अब जेसी-549296डब्ल्यू), 09 जून 2006/30 मार्च 2006

हवलदार एम के रामसिईशिंग (सं. 4358275डब्ल्यू अब जेसी-549297वाई), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार बिधान मेक (सं. 4358419एन अब जेसी-549298एफ), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार वाई भागिरथ सिंघा (सं. 4355856ए अब जेसी-549299के), 20 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार के एल जेम्स अनल (सं. 4355910एन अब जेसी-549300एन), 09 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार सुशील सिन्हा (सं. 4356270वाई अब जेसी-549301डब्ल्यू), 09 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार नंगोमन नोकवी (सं. 4358248एम अब जेसी-549302वाई), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार रतुल दास (सं. 4361960एम अब जेसी-549303एफ), 15 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार भुधार माली (सं. 4358770पी अब जेसी-549305एम), 21 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार सुनील सिन्हा (सं. 4358976एन अब जेसी-549307एक्स), 07 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार लाल्हमिंगसांग (सं. 4358981एफ अब जेसी-549308ए), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार पुष्पा कांता बोरा (सं. 4357480एल अब जेसी-549309एच), 29 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार जंग बहादुर थापा (सं. 5449755के अब जेसी-549310एक्स), 14 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार रत्ना कुमार कलिता (सं. 4359218एफ अब जेसी-549311ए), 20 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार मनिंद्रा सिन्हा (सं. 4359263एन अब जेसी-549312एच), 23 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार कबित चंद्रा बोरो (सं. 4359872वाई अब जेसी-549313एल), 19 जून 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार शिवेंद्रा कुमार गुयंग (सं. 4358834पी अब जेसी-549314एन), 14 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006

हवलदार बाबु राम थापा (सं. 4362424डब्ल्यू अब जेसी-549316वाई), 15 जुलाई 2006/01 मई 2006

हवलदार भास्कर सिन्हा (सं. 4358915एम अब जेसी-549317ए), 12 जून 2006/01 मई 2006

हवलदार लखेश्वर बोराह (सं. 4356441ए अब जेसी-549318के), 09 जून 2006/07 मई 2006

हवलदार लील बहादुर प्रधान (सं. 4357896एच अब जेसी-549319एम), 08 अगस्त 2006/16 मई 2006

हवलदार तिल बहादुर छेत्रि (सं. 4356249डब्ल्यू अब जेसी-549320एफ), 09 जून 2006/17 मई 2006

हवलदार भुपेंद्रा कुमार सिन्हा (सं. 13615011एफ अब जेसी-549321के), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार एल के पॉचिंग अनल (सं. 4355872ए अब जेसी-549322एम), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार राधा कृष्णा सिंघा (सं. 4355024पी अब जेसी-549323पी), 26 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार रोगांग कॉलुन अनल (सं. 4355844एन अब जेसी-549324एक्स), 04 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार दोउखोलुन बाईति (सं. 4356478एफ अब जेसी-549325ए), 26 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार प्रितम जमतिथा (सं. 4357428एच अब जेसी-549326एच), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार ए नाबा कुमार सिंघा (सं. 4357166एक्स अब जेसी-549327एल), 26 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार एस आर मोहनिम अनल (सं. 4357375पी अब जेसी-549328एन), 27 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार नेत्रा सिंह (सं. 4358397ए अब जेसी-549330एल), 24 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार केशव कुमार देव (सं. 4356626एफ अब जेसी-549332डब्ल्यू), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार हरिदास सिंघा (सं. 4355625एम अब जेसी-549334एफ), 10 जून 2006/01 जून 2006

हवलदार निरेन बोरदोलोई (सं. 4358511एम अब जेसी-549335के), 20 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार एम जरमा सिंह (सं. 7430934एफ अब जेसी-549336एम), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार समेंद्रा देव बर्मन (सं. 4356644के अब जेसी-549337पी), 16 जुलाई 2006/01 जून 2006

हवलदार लालरिनवामा (सं. 4357559एन अब जेसी-549349के), 03 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006

हवलदार तरूण बोरगोहाई (सं. 4356161एन अब जेसी-549350वाई), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार/लिपिक पॉवजालाम लहभोम (सं. 4355449ए अब जेसी-549239पी), 28 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार/लिपिक बलदेव सिंह (सं. 13750070एफ अब जेसी-549240के), 18 मार्च 2006/01 मार्च 2006

हवलदार/लिपिक नंदलाल सिंह (सं. 4357889एम अब जेसी-549339ए), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक जयबीर (सं. 4358284एक्स अब जेसी-549340पी), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक सुरेश कुमार (सं. 4358285ए अब जेसी-549341एक्स), 19 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक गोविंद भल्लव (सं. 4358287एल अब जेसी-549342ए), 26 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक धरमबीर (सं. 4358295के अब जेसी-549344एल), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक टी आर सुब्रामनी (सं. 2586397एन अब जेसी-549345एन), 26 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक विजया नंद मोहंति (सं. 4358299ए अब जेसी-549346डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

हवलदार/लिपिक करनैल सिंह बामेल (सं. 4358300के अब जेसी-549347वाई), 01 जुलाई 2006

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 9089110पी अब जेसी-593442एल), 24 जून 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राम दिता (सं. 9087998के अब जेसी-593443एन), 08 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार (सं. 9089141पी अब जेसी-593451एम), 14 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 26 जुलाई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 9087729एक्स अब जेसी-593452पी), 29 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 9086748डब्ल्यू अब जेसी-593453एक्स), 24 जून 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9085987वाई अब जेसी-593454ए), 15 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्दर (सं. 9089214डब्ल्यू अब जेसी-593455एच), 11 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-528820एल), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-529004एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528650एम), 01 जून 2006

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) नन्दन सिंह (जेसी-528396एन), 01 जून 2006

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्मशिक्षक) तोता राम (जेसी-109487पी), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर (म्यूजिशियन) के रैंक में

सूबेदार (म्यूजिशियन) चित्रा सिंह (जेसी-528789के), 16 अप्रैल 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह (जेसी-529555एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मातवर सिंह (जेसी-529479एल), 07 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार किशन सिंह शाह (जेसी-529458पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-529534डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लखपत सिंह (जेसी-529151के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार कुलदेव सिंह (जेसी-529157एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार रत्तन सिंह (जेसी-529509एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बरिन्द्र सिंह (जेसी-529535वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-529569एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जेसी-529505एफ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार कुँवर सिंह, वीर चक्र (जेसी-529524एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार दान सिंह (जेसी-529516एन), 05 मई 2006
 नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-529536एफ), 05 मई 2006
 नायब सूबेदार दिगम्बर सिंह (जेसी-529539पी), 06 मई 2006
 नायब सूबेदार जगदम्बा प्रसाद (जेसी-529537पी), 13 मई 2006
 नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-529557एक्स), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार भुपाल सिंह (जेसी-529558ए, 01 जून 2006
 नायब सूबेदार गणेश चन्द्र (जेसी-529559एच), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार बिरेन्द्र कुमार (जेसी-529542पी), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-529620एफ), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार मस्तान सिंह (जेसी-529564एन), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार सुरेशा नन्द (जेसी-529565डब्ल्यू), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार रेवत सिंह (जेसी-529580एल), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529645एन), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार विशाल मणी (जेसी-529622एम), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जेसी-529623पी), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार प्रभु दयाल (जेसी-529624एक्स), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-529592ए), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार भाग चन्द सिंह (जेसी-529594एल), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-529660एच), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-529627एल), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार सरदार सिंह पेंवार (जेसी-529625ए), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार भरत सिंह चौहान (जेसी-529502एन), 18 जून 2006

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेशा नन्द जोशी (जेसी-529261वाई),
 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार (लिपिक) रतन लाल (जेसी-529314एम), 01 अप्रैल
 2006
 नायब सूबेदार (लिपिक) कैलाश चन्द भट्ट (जेसी-529315पी),
 01 मई 2006
 नायब सूबेदार (लिपिक) दया राम खोला (जेसी-529329पी),
 01 जून 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4070407एम अब जेसी-530011के),
 07 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत लाल (सं. 4069091वाई अब जेसी-530012एम),
 01 अप्रैल 2006

हवलदार सुदर्शन सिंह (सं. 4068283के अब जेसी-530013पी),
 11 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह रावत (सं. 4067438एफ अब
 जेसी-530014एक्स), 18 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार रणबीर सिंह (सं. 4067611ए अब जेसी-530015ए), 18 मई
 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार शिवा प्रसाद (सं. 4067687ए अब जेसी-530016एच),
 18 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह रावत (सं. 4067180वाई अब जेसी-530017एल),
 01 मई 2006

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4067406वाई अब जेसी-530018एन),
 22 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 13 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार शिव सिंह (सं. 4063458एक्स अब जेसी-530019डब्ल्यू),
 01 जून 2006

हवलदार भुपाल सिंह (सं. 4065099एन अब जेसी-530021एन),
 01 जुलाई 2006

हवलदार बलबीर सिंह रावत (सं. 4066208एफ अब
 जेसी-530022डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

हवलदार मानेन्द्र सिंह (सं. 4067274डब्ल्यू अब जेसी-530023वाई),
 08 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) छत्तरपाल सिंह (सं. 1067116एफ अब
 जेसी-530020एल), 01 जुलाई 2006

सं 39, दिनांक 27 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार जी डी के पद में

नायब सूबेदार सन्त विजय यादव (जेसी-265257एच), 03 अगस्त 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-267780एम), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार बृजेश कुमार (जेसी-265506डब्ल्यू), 29 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार आर पान्डिया राज (जेसी-264694डब्ल्यू), 03 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2006×

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-265808एच), 23 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-263756वाई), 22 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार सुरेन कुमार क्षेत्री (जेसी-265887एच), 04 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार त्रिभुवन सिंह (जेसी-265164एन), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार रामेश्वर दसाल सैनी (जेसी-265687एम), 02 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-263513एन), 19 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-265101एल), 03 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार उत्तम दास (जेसी-267324एफ), 12 अक्टूबर 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-265863वाई), 23 सितम्बर 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-266300एल), 07 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार राधेश्याम सिंह यादव (जेसी-266243पी), 03 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार बलजीत कुमार (जेसी-267823एक्स), 12 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार एस जवाहर (जेसी-267276एम), 16 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006×

नायब सूबेदार सुरीन्दर पाल (जेसी-265062एक्स), 17 अगस्त 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-265018एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार भजन लाल (जेसी-263296एच), 24 मई 2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार बलबीर नाथ (जेसी-266312ए), 07 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-263065एम), 06 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार मनोरंजन अधिकारी (जेसी-264697के), 01 जुलाई 2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-2647001एफ), 27 मई 2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार ईश्वर दयाल (जेसी-264700वाई), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार करुण कुमार सिंह (जेसी-266470पी), 05 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006×

नायब सूबेदार फ्रान्सिस अरुल धनपाल (जेसी-263915एल), 02 जुलाई 2006/01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार ए अरुमय्यानाथन (जेसी-264818ए), 08 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-264932एक्स), 26 जुलाई 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार शिव कुमार शर्मा (जेसी-265606एफ), 25 अक्टूबर 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार गोलांम आझदानी (जेसी-262996एल), 06 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मुन्ना लाल ओझा (जेसी-267264एक्स), 01 अक्टूबर 2006/16 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-265171के), 06 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-266319के), 08 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार राजीन्दर कुमार शर्मा (जेसी-264395एक्स), 05 जून 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार रामानन्द प्रसाद सिंह (जेसी-265316के), 25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-263120एक्स), 22 जुलाई 2005/01 मार्च 2005×

नायब सूबेदार प्रदीप चेटीया (जेसी-261431एम), 25 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रमेश चन्द चौधरी (जेसी-263993एच), 04 मार्च 2005/01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-265301एफ), 04 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार नसीरुल हक चौधरी (जेसी-262679एच), 21 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-264650वाई), 05 फरवरी 2005/
01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार (जेसी-263398वाई), 21 जून 2005/
01 मार्च 2005×

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-263693एफ), 06 सितम्बर 2005/
14 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार वेन्काटेश एच आर (जेसी-263230एम), 06 जून
2005/01 अप्रैल 2005×

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-265012एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-263760एफ), 06 मई 2005/
01 अप्रैल 2005×

नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह (जेसी-265496के), 13 जून 2005/
01 जून 2005×

नायब सूबेदार फकीर चन्द (जेसी-264777एफ), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राधा सिंह (जेसी-263110एफ), 14 मई 2005/01 अप्रैल
2005×

नायब सूबेदार एन राज केशोर सिन्हा (जेसी-266372पी), 25 जनवरी
2006/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार ब्रम्हजीत सिंह (जेसी-263201एक्स), 04 अप्रैल 2005/
01 अप्रैल 2005×

नायब सूबेदार छत्तर सिंह (जेसी-266406एक्स), 20 अगस्त 2005/
01 जून 2005×

नायब सूबेदार स्वपन दास (जेसी-261875डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार भजन लाल (जेसी-266475एन), 18 दिसम्बर 2005/
05 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार शिव कुमार त्रिपाठी (जेसी-262669वाई), 01 मार्च
2004/25 फरवरी 2004×

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

सत्यपाल शर्मा
अवर सचिव

सं. 40, दिनांक 29 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल (समकक्ष) से कर्नल (समकक्ष) के पद पर।

बी के दत्ता (एम आर-3265एच), 12 अप्रैल 1997

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक स से चि से (कार्मिक)

सं. 41, दिनांक 29 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

31692 वी एम नायर, एएडी, 16 दिसम्बर 2004

37576 पंकज पंत, इंफैंट्री, 30 अप्रैल 2006

30632 एस चन्द्र शेखर, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

35714 गुरदीप सिंह, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2004

35811 परमजीत सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

36875 जयक्रित, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

37657 एस एस मेंहदी, एएडी, 30 अप्रैल 2006

38319 संजीव शेरवरी, इंजीनियर्स, 22 दिसम्बर 2005

38368 ललन चौबे, आर्टी, 22 दिसम्बर 2005

38837 संजीव सहगल, इंफैंट्री, 07 जून 2006

38965 आई पी सिंह, इंफैंट्री, 07 जून 2006

38987 हीरेक कुमार पौल, आर्टी, 07 जून 2006

39007 अरुण अम्बरे, एओसी, 07 जून 2006

33724 सुखदेव कुमार, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2006

38856 डी सी उपाध्याय, इंफैंट्री, 07 जून 2006

38925 सी एस बंसल, एएससी, 07 जून 2006

अजय गोयल
उप निदेशक
एम एस 8ए

सं. 42, दिनांक 28 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम, आर्म

31138 आर एस सिरोही, ए सी

एस एल. 3902 तेज सिंह बरार, एस एल टीओ टी--16 दिसम्बर 2004

46911 जल सिंह, ए ओ सी--09 नवम्बर 2005

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एम एस 8सी

सं. 43, दिनांक 29 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

सं.	वर्तमान टी.जे. सं.	रैंक	नाम	यूनिट	कब से
1	2	3	4	5	6
10389751	टी.जे.-5017	हवलदार	शिव मंगल शरण पटेल	151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	01 जनवरी 2003
10466338	टी.जे.-5018	--वही--	राम राज	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	22 अक्टूबर 2002
10135022	टी.जे.-5019	--वही--	राजवीर सिंह	150 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	25 फरवरी 2003
10135014	टी.जे.-5020	--वही--	किशन चंद	--वही--	--वही--
10135031	टी.जे.-5021	--वही--	वीरेन्द्र सिंह	--वही--	--वही--
10466522	टी.जे.-5022	--वही--	सुखबीर सिंह	--वही--	--वही--
10466535	टी.जे.-5023	--वही--	राजेन्द्र सिंह	--वही--	--वही--
10466551	टी.जे.-5024	--वही--	धर्मवीर सिंह	--वही--	--वही--
10466562	टी.जे.-5025	--वही--	बलजीत सिंह	--वही--	--वही--
10466586	टी.जे.-5026	--वही--	रघुबीर सिंह	--वही--	--वही--
10466622	टी.जे.-5027	--वही--	चंद्र भान	--वही--	--वही--
10466574	टी.जे.-5028	--वही--	हरजिंदर सिंह	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	01 मई 2003
10361878	टी.जे.-5029	--वही--	जागीर सिंह	126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ.	--वही--
10361909	टी.जे.-5030	--वही--	अर्जुन सिंह	--वही--	13 मई 2003
10452057	टी.जे.-5031	--वही--	आर. तमिलअर्सन	117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द गार्ड्स	11 जनवरी 2003
10452125	टी.जे.-5032	--वही--	एस. कुमार	--वही--	--वही--
10314714	टी.जे.-5033	--वही--	मूल चंद शर्मा	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	27 मार्च 2003
10314625	टी.जे.-5034	--वही--	सत्यवीर सिंह	--वही--	27 मार्च 2003
10314749	टी.जे.-5035	--वही--	शिव दर्शन कोरी	--वही--	27 मार्च 2003
10314523	टी.जे.-5036	--वही--	श्री प्रकाश शर्मा	--वही--	27 मार्च 2003
10119264	टी.जे.-5037	--वही--	जादव दिलीप हनमंतराव	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाइट	01 अप्रैल 2003
10373891	टी.जे.-5038	--वही--	ज्ञान बहादुर राय	107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी. आर.	26 मई 2003
10436371	टी.जे.-5039	--वही--	गिरीश बाबू	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	20 जून 2003
10466710	टी.जे.-5040	--वही--	जय सिंह	150 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	25 फरवरी 2003
10466572	टी.जे.-5041	--वही--	रामवीर	--वही--	25 फरवरी 2003
10302367	टी.जे.-5042	--वही--	राम किशोर	123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	01 अगस्त 2003
10452129	टी.जे.-5043	--वही--	आर अर्जुनन	117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द गार्ड्स	11 जनवरी 2003
10452266	टी.जे.-5044	--वही--	थामस पी. टी.	--वही--	11 जनवरी 2003
10436870	टी.जे.-5045	--वही--	जवाहर	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	24 जुलाई 2003
10166094	टी.जे.-5046	--वही--	के. वासुदेवन	110 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	01 अगस्त 2003

1	2	3	4	5	6
10134871	टी.जे.-5047	हवलदार	वजीर सिंह	105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज राइफ	02 अप्रैल 2003
10182195	टी.जे.-5048	--वही--	मनोज कुमार	111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ	14 अगस्त 2003
10119350	टी.जे.-5049	--वही--	शेख हसन वलीसाहेब	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	01 अप्रैल 2003
10119523	टी.जे.-5050	--वही--	पवार सुरेश तुलसीराम	--वही--	--वही--
10119697	टी.जे.-5051	--वही--	टंडाले गोविन्द	--वही--	--वही--
10119878	टी.जे.-5052	--वही--	शिंदे अनिल मधुकर	--वही--	--वही--
10227422	टी.जे.-5053	--वही--	मोती राम	118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	01 अक्टूबर 2003
10361897	टी.जे.-5063	--वही--	रणजीत सिंह	126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ.	01 नवम्बर 2003
10466497	टी.जे.-5064	--वही--	राजिन्द्र सिंह	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	09 जुलाई 2003
10182005	टी.जे.-5065	--वही--	सदा शिव गिरी	111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ	14 अगस्त 2003
10182021	टी.जे.-5066	--वही--	मन्नु सिंह	--वही--	--वही--
10479456	टी.जे.-5067	--वही--	कुलदीप सिंह	153 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा	01 सितम्बर 2003
10197894	टी.जे.-5068	--वही--	जगिन्दर पाल	--वही--	01 अक्टूबर 2003
10479679	टी.जे.-5069	--वही--	संतोष कुमार	--वही--	01 अक्टूबर 2003
10479391	टी.जे.-5070	--वही--	बलबीर सिंह	103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट	22 अक्टूबर 2003
10479714	टी.जे.-5071	--वही--	बाल कृष्ण	--वही--	--वही--
10479671	टी.जे.-5072	--वही--	अश्वनी कुमार	--वही--	--वही--
10479785	टी.जे.-5073	--वही--	संतोख सिंह	--वही--	--वही--
10479716	टी.जे.-5074	--वही--	सुभाष चंद्र	--वही--	--वही--
10479741	टी.जे.-5075	--वही--	दलीप कुमार अग्निहोत्री	--वही--	--वही--
10479709	टी.जे.-5076	--वही--	सुरजीत सिंह	--वही--	01 दिसम्बर 2003
10260057	टी.जे.-5077	--वही--	गोवर्धन महंत	120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	--वही--
10260256	टी.जे.-5078	--वही--	महेन्द्र जेना	--वही--	--वही--
10260224	टी.जे.-5079	--वही--	गोवर्धन स्वैन	--वही--	--वही--
10260258	टी.जे.-5080	--वही--	राधामोहन साहू	--वही--	--वही--
10260197	टी.जे.-5081	--वही--	शशी भूषण महंत	--वही--	--वही--
10260213	टी.जे.-5082	--वही--	शरत चंद्र बिस्वाल	--वही--	--वही--
10260333	टी.जे.-5083	--वही--	दिलीप कुमार प्रधान	--वही--	--वही--
10260240	टी.जे.-5084	--वही--	मिहिर कुमार मल्ल	--वही--	--वही--
10227593	टी.जे.-5085	--वही--	कोठी राम	118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	01 जनवरी 2004
10373966	टी.जे.-5086	--वही--	सोनाम छिरिंग लेपचा	107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी. आर.	13 अक्टूबर 2003
10373841	टी.जे.-5087	--वही--	कल्याण भुजेल	--वही--	--वही--
10361927	टी.जे.-5088	--वही--	राम सिंह	126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ	06 जनवरी 2004

1	2	3	4	5	6
10361929	टी.जे.-5089	हवलदार	ब्रह्मा नंद	126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ	06 जनवरी 2004
10361939	टी.जे.-5090	--वही--	धर्म चंद	--वही--	--वही--
10290474	टी.जे.-5091	--वही--	सलीम के. ए.	122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	13 फरवरी 2004
10290764	टी.जे.-5092	--वही--	प्रदीपन के.	--वही--	--वही--
10290844	टी.जे.-5093	--वही--	मुरलीधरन ई.	--वही--	--वही--
10290690	टी.जे.-5094	--वही--	कलाधर पणिकर वी.	--वही--	--वही--
10290701	टी.जे.-5095	--वही--	प्रसाद एम	--वही--	--वही--
10290820	टी.जे.-5096	--वही--	आरोक्यास्वामी पी.	122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	--वही--
10290769	टी.जे.-5097	--वही--	मनोज बी. पी.	--वही--	--वही--
10290839	टी.जे.-5098	--वही--	महेन्द्र लाल	--वही--	--वही--
10290911	टी.जे.-5099	--वही--	गोविन्दन के.	--वही--	--वही--
10290916	टी.जे.-5100	--वही--	रामचंद्रन एम.	--वही--	--वही--
10291031	टी.जे.-5101	--वही--	जॉर्ज पी. एम.	--वही--	--वही--
10259704	टी.जे.-5104	--वही--	अरुण कुमार	154 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	24 फरवरी 2004
10259722	टी.जे.-5105	--वही--	एस. एल. प्रसाद	--वही--	--वही--
10259794	टी.जे.-5106	--वही--	एम. एन. महाकुद	--वही--	--वही--
10436888	टी.जे.-5107	--वही--	गवांडे अर्जुन किसन	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	01 मार्च 2004
10436901	टी.जे.-5108	--वही--	गवारे रामनाथ सुकदेव	--वही--	--वही--
10436904	टी.जे.-5109	--वही--	एम. शिवनंदन	--वही--	--वही--
10274308	टी.जे.-5110	--वही--	निर्मल कुमार दास	121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राइफ	21 अप्रैल 2004
10274355	टी.जे.-5111	--वही--	वासुदेव सरकार	--वही--	--वही--
10274383	टी.जे.-5112	--वही--	अजय कुमार उपाध्याय	--वही--	--वही--
10274395	टी.जे.-5113	--वही--	रमेश चंद्रा	--वही--	--वही--
10212608	टी.जे.-5114	--वही--	पंचानन बेरा	113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत	--वही--
10182201	टी.जे.-5115	--वही--	कौशल किशोर	111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ	28 अप्रैल 2004
10182004	टी.जे.-5116	--वही--	रमेश कुमार चतुर्वेदी	--वही--	--वही--
10182091	टी.जे.-5117	--वही--	जय राम	--वही--	--वही--
10182168	टी.जे.-5118	--वही--	अत्रीपाल सिंह	--वही--	--वही--
10182176	टी.जे.-5119	--वही--	भूप सिंह	--वही--	--वही--
10260171	टी.जे.-5120	--वही--	ब्रिज, किशोर सिंह	120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	--वही--
10181924	टी.जे.-5121	--वही--	संतोष कुमार मिश्रा	154 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	--वही--
10259993	टी.जे.-5122	--वही--	दुर्गा शर्मा	--वही--	--वही--
10260181	टी.जे.-5123	--वही--	जगदीश गोचायत	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
10146722	टी.जे.-5124	हवलदार	तांबेकर शंकर राजाराम	109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	28 अप्रैल 2004
10149875	टी.जे.-5125	--वही--	कापसे सदाशिव बांडु	--वही--	--वही--
10684555	टी.जे.-5132	हव./ए.ए.	अमर नाथ	जी एच (प्रा. सेना), इलाहाबाद	13 मई 2004
10479422	टी.जे.-5133	हवलदार	कुलदीप सिंह	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	--वही--
10389588	टी.जे.-5134	--वही--	लक्ष्मण प्रसाद पटेल	108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार	21 मई 2004
10389626	टी.जे.-5135	--वही--	नरेश प्रसाद तिवारी	--वही--	--वही--
10389696	टी.जे.-5136	--वही--	जगदीश प्रसाद निखार	--वही--	--वही--
10314536	टी.जे.-5137	--वही--	प्रभुनाथ यादव	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	20 मई 2004
10314839	टी.जे.-5138	--वही--	महावीर सिंह	--वही--	--वही--
10452346	टी.जे.-5139	--वही--	सी एस पलानी	117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द गार्ड्स	21 मई 2004
10134895	टी.जे.-5140	--वही--	मीर सिंह	105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज राइफ	13 दिसम्बर 2004
10134487	टी.जे.-5141	--वही--	सत पाल	--वही--	--वही--
10260230	टी.जे.-5142	--वही--	विद्याधर जेना	154 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	01 जून 2004
10466628	टी.जे.-5143	--वही--	कर्ण सिंह	150 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	01 फरवरी 2004
10466637	टी.जे.-5144	--वही--	अजय कुमार कलानिया	--वही--	--वही--
10466712	टी.जे.-5145	--वही--	रोहताश	--वही--	--वही--
10135247	टी.जे.-5146	--वही--	रमेश कुमार	--वही--	--वही--
10227661	टी.जे.-5148	--वही--	कल्याण चोपड़े	118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	01 अप्रैल 2004
10314781	टी.जे.-5149	--वही--	ब्रिज पाल सिंह	152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	14 जनवरी 2004
10314861	टी.जे.-5150	--वही--	बलजीत सिंह	--वही--	--वही--
10479637	टी.जे.-5151	--वही--	चरणजीत सिंह	--वही--	05 फरवरी 2004
10314981	टी.जे.-5152	--वही--	हरी चंद	--वही--	15 फरवरी 2004
10314709	टी.जे.-5153	--वही--	अनोज कुमार सिंह	--वही--	21 मार्च 2004
10259905	टी.जे.-5154	--वही--	मदन मोहन महंता	154 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	01 मार्च 2004
10260125	टी.जे.-5155	--वही--	रबिन्द्र नाथ महंता	--वही--	--वही--
10361634	टी.जे.-5156	--वही--	बिशम्बर सिंह	126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ	01 जुलाई 2004
10389718	टी.जे.-5157	--वही--	श्री राम सिंह बुंदेला	151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	--वही--
10405316	टी.जे.-5158	--वही--	योगेश कुमार	--वही--	--वही--
10405298	टी.जे.-5159	--वही--	ओम पाल सिंह	--वही--	--वही--
10361781	टी.जे.-5160	हव/क्लर्क	किरपाल सिंह संधू	155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ	02 अगस्त 2004
10366173	टी.जे.-5161	हवलदार	सोम राज	--वही--	05 अगस्त 2004
10361745	टी.जे.-5162	हवलदार	बुढ़ा राम	--वही--	--वही--
10361860	टी.जे.-5163	हवलदार	सुरेश कुमार	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
10361881	टी.जे.-5164	हवलदार	जनक सिंह	155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ.	02 अगस्त 2004
10361911	टी.जे.-5165	--वही--	केवल कृष्ण	--वही--	--वही--
10361913	टी.जे.-5166	--वही--	सुभाष चंदर	--वही--	--वही--
10361925	टी.जे.-5167	--वही--	सुदेश कुमार	--वही--	--वही--
10361943	टी.जे.-5168	--वही--	सोहन लाल	--वही--	--वही--
10361964	टी.जे.-5169	--वही--	राणा कुमार	--वही--	--वही--
10361750	टी.जे.-5170	--वही--	पवन सिंह	--वही--	--वही--
10134978	टी.जे.-5171	--वही--	जवाहर सिंह	105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज राइफ.	01 जून 2004
10135114	टी.जे.-5172	--वही--	प्रमोद कुमार	--वही--	01 जुलाई 2004
10244818	टी.जे.-5173	--वही--	गोपाल तांती	119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), आसाम	01 सितम्बर 2004
10245092	टी.जे.-5174	--वही--	रफीक उद्दीन काजी	--वही--	--वही--
10466332	टी.जे.-5175	--वही--	रौशन लाल	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	26 मई 2004
10466542	टी.जे.-5176	--वही--	कर्मबीर	--वही--	05 जुलाई 2004
10212689	टी.जे.-5177	--वही--	महेश गिरी	113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत	01 जून 2004
10389822	टी.जे.-5178	--वही--	रघुबीर शरण पटेल	108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार	01 जुलाई 2004
10389873	टी.जे.-5179	--वही--	श्रीकृष्ण कुमार तिवारी	--वही--	--वही--
10389877	टी.जे.-5180	--वही--	श्री अमृत लाल पटेल	--वही--	--वही--
10389899	टी.जे.-5181	--वही--	विजय कुमार गौतम	--वही--	--वही--
10389905	टी.जे.-5182	--वही--	महबूब अहमद	--वही--	--वही--
14359025	टी.जे.-5183	--वही--	शिव शरण	151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	01 सितम्बर 2004
10436906	टी.जे.-5184	--वही--	चवन दीपक बसंत	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	14 मई 2004
10436914	टी.जे.-5185	--वही--	पोरजे प्रभाकर केरू	--वही--	12 जून 2004
10314847	टी.जे.-5187	--वही--	संतोष कुमार	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	01 जुलाई 2004
10314901	टी.जे.-5188	--वही--	अनिल कुमार मिश्रा	--वही--	--वही--
10314950	टी.जे.-5189	--वही--	सहदेव	--वही--	--वही--
10314838	टी.जे.-5190	--वही--	रमेश चंद	--वही--	06 जुलाई
10314859	टी.जे.-5191	--वही--	देवेन्द्र कुमार	--वही--	--वही--
10274241	टी.जे.-5192	--वही--	अशोक डे	121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़. राइफ.	01 जून 2004
10212819	टी.जे.-5193	--वही--	तापश सोम	113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत	01 सितम्बर 2004
10436942	टी.जे.-5194	--वही--	गावली संजय संतु	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	--वही--
10420784	टी.जे.-5195	--वही--	वीरप्पा हसाबी	115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार	01 जुलाई 2004
10420788	टी.जे.-5196	--वही--	कदप्पा बारिगिदाद	--वही--	--वही--
10420794	टी.जे.-5197	--वही--	अनंत गौड़ा पाटिल	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
12017402	टी.जे.-5198	हवलदार	रामेश्वर शाह	1101 रेलवे इंजी. रेजि. (प्रा. सेना)	14 जनवरी 2004
12052568	टी.जे.-5199	--वही--	कुल भूषण कुकरेजा	--वही--	--वही--
12085227	टी.जे.-5200	--वही--	अशोक कुमार शर्मा	--वही--	--वही--
12017435	टी.जे.-5201	--वही--	बाबू लाल मीणा	--वही--	--वही--
12371431	टी.जे.-5202	--वही--	रिछपाल सिंह	--वही--	--वही--
10361636	टी.जे.-5203	--वही--	सुरिन्दर सिंह	155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ.	10 अक्टूबर 2004
10244861	टी.जे.-5204	--वही--	गोलप सिन्हा	119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम	11 दिसम्बर 2004
10373956	टी.जे.-5205	--वही--	मन बहादुर गुरुंग	107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी आर	20 मार्च 2004
10373980	टी.जे.-5206	--वही--	तारामनी तमंग	--वही--	01 जुलाई 2004
10328972	टी.जे.-5207	--वही--	संजीव कुमार ए.	125 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द गाईस	05 अक्टूबर 2004
10329015	टी.जे.-5208	--वही--	जे. लिंगा रेड्डी	--वही--	--वही--
10329043	टी.जे.-5209	हव./क्लर्क	सदाशिवन के.	--वही--	--वही--
10329039	टी.जे.-5210	हवलदार	जे. जयाबाबू	--वही--	--वही--
10329068	टी.जे.-5211	--वही--	के वरदा रफुलु	--वही--	--वही--
10362069	टी.जे.-5212	--वही--	मेहर चन्द	155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ.	08 नवम्बर 2004
10166145	टी.जे.-5213	--वही--	के. माधवन	110 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	01 दिसम्बर 2004
10166211	टी.जे.-5214	--वही--	वी. मुरलीधरन	--वही--	--वही--
10166305	टी.जे.-5215	--वही--	सी.के. जॉनसन	--वही--	--वही--
10301995	टी.जे.-5217	--वही--	उदय सिंह	123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनिडियर्स	01 सितम्बर 2004
10302476	टी.जे.-5218	--वही--	नर्पत सिंह	--वही--	--वही--
10389538	टी.जे.-5219	--वही--	राम नाथ सिंह तोमर	151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	01 फरवरी 2004
10389793	टी.जे.-5220	--वही--	श्री राम लाल	--वही--	--वही--
10405163	टी.जे.-5221	--वही--	अनोखे लाल	--वही--	--वही--
10165951	टी.जे.-5222	--वही--	के रामदासन	110 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	01 दिसम्बर 2004
10134817	टी.जे.-5223	--वही--	राकेश कुमार	105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज राइफ.	01 फरवरी 2005
10405100	टी.जे.-5224	--वही--	राम सरूप	114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	27 नवम्बर 2004
10405223	टी.जे.-5225	--वही--	राय सिंह	--वही--	--वही--
10405226	टी.जे.-5226	--वही--	अशोक कुमार	--वही--	--वही--
10405239	टी.जे.-5227	--वही--	अरविंद सिंह	--वही--	--वही--
10405255	टी.जे.-5228	--वही--	विजय कुमार शर्मा	--वही--	--वही--
10405280	टी.जे.-5229	--वही--	महावीर सिंह राजपूत	--वही--	--वही--
10405302	टी.जे.-5230	--वही--	जय नारायण	--वही--	--वही--
10405305	टी.जे.-5231	--वही--	बांके लाल	--वही--	01 जनवरी 2005

1	2	3	4	5	6
10405327	टी.जे.-5232	हवलदार	शिव कुमार	114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	01 जनवरी 2005
10119553	टी.जे.-5233	--वही--	मोकासे वैणम्बार	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा एलआई	--वही--
10119627	टी.जे.-5234	--वही--	चंदनशिव उच्चद	--वही--	--वही--
10119670	टी.जे.-5235	--वही--	सुरेश कुमार ए.एम.	--वही--	--वही--
10119800	टी.जे.-5236	--वही--	दुबे छोटू लाल	--वही--	--वही--
3381665	टी.जे.-5237	--वही--	बलबीर सिंह	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	01 दिसम्बर 2004
10149887	टी.जे.-5238	--वही--	सोडाकर झिण्णा चंद्रप्पा	109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	30 मई 2005
10119897	टी.जे.-5239	--वही--	पाटिल एकनाथ बाबासाव	--वही--	--वही--
10149906	टी.जे.-5240	--वही--	गुराव सूर्यकांत शामराव	--वही--	--वही--
10466584	टी.जे.-5241	--वही--	अशोक कुमार	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	--वही--
10259925	टी.जे.-5242	--वही--	बिचियानंद परीदा	120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार	07 नवम्बर 2004
10260212	टी.जे.-5243	--वही--	चित्तरंजन साहू	--वही--	--वही--
10260245	टी.जे.-5244	--वही--	बिरेन्द्र नाथ साहू	--वही--	--वही--
10260136	टी.जे.-5245	--वही--	देबराज बत्रियार सिंह	--वही--	--वही--
10260255	टी.जे.-5246	--वही--	संजय कुमार मंगाराज	--वही--	--वही--
10260300	टी.जे.-5247	--वही--	नाराबोला चंद्र साहू	--वही--	--वही--
10373957	टी.जे.-5248	--वही--	प्रसन्ना सुब्बा	107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी.आर.	01 सितम्बर 2004
10374086	टी.जे.-5249	--वही--	प्रेम कुमार राय	--वही--	--वही--
10361960	टी.जे.-5250	--वही--	यस पाल	155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाक राइफल	01 जनवरी 2004
10362018	टी.जे.-5251	--वही--	सुलखान सिंह	--वही--	--वही--
10212668	टी.जे.-5252	--वही--	भरत केवल	113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत	01 फरवरी 2005
10244871	टी.जे.-5253	--वही--	सिबलाल सरकार	119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम	01 अप्रैल 2005
10135275	टी.जे.-5254	--वही--	सुभाष चंद	150 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	10 फरवरी 2004
10466166	टी.जे.-5255	--वही--	राकेश कुमार	--वही--	01 जुलाई 2004
10134989	टी.जे.-5256	--वही--	राजबीर सिंह	--वही--	--वही--
10466283	टी.जे.-5257	--वही--	प्रितम चंद	--वही--	--वही--
10359208	टी.जे.-5258	--वही--	पाटील चंद्रप्पा	106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	01 अक्टूबर 2004
10182022	टी.जे.-5259	--वही--	रामउजागर मिश्रा	111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ	01 जनवरी 2005
10166369	टी.जे.-5260	--वही--	एम. पी. झिण्णन	110 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	01 फरवरी 2005
10166398	टी.जे.-5261	--वही--	के. शाजी	--वही--	--वही--
10166306	टी.जे.-5262	--वही--	ए. यशुराज	--वही--	--वही--
10466591	टी.जे.-5275	--वही--	दर्शन सिंह	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	06 जून 2005

1	2	3	4	5	6
10227597	टी.जे.-5276	हवलदार	पुरुषोत्तम	156 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना)	23 जून 2005
10134880	टी.जे.-5277	--वही--	बलबीर सिंह	--वही--	--वही--
10135061	टी.जे.-5278	--वही--	सुखबीर सिंह	--वही--	--वही--
10135111	टी.जे.-5279	--वही--	महाबीर	156 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	23 जून 2005
10466517	टी.जे.-5280	--वही--	झिष्णु कुमार	150 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	--वही--
10244870	टी.जे.-5281	--वही--	वाय गोप सिंह	119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम	08 जुलाई 2005
10119637	टी.जे.-5282	--वही--	मोराबे बाबा साहेब	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	13 जुलाई 2005
10436939	टी.जे.-5283	--वही--	अहीर भगन तुलसिराम	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	25 जुलाई 2005
10135235	टी.जे.-5284	--वही--	फुल चंद खेदार	156 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	27 जुलाई 2005
10359263	टी.जे.-5285	--वही--	वेंकटरामानैय्या जी.	106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	22 अगस्त 2005
10359290	टी.जे.-5286	--वही--	सदाशिवप्पा एम.एच.	--वही--	--वही--
10361896	टी.जे.-5287	--वही--	अर्जुन राम	161 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाकएलआई	13 सितम्बर 2005
10302856	टी.जे.-5288	--वही--	राम कुमार सिंह	--वही--	--वही--
12818823	टी.जे.-5289	--वही--	दीपक कुमार डेका	801 इंजी. रेजी आर एण्ड पी (प्रा. सेना)	14 सितम्बर 2005
12818897	टी.जे.-5290	--वही--	यू एन राव	--वही--	--वही--
12818905	टी.जे.-5291	--वही--	टी जानकी राव	--वही--	--वही--
12818928	टी.जे.-5292	--वही--	बनवारी सिंह	--वही--	--वही--
10361629	टी.जे.-5293	--वही--	मेहर सिंह	160 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाक राईफल्स	23 सितम्बर 2005
10227776	टी.जे.-5294	--वही--	मोहन सिंह	118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर	26 सितम्बर 2005
10197917	टी.जे.-5299	--वही--	मनोहर सिंह	153 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा	--वही--
10135178	टी.जे.-5300	--वही--	रविन्द्र कुमार	--वही--	--वही--
0135200	टी.जे.-5301	--वही--	रामवीर सिंह	--वही--	--वही--
10135237	टी.जे.-5302	--वही--	सत्य देव	--वही--	27 सितम्बर 2005
10374036	टी.जे.-5503	--वही--	बिरेन्द्र राय	107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी आर	26 अगस्त 2005
10374177	टी.जे.-5304	--वही--	सुनील बोमझान	--वही--	04 अक्टूबर 2005
10374108	टी.जे.-5305	--वही--	रनजीत थापा	--वही--	--वही--
10374129	टी.जे.-5306	--वही--	मन कुमार राय	--वही--	--वही--
10374607	टी.जे.-5307	--वही--	महेश गुरुंग	--वही--	--वही--
10302722	टी.जे.-5208	--वही--	चैना राम	123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	18 अक्टूबर 2005
10149761	टी.जे.-5309	--वही--	बेलावलेकर नामदेव मासू	109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	19 अक्टूबर 2005
10149986	टी.जे.-5310	--वही--	पाटले गोपाल लक्ष्मण	--वही--	--वही--
10314984	टी.जे.-5311	--वही--	दयानन्द	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	21 अक्टूबर 2005

1	2	3	4	5	6
10314991	टी.जे.-5312	हवलदार	मलखान सिंह	124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	24 अक्टूबर 2005
10314914	टी.जे.-5313	--वही--	सतीश कुमार	158 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट	--वही--
10260098	टी.जे.-5314	--वही--	दयानिधि पांडा	--वही--	--वही--
10405282	टी.जे.-5315	--वही--	राजेश कुमार वर्मा	--वही--	--वही--
10315009	टी.जे.-5316	--वही--	नेतर पाल	--वही--	--वही--
10260222	टी.जे.-5317	--वही--	प्रताप कुमार पट्टनायक	--वही--	--वही--
10182055	टी.जे.-5318	--वही--	सोहन लाल चरमकर	111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ	--वही--
10314846	टी.जे.-5319	--वही--	मनजीत सिंह	152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख	--वही--
10359298	टी.जे.-5320	--वही--	एम मुरुगण	106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	07 अक्टूबर 2005
10119794	टी.जे.-5321	--वही--	मुतकर अशोक	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), लाईट	11 नवम्बर 2005
10119708	टी.जे.-5322	--वही--	अशोक कुमार हुप्ले	--वही--	--वही--
10119656	टी.जे.-5323	--वही--	पटेल जब्बर मुनीर	101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट	11 नवम्बर 2005
10359238	टी.जे.-5324	--वही--	विक्रमण के.	106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	16 नवम्बर 2005
10420833	टी.जे.-5333	--वही--	शंकर बदनी	115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार	--वही--
10420758	टी.जे.-5334	--वही--	माल्लाप्पा	--वही--	--वही--
10420634	टी.जे.-5335	--वही--	राजशेखर धुला	--वही--	--वही--
10420838	टी.जे.-5336	--वही--	देसाई अमृत	--वही--	--वही--
10405343	टी.जे.-5337	--वही--	राम चंद	114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट	21 नवम्बर 2005
10166407	टी.जे.-5339	--वही--	आर नागराज	110 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास	28 नवम्बर 2005
10466623	टी.जे.-5340	--वही--	बलबीर सिंह	102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब	30 नवम्बर 2005
10389807	टी.जे.-5341	--वही--	विवेन्द्र कुमार मिश्रा	108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार	--वही--
10389917	टी.जे.-5342	--वही--	श्री उमा शंकर नापित	--वही--	--वही--
10389931	टी.जे.-5343	--वही--	मदन सिंह	--वही--	--वही--
10197847	टी.जे.-5344	--वही--	संत राम	112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा	--वही--
10197958	टी.जे.-5345	--वही--	राम लुधाया	--वही--	--वही--
10197963	टी.जे.-5346	--वही--	बलकार सिंह	--वही--	--वही--
10198056	टी.जे.-5347	--वही--	चरणजीव	--वही--	--वही--
10198138	टी.जे.-5348	--वही--	सुखबीर सिंह	--वही--	--वही--
10197841	टी.जे.-5349	--वही--	बचन लाल	--वही--	--वही--
10198152	टी.जे.-5350	--वही--	रविंदर सिंह	--वही--	02 दिसम्बर 2005
10302711	टी.जे.-5351	--वही--	भगीरथ सिंह	123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	12 दिसम्बर 2005
10302689	टी.जे.-5352	--वही--	कैलाश चंदर	--वही--	--वही--
10302718	टी.जे.-5353	--वही--	नारायण लाल	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
10302717	टी.जे.-5354	हवलदार	प्रभाती लाल	123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स	12 दिसम्बर 2005
10302726	टी.जे.-5355	--वही--	भूप सिंह	--वही--	13 दिसम्बर 2005
10437009	टी.जे.-5356	--वही--	पालडे देवीदास चंद्रभान	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	30 दिसम्बर 2005
10134877	टी.जे.-5357	--वही--	अरविन्द सिंह	105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज राईफ.	--वही--
10135054	टी.जे.-5358	--वही--	दलीप कुमार सिंह	--वही--	03 जनवरी 2005
10135132	टी.जे.-5359	--वही--	सुरेन्द्र सिंह	--वही--	--वही--
10437059	टी.जे.-5360	--वही--	पाटिल संजय नारायण	116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा	--वही--
12208153	टी.जे.-5361	--वही--	सत्य नारायण पंडित	1032 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रा. सेना),	06 जनवरी 2006

एन. कलियप्पन
अवर सचिव

थल सेना शाखा

(सेना शाखा)

सं. 44, दिनांक 28 दिसम्बर 2006--निम्नलिखित अधिकारियों को
जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आईसी-47649के मेजर जे. एस. बब्बर, आर्टी

(अ) पदोन्नति के लिए पाँच वर्ष की सेवा का समपहरण किया
जाए।

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए

--21 नवम्बर 2004

आईसी-42617एक्स ले. कर्नल बक्शी सन्नी, एएससी

(अ) पदोन्नति के लिए तीन वर्ष की सेवा का समपहरण किया
जाए।

(ब) पेंशन हेतु छः वर्ष की सेवा की समपहरण और

(स) कड़ी भर्त्सना की जाए

--14 जून 2004

आईसी-47438एफ ले. कर्नल के. के. सिंह, इन्फैन्ट्री

(अ) वेतन वृद्धि के लिए एक वर्ष की सेवा का समपहरण किया
जाए।

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए

--25 अप्रैल 2005

निम्नलिखित अधिकारियों को एस जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा
दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आरसी-00729 कैप्टन बी. एस. मलाही, आर्टी

सेवा से बर्खास्त किया जाए।

--28 मई 2004

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एम एस-8सी

शुद्धिपत्र

मेजर से ले. कर्नल (समयमान) द्वारा

सं. 45, दिनांक 29 दिसम्बर 2006--रक्षा मंत्रालय के भारत का
राजपत्र अधिसूचना (भाग-I, खण्ड-4) के अन्तर्गत शीर्षक "नियमित
सेना, स्थायी आयोग" उप शीर्षक "मेजर से ले. कर्नल (समय मान
द्वारा) के मूल रैंक में," दिनांक 29 अप्रैल 2000 (क्रम सं. 185) में
प्रकाशित में निम्नलिखित संशोधन किया जाए।

के लिए : आर एम सिंह (आईसी-30948) एम एफ 22 दिसम्बर
1995

पढ़ा जाए : आर एम सिंह (आईसी-30948), एम एफ 22 दिसम्बर
1998

अजय गोयल

उप निदेशक सेना सचिव, एमएस-8ए

शुद्धिपत्र

सं. 46, दिनांक 28 दिसम्बर 2006--भारत के राजपत्र 283 में
दिनांक 03 जून 2006 को शीर्षक नियमित सेनास्थायी कमीशन एवं उप
शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में
निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए : एस एल-04217 कासारजू चेन्नाकेशवा राव,
एसएलआरओ

के स्थान पर : एसएल-04217 कोसारजू चेन्नाकेशवा राव,
पढ़ा जाय एसएलआरओ

भारत के राजपत्र में दिनांक 06 अगस्त 2005 को शीर्षक नियमित
सेनास्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक मेजर से ले. कर्नल के अधीन
प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. 387/2005 में निम्नलिखित संशोधन
किया जाता है :--

के सामने : आईसी-45768 अरुण कुमार कोहली, ईएमई
पढ़ा जाए : खाली

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एम एस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th January 2007

No. 34, dated 26th December 2006—The President is pleased to appoint Shri Prajnadipta Mohanty, IOFS (87) on transfer from Indian Ordnance Factories, Ordnance Factory Badmal, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 5.12.2006 (FN) up to 4.12.2011 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. DEB
Under Secy.

No. 35, dated 28th December 2006—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 August, 2006 :—

Honorary Naval ADC

Vice Admiral Venkat Bharathan, PVSM, AVSM, VSM (00790-W)

S. D. BANGA
Under Secy.

No. 36, dated 29th December 2006—The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned officer in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against his name under the provisions of AFI 2/91 a/a by Corrigendum 05/02.

INDIAN AIR FORCE

Ex-Airman to be Flying Officer

(With two years of ante date for the purpose of pay only wef 18 Dec 2002)

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Jayachandran Gopalkrishnan Nair (28293) wef 18 Dec 04.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 37, dated 29th December 2006—The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission officers wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cds to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Nishtha Suhag (28264), Pooja Misra (28265), Jaya Gautam (28266), Shweta Choudhry (28267), Aparna Bist

(28268), Sargam Tatwawadi (28269), Soumya V (28270), Suganya Kamatchi Ponnai (28272), Shikha Sharma (28273), Atma Tripathi (28274), Sanku Bharati (28276), T Mukila (28277), Ranjana Saini (28278), Grace Nirmala (28279), Meena Arora (28280), Anudeepti (28281), Lekshmi Sobhana (28282), Kulkarni Vrushali Deepak (28283), B Suba Vandana (28284), Dhanasree Puthiya Veetil (28285) wef 18 Dec 04, Antara Dey Chowdhury (28294) wef 17 Jan 05

LOGISTICE BRANCH

Fg Offr Bhavna Mittal (28286), Abhilasha Srivastava (28287), Sarah Cleventine (28288), R Scindia (28289), Dhuma Pallavi Sudhir (28290) wef 18 Dec 04

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Mishra Lalita Akhilesh S (28291) wef 18 Dec 04

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Priya Joshi (28292) wef 18 Dec 04

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Reshma P Patil (27937) wef 18 Dec 04

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted permanent commission (on probation) wef the date mentioned against their names.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr Kumar Vikram Singh Baghel (28170), Devender Boora (28180), Deepak Kumar Dehury (28193), Mohit Chauhan (28196), Ayush Rawat (28202), Vikas Tayal (28203), Vikrant Singh Jamwal (28216), Rajneesh Chand Katoch (28222) wef 18 Dec 04

The President is pleased to confirm the under mentioned officers wef the date stated against their names who were granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Abhay Kumar Singh (28169), Varinder Saini (28171), Nikhil Kumar Rath (28172), Sagili Sai Kiran (28173), Varun Fauzdar (28174), Ankit Raj Singh (28175), Rohit Singh (28176), Gurpreet Singh Dhillon (28177), Shubhankan (28178), Vaibhaw Vishal (28179), Ranjeet Singh Sidhu (28181), Prashant Uniyal (28182), Prashant Singh Negi (28183), Karan Kapoor (28184), Nimish Maheshwari (28185), Dhruv Kumar (28186), Ravi Raj Khatri (28187), Sandeep Ranwa (28189), Yogesh Sharma (28194), Atul Anand (28195), M Surendran (28197), Virender Khatri (28199), Angad Pratap (28200), Dheeraj Ahlawat (28201), Gautam Singh (28204), Maneesh (28205), Rohan Bisht (28206), Chetan CJ (28207), Gaurav Kundalia (28209) Navrender Kanwar (28210), Abhishek Singh Tanwar (28211), Ajay Chauhan (28213), Sunil Gartia (28214), Karan Shirish Deo (28215), Abrar Asagar Moulavi (28217), Ashish Kapoor (28218), Sayantan Chakravarty (28219), Sansar (28220), Harmeet Talwar (28221), Parikshi Hastekar (28223), Sumedh Ashok Jamkar (28224) wef 18 Dec 04

The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission officers wef the date stated against their names who were granted Provisional Short Service Commission :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Vyomika Singh (28261), Tima Mathew (28262), Madhura Ashok Warnekar (28263) wef 18 Dec 04

The President is pleased to confirm undermentioned officers who were granted permanent commission (on probation) wef the date mentioned against their names.

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cdt to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Purushothaman Maruda Mariappan (28225), Sharma Suraj Kumar Harikant (28226), Vikas Chaudhary (28227), Sagar Bhardwaj (28228), Dhan Mohan Singh (28229), Jagat Behari Dash (28230), Ashish Kakkar (28231), Paritosh Kumar Singh (28232), Kangeyam Hanumantharao Nagarajan (28233), Manish Chandra (28234), Devendra Singh (28235), Dipak Kumar Chaube (28236), Gaurav Kapil (28237), Chinmoy Sanyal (28238), J Srinivas (28239), Palash Ghosh (28240), Pankaj Kumar Shah (28242), Shirke Vivek Vasant (28243), Krishna Kumar PN (28244), Kodidala Hari Prasad (28245), Durga Shankar Das (28246) wef 18 Dec 04

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Brajesh Kumar (28247), Malekudy George Stephen (28248), Vijendra Kumar Verma (28249), Saurabh Kumar (28250), Jayanta Kumar Patra (28251), Pradeep Kumar (28252) wef 18 Dec 04

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Satheesan Varakkandi (28253), Kumaran Mania Raja (28254), Ramakrishnan Kaipilly (28255), Sunil Gupta (28256), Chandrasekhara Bijukumar (28257), Seera Srinivas Sridhar (28258) wef 18 Dec 04

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Murali Krishna (27935), Nidumanda Sandesh Appaiah (27936), Surendra Singh (28259), Prashanth BS (28260) wef 18 Dec 04

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 38, dated 26th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Rajender Singh (JC-489126A), 01 Jan 2005

Nb Sub Ugma Ram (JC-489141P), 12 Jan 2005

Nb Sub Rameshwar Das (JC-489296K), 21 Jan 2005

Nb Sub Jagdish Prasad Jat (JC-489145L), 05 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-488860F), 23 Feb 2005

Nb Sub Shishpal Singh (JC-489324L), 23 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Udayvir Singh (JC-489336A), 13 Mar 2005

Nb Sub Ram Mehar Singh (JC-489309A), 24 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 29 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-489157A), 01 May 2005

Nb Sub Raj Kapur (JC-489194N), 01 May 2005

Nb Sub Shamsher Singh (JC-489179Y), 01 May 2005

Nb Sub Ved Prakash (JC-489195W), 01 May 2005

Nb Sub Vidhyadhar Verma (JC-489276W), 01 May 2005

Nb Sub Dharamveer Singh (JC-489278F), 01 May 2005

Nb Sub Ran Singh (JC-489222P), 01 May 2005

Nb Sub Ompal Singh, SM (JC-489240X), 18 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Deepa Ram (JC-489303P), 01 May 2005

Nb Sub Mahtap Singh (JC-489342N), 01 May 2005

Nb Sub Bhira Ram (JC-489391W), 25 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Karambir (JC-489503L), 01 May 2005

Nb Sub Surja Ram (JC-489259W), 22 May 2005

Nb Sub Jai Karan Singh (JC-489160A), 01 Jun 2005

Nb Sub Rajvir Singh (JC-489223X), 01 Jun 2005

Nb Sub Dharampal (JC-489239H), 01 Jun 2005

Nb Sub Pratipal Singh (JC-489310L), 01 Jun 2005

Nb Sub Ram Bhan Singh (JC-489311N), 01 Jun 2005

- Nb Sub Ishwar Singh (JC-489316M), 01 Jun 2005
- Nb Sub Duda Ram (JC-489331F), 01 Jun 2005
- Nb Sub Mahendra Singh (JC-489357W), 01 Jun 2005
- Nb Sub Jagdish Kumar (JC-489090M), 30 Jun 2005
- Nb Sub Jagdish Prasad Beniwal (JC-489142X), 01 Jul 2005
- Nb Sub Arjun Lal Bhichar (JC-489204M), 14 Jul 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 July 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Charan Singh (JC-489249M), 09 Oct 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 July 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Randhir Singh (JC-489318X), 01 Jul 2005
- Nb Sub Nihal Singh (JC-489332K), 01 Jul 2005
- Nb Sub Jagdish Kumar (JC-489265K), 01 Jul 2005
- Nb Sub Dharamvir Singh (JC-489392Y), 01 Jul 2005
- Nb Sub Rajbir Singh Chahal (JC-489299X), 02 Jul 2005
- Nb Sub Vinod Kumar (JC-489307L), 04 Jul 2005
- Nb Sub Shish Ram (JC-489244N), 05 Jul 2005
- Nb Sub Virendra Singh (JC-489210A), 03 Nov 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 July 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Udai Singh (JC-489245W), 08 Jul 2005
- Nb Sub Ajit Singh (JC-489394K), 26 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 July 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Kapoor Singh Gill (JC-489256H), 02 Dec 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 July 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Umed Singh (JC-489280Y), 23 Jul 2005
- Nb Sub Rajmal Singh (JC-489120Y), 01 Aug 2005
- Nb Sub Anil Kumar (JC-489248K), 12 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Ramkesh (JC-489279K), 01 Aug 2005
- Nb Sub Suresh Kumar (JC-489325N), 01 Aug 2005
- Nb Sub Sai Ram Jat (JC-489170P), 01 Aug 2005
- Nb Sub Ram Kumar (JC-489326W), 17 Oct 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Rati Ram (JC-489271X), 24 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Dalip Singh (JC-489297M), 22 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Balwan Chand (JC-489302M), 12 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Ram Kumar (JC-489354H), 01 Aug 2005
- Nb Sub Mohar Singh Mahalla (JC-489383X), 01 Aug 2005
- Nb Sub Rajbir Singh (JC-489355L), 01 Aug 2005
- Nb Sub Narendra Singh (JC-489250F), 01 Aug 2005
- Nb Sub Attar Singh (JC-489393F), 01 Aug 2005
- Nb Sub Mahender Singh Sangwan (JC-489442Y), 01 Aug 2005
- Nb Sub Mohan Singh (JC-489438W), 01 Aug 2005
- Nb Sub Satish Kumar (JC-489180N), 07 Aug 2005
- Nb Sub Suresh Kumar Balwada (JC-489281F), 12 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Roop Singh (JC-489122K), 01 Sep 2005
- Nb Sub Om Parkash (JC-489137M), 01 Sep 2005
- Nb Sub Sat Singh (JC-489234K), 01 Sep 2005
- Nb Sub Mubarak Singh (JC-489282K), 01 Sep 2005
- Nb Sub Raj Singh (JC-489386L), 01 Oct 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Mahavir Singh (JC-489387N), 01 Sep 2005
- Nb Sub Harendra Singh (JC-489459M), 04 Sep 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Sohan Lal (JC-489143A), 30 Dec 2005*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 Sep 2005 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Ranjeet Singh Punia (JC-489370A), 28 Sep 2005
- Nb Sub Vidhya Dhar (JC-489262W), 01 Oct 2005
- Nb Sub Virender Singh (JC-489263Y), 01 Oct 2005
- Nb Sub Anup Singh (JC-489229Y), 01 Oct 2005
- Nb Sub Jagdish Prasad Verma (JC-489235M), 01 Oct 2005
- Nb Sub Om Prakash (JC-489251K), 01 Oct 2005
- Nb Sub Rameshwar Lal (JC-489283M), 27 Mar 2006*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without

effect on pay and allowances).

Nb Sub Sardar Singh (JC-489284P), 01 Oct 2005

Nb Sub Kuldip Singh (JC-489341L), 14 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagbir Singh (JC-489356N), 01 Oct 2005

Nb Sub Ram Niwas (JC-489410W), 26 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dinesh Chander Chahar (JC-489374W), 12 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Azad Singh (JC-489402X), 01 Oct 2005

Nb Sub Vijay Singh (JC-489424W), 01 Oct 2005

Nb Sub Dhanvir Singh (JC-489425Y), 28 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mewa Singh (JC-489451A), 01 Oct 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-489447X), 01 Oct 2005

Nb Sub Rambir Singh (JC-489480P), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ranbir Singh (JC-489300F), 01 Nov 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-489285X), 01 Nov 2005

Nb Sub Badri Prasad (JC-489301K), 01 Nov 2005

Nb Sub Ranvir Singh, SM (JC-489329K), 01 Nov 2005

Nb Sub Mithu Ram (JC-489304X), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhi Ram Singh (JC-489317P), 01 Nov 2005

Nb Sub Ranbir Singh (JC-489319A), 01 Nov 2005

Nb Sub Mohinder Singh (JC-489339N), 01 Nov 2005

Nb Sub Randhir Singh (JC-489350M), 01 Nov 2005

Nb Sub Zile Singh (JC-489377K), 20 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Indra Pal Singh Teotia (JC-489504N), 01 Nov 2005

Nb Sub Rameshwar Singh (JC-489512M), 30 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jai Rama Ram (JC-489428M), 01 Nov 2005

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-489429P), 23 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lal Chand (JC-489513P), 01 Nov 2005

Nb Sub Gyarsi Lal Jat (JC-489448A), 01 Nov 2005

Nb Sub Davinder Singh (JC-489460F), 08 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ratan Singh (JC-489462M), 01 Nov 2005

Nb Sub Devi Singh (JC-489466H), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bachhu Singh (JC-489522W), 01 Nov 2005

Nb Sub Prabhu Singh (JC-489340H), 04 Nov 2005

Nb Sub Kharag Singh (JC-489376F), 01 Dec 2005

Nb Sub Shri Ram Choudhary (JC-489395M), 01 Dec 2005

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ram Phal Singh (JC-488700F), 01 Oct 2004

Nb Sub (Clk) Shyamal Acharya (JC-488708N), 01 Jan 2005

Nb Sub (Clk) Virendra Nath Tripathi (JC-488720P), 31 Jul 2004

Nb Sub (Clk) Mahendra Kumar Yadav (JC-488762F), 01 Nov 2005

Nb Sub (Clk) Ram Kishan Janghu (JC-488810W), 01 Mar 2006

Nb Sub (Clk) Parbhu Ram Sangwan (JC-488927P), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk) Surender Singh (JC-488832P), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk) Rohitash Kumar Mavi (JC-488833X), 18 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Prem Shanker Yadav (JC-488878X), 04 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Avaya Kumar Swain (JC-488879A), 01 Jul 2006

Nb Sub (Clk) Hari Dhyani Singh (JC-488884L), 01 Jul 2006

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Dev Prakash Brihmechari (JC-488097K), 01 Jan 2004

Nb Sub (RT) Surya Prakash Chaturvedi (JC-488274Y), 18 Mar 2005

Nb Sub (RT) Suresh Chandra (JC-488298H), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (RT) wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (RT) Hari Shanker Choubey (JC-488379H), 14 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (RT) wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub

Nb Sub Ishwar Singh (JC-488859M), 01 Jun 2004

Nb Sub Jagbir Singh (JC-488877P), 07 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shyamgir (JC-488894P), 01 Jun 2004

Nb Sub Kashmir Singh (JC-488936W), 01 Jun 2004

Nb Sub Onkar Singh (JC-488959X), 11 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vidhya Dhar (JC-488969F), 28 Jun 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sultan Singh (JC-489024K), 07 Jun 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jai Narain (JC-489016L), 28 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Randhir Singh Nehra (JC-489077H), 15 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajpal (JC-489078L), 01 Jun 2004

Nb Sub Kishan Singh (JC-489106M), 01 Jun 2004

Nb Sub Shakta Ram (JC-489118F), 01 Jun 2004

Nb Sub Ranveer (JC-489163N), 01 Jun 2004

Nb Sub Teja Ram (JC-489133W), 01 Jun 2004

Nb Sub Bhana Ram Katania (JC-489139X), 22 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Krishan Pal Singh (JC-489140M), 26 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwan Singh (JC-489149F), 01 Jun 2004

Nb Sub Rajender Singh Dahiya (JC-489200W), 01 Jun 2004

Nb Sub Manohar Singh (JC-489232Y), 22 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hawa Singh (JC-489176L), 01 Jun 2004

Nb Sub Chander Bhan (JC-489196Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Kuldeep (JC-489212L), 01 Jun 2004

Nb Sub Prem Singh (JC-489213N), 03 Jun 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jethmal Choudhary (JC-489214W), 08 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prithvi Singh (JC-489215Y), 13 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ranbir Singh (JC-489266M), 01 Jun 2004

Nb Sub Har Lal Singh Kajala (JC-488989P), 05 Jun 2004

Nb Sub Ram Chander (JC-489267P), 06 Jun 2004

Nb Sub Jagbir Singh (JC-489098Y), 13 Jun 2004

Nb Sub Sita Ram (JC-489101N), 23 Jun 2004

Nb Sub Tara Chand (JC-488978H), 24 Jun 2004

Nb Sub Om Prakash (JC-489099F), 25 Jun 2004

Nb Sub Subh Karan Singh (JC-488990K), 01 Jul 2004

Nb Sub Bajrang Lal Bharia (JC-488993K), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohan Ram (JC-489053Y), 24 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baxa Ram (JC-48901113X), 01 Jul 2004

Nb Sub Nafe Singh (JC-489054F), 06 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajendra Singh (JC-489055K), 01 Jul 2004

Nb Sub Bhooop Singh (JC-489056M), 01 Jul 2004

Nb Sub Babu Ram Verma (JC-489022Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Ved Prakash (JC-489026P), 01 Jul 2004

Nb Sub Ramawtar (JC-489027X), 01 Jul 2004

Nb Sub Brahm Dev (JC-489102W), 01 Jul 2004

Nb Sub Ram Niwas (JC-489038K), 11 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-489049W), 01 Jul 2004

Nb Sub Rakesh Dalal (JC-489050L), 01 Jul 2004

Nb Sub Krishan Kumar (JC-489051N), 30 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devi Ram (JC-489070Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Ravindra Kumar (JC-489081L), 01 Jul 2004

Nb Sub Anup Singh (JC-489082N), 01 Jul 2004

Nb Sub Subhash Chander (JC-489071F), 04 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dharamvir Singh (JC-489104F), 05 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pitha Ram (JC-489066W), 12 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satyapal Singh (JC-489128L), 01 Jul 2004

Nb Sub Rajender Kumar (JC-489159L), 01 Jul 2004

Nb Sub Jameet Singh (JC-489129N), 01 Jul 2004

Nb Sub Umrawat Singh (JC-489094H), 01 Jul 2004

Nb Sub Chandi Ram (JC-489116W), 01 Jul 2004

Nb Sub Chanderbir Singh (JC-489100L), 01 Jul 2004

Nb Sub Gopi Ram (JC-489161H), 01 Jul 2004

Nb Sub Daya Singh Balhara (JC-489109A), 01 Jul 2004

Nb Sub Kishna Ram (JC-489130H), 17 Mar 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Randhir Singh Rathie (JC-489146N), 01 Jul 2004

Nb Sub Raj Singh (JC-489132N), 01 Jul 2004

Nb Sub Rattan Lal (JC-489135F), 01 Jul 2004

Nb Sub Ishwar Singh (JC-489136K), 01 Jul 2004

Nb Sub Birbal Singh (JC-489164W), 01 Jul 2004

Nb Sub Shiv Karan Singh (JC-489138P), 28 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Layak Ram (JC-489165Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Lal Chand (JC-4891166F)), 01 Jul 2004

Nb Sub Romesh Singh (JC-489148Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Nem Singh (JC-489167K), 01 Jul 2004

Nb Sub Ramphal (JC-489150W), 01 Jul 2004

Nb Sub Hanuman Ram Jat (JC-489169P), 01 Jul 2004

Nb Sub Girraj Singh (JC-4891197F), 17 Jan 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and Allowances).

Nb Sub Roop Ram (JC-489273H), 15 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mahipal Singh (JC-489168M), 02 Jul 2004

Nb Sub Ram Kishan (JC-489042M), 08 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 04 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bir Bahadur Singh (JC-489155P), 09 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devi Singh (JC-489018W), 01 Aug 2004

Nb Sub Rajiender Singh (JC-489058X), 01 Aug 2004

Nb Sub Chander Pal (JC-489092X), 01 Aug 2004

Nb Sub Radha Krishan (JC-489151Y), 01 Aug 2004

Nb Sub Rajbir Singh (JC-489170K), 30 Nov 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Krishan Kumar (JC-489241A), 01 Aug 2004

Nb Sub Dherendra Singh (JC-489205P), 01 Nov 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dharam Pal (JC-489237X), 01 Aug 2004

Nb Sub Radhey Shyam (JC-489096N), 11 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dilbag Singh (JC-489293W), 12 Sep 2004

Nb Sub Prabhu Dayal Yadav (JC-489246Y), 20 Sep 2004

Nb Sub Yogander Singh (JC-489062A), 07 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 21 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shish Ram (JC-489084Y), 21 Sep 2004

Nb Sub Dalbir Singh (JC-489315K), 28 Nov 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 21 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sarjan Singh (JC-489320P), 15 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

- Nb Sub Surender Singh (JC-489360W), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Sep 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Chandan Singh (JC-489002L), 14 Oct 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Dal Singh (JC-489023F), 01 Oct 2004
- Nb Sub Tula Ram (JC-489033L), 01 Oct 2004
- Nb Sub Ram Chander (JC-489043P), 01 Oct 2004
- Nb Sub Umed Singh (JC-489045A), 29 Oct 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Vidhyadhar Singh Mahlawat (JC-489065N), 05 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Sudhir Kumar (JC-489114L), 01 Oct 2004
- Nb Sub Satbir Singh (JC-489083W), 01 Oct 2004
- Nb Sub Jaibir Singh (JC-489097W), 01 Oct 2004
- Nb Sub Joginder Singh (JC-489095L), 01 Jan 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Nabab Singh (JC-489162L), 01 Oct 2004
- Nb Sub Satish Kumar (JC-489147W), 20 Jan 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Surender Kumar (JC-489158H), 29 Oct 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).
- Nb Sub Jaibir Singh (JC-489187X), 01 Oct 2004
- Nb Sub Murlidhar (JC-489183F), 01 Oct 2004
- Nb Sub Ganesh Ram Jat (JC-489189H), 01 Oct 2004
- Nb Sub Surender Singh (JC-489224A), 01 Oct 2004
- Nb Sub Jagmendar Singh (JC-489172P), 01 Oct 2004
- Nb Sub Devi Ram (JC-489260L), 01 Oct 2004
- Nb Sub Kulber Singh (JC-489261N), 01 Oct 2004
- Nb Sub Sohan Lal (JC-489203K), 01 Oct 2004
- Nb Sub Member Singh (JC-489228W), 01 Oct 2004
- Nb Sub Krishan Chander (JC-489277Y), 01 Oct 2004
- Nb Sub Raj Singh (JC-489242H), 01 Oct 2004
- Nb Sub Laxman Singh (JC-489247F), 01 Oct 2004
- Nb Sub Bharat Singh (JC-489252M), 01 Oct 2004
- Nb Sub Yogendra Kumar (JC-489308N), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ishwar Singh (JC-489321X), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Mool Chand (JC-489649Y), 01 Jun 2006*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Bijender Singh (JC-489337H), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Randhir Singh (JC-489322A), 13 Feb 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Bajrang Lal (JC-489333M), 01 Dec 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ramveer Singh (JC-489238A), 08 Oct 2004
- Nb Sub Hanuman Ram (JC-489369L), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ganpat Ram (JC-489398A), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ranbir Singh (JC-489399H), 21 Aug 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ram Mehar Singh (JC-489413K), 28 Nov 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ram Mehar (JC-489174A), 20 Oct 2004*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 17 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Shamsher Singh (JC-489063H), 20 Feb 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Bhargubir Singh (JC-489064L), 01 Nov 2004
- Nb Sub Umed Singh (JC-489243L), 01 Nov 2004
- Nb Sub Mohar Singh (JC-489291L), 01 Aug 2005*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-489292N), 01 Nov 2004

Nb Sub Raj Pal (JC-489124P), 22 Nov 2004

Nb Sub Mahi Pal (JC-489125X), 29 Mar 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 22 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sultan Singh (JC-489264F), 24 Nov 2004

Nb Sub Saudan Singh (JC-489041K), 28 Nov 2004

Nb Sub Rajvir Singh Luhach (JC-489044X), 28 Nov 2004

Nb Sub Surat Singh (JC-489105K), 23 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rameshwar Lal (JC-489107P), 01 Dec 2004

Nb Sub Prakash Chand Dhaka (JC-489108X), 08 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Partap Singh (JC-489119K), 01 Dec 2004

Nb Sub Sumer Singh (JC-489178W), 24 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umed Singh (JC-489254X), 01 Dec 2004

Nb Sub Shish Ram (JC-489255A), 01 Dec 2004

Nb Sub Satbir Singh (JC-489294Y), 25 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagat Singh (JC-489295F), 01 Dec 2004

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-489338L), 01 Dec 2004

Nb Sub Rameshwar Lal (JC-489347M), 01 Dec 2004

Nb Sub Jagbir (JC-489152F), 11 Dec 2004

Nb Sub Girdhari Lal (JC-489171M), 11 Dec 2004

Nb Sub Ram Kumar (JC-489185M), 11 Dec 2004

Nb Sub Jagat Singh (JC-489131L), 12 Dec 2004

To be Nb Sub

Hav Samsher Singh (No. 3180584Y now JC-489872H), 30 Apr 2006

Hav Jagdish Kumar (No. 3178880L now JC-489873L), 04 May 2006

Hav Puran Singh (No. 3177591K now JC-489874N), 13 May 2006

Hav Ramesh Chander (No. 3178283W now JC-489875W), 01 Jun 2006

Hav Soran Singh (No. 3180328K now JC-489876Y), 01 Jun 2006

Hav Jaldeep Singh (No. 3180719P now JC-489877F), 01 Jun 2006

Hav Surender Pal Singh (No. 3180337L now JC-489878K), 16 Jun 2006

Hav Mangi Lal (No. 3181351K now JC-489879M), 01 Jul 2006

Hav Baga Ram (No. 3177473W now JC-489880F), 05 Jul 2006

Hav Om Prakash (No. 3178723Y now JC-489881K), 09 Jul 2006

Hav Bijender Singh (No. 3181038Y now JC-489882M), 13 Jul 2006

Hav Man Singh Jat (No. 3179510X now JC-489883P), 28 Jul 2006

Hav Jogendar Singh (No. 3178582P now JC-489884X), 01 Aug 2006

Hav Satish Kumar (No. 3184398A now JC-489885A), 01 Aug 2006

Hav Rajbir Singh (No. 3178974H now JC-489886H), 01 Aug 2006

Hav Baljit Singh (No. 3180112H now JC-489887L), 01 Aug 2006

Hav Samundra Singh (No. 3177158A now JC-489888N), 06 Aug 2006

Hav Subhash (No. 3180082W now JC-489889W), 20 Aug 2006

Hav Rajbir Singh (No. 3178640N now JC-489890L), 01 Sep 2006

Hav Ram Niwash (No. 3178587N now JC-489891N), 01 Sep 2006

Hav Krishan Kumar (No. 3179574H now JC-489892W), 01 Sep 2006

Hav Sukhvir Singh (No. 3194587X now JC-489893Y), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Achal Singh (No. 3180340L now JC-489894F), 06 Jul 2006

Hav Bhanwara Ram (No. 3181406M now JC-489895K), 17 Jul 2006

Hav Manvir Singh (No. 3178065X now JC-489896M), 01 Aug 2006

Hav Nihal Singh (No. 3178800H now JC-489897P), 06 Aug 2006

Hav Ashok Kumar (No. 3181276L now JC-489898X), 23 Aug 2006

Hav Mahatab Singh Poonia (No. 3175977L now JC-489899A), 23 Aug 2006

Hav Sher Singh Jhajharia (No. 3182417F now JC-489900K), 01 Sep 2006

Hav Ramesh Chand (No. 3178923P now JC-489901M), 01 Sep 2006

Hav Satish Kumar (No. 3179488X now JC-489902P), 11 Sep 2006

Hav Ramendra Singh (No. 3177824A now JC-489903X), 22 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 10 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhbir (No. 3188109X now JC-489904A), 01 Sep 2006

Hav Bijender Singh (No. 3175895H now JC-489905H), 01 Sep 2006

Hav Randhir Singh (No. 3179482W now JC-489906L), 01 Sep 2006

Hav Udaivir Singh (No. 3176762Y now JC-489907N), 01 Sep 2006

Hav Mange Ram (No. 3176880M now JC-489908W), 01 Oct 2006

Hav Jawahar Lal Jat (No. 3177180L now JC-489909Y), 01 Oct 2006

Hav Subhash Chander (No. 3180475M now JC-489910N), 01 Oct 2006

Hav Shyamvir Singh (No. 3179979N now JC-489911W), 01 Oct 2006

Hav Vinod Kumar (No. 3179243F now JC-489912Y), 01 Oct 2006

Hav Kamal Singh (No. 3179055A now JC-489913F), 01 Nov 2006

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Sadanand (JC-439170N), 01 Feb 2006

Nb Sub (Clk) Gopalan P (JC-439133A), 01 Feb 2006

Nb Sub (Clk) Rajan Nagath (JC-439154W), 01 Mar 2006

Nb Sub (Clk) Ravindran V (JC-439160K), 01 May 2006

Nb Sub (Clk) Edison J (JC-439171W), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 May 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub (Clk) B Sreesylam (JC-439173F), 27 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub (Clk) Abdul Quadar Makandar (JC-439220N), 14 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub (Clk) Asokan N (JC-439219Y), 21 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces).

To be Subedar

Nb Sub A Cheilapandy (JC-439371M), 26 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 05 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub G Perumal (JC-439372P), 02 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Raja Vel K (JC-439419P), 07 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub K Shanmugam (JC-439224K), 29 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Katari Nageswara Rao (JC-439197L), 18 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Damodaran P (JC-439305K), 21 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub G Rajendran (JC-439359L), 21 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allces).

To be Nb Subedar

Hav Sadashiv Lugari (No. 2591675A now JC-439750H), 14 Oct 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces).

Hav K Ravi (No. 2589938P now JC-439727P), 19 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Hav G Raja Poopathy (No. 8031529Y now JC-439729A), 19 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Hav Kusangi Mogulaiah (No. 2590008A now JC-439751L),
14 Oct 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul 2006
without effect on pay and allces).

Hav Manoharan S (No. 2585751L now JC-439730P), 23
Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006
without effect on pay and allces).

Hav Dinasan K (No. 2592967P now JC-439744P), 04 Oct
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Aug 2006
without effect on pay and allces).

Hav T Chidambaram (No. 2587886L now JC-439739K),
04 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Aug 2006
without effect on pay and allces).

Hav Gayam Thirupathaiah (No. 2590459A now JC-
439709M), 24 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allces).

Hav J Sebastian (No. 2584639M now JC-439720L),
15 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allces).

Hav Kunjumon K (No. 3387557F now JC-439721N),
15 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allces).

Hav Adekeppa Managutti (No. 2586875M now JC-
439722W), 15 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2006
without effect on pay and allces).

Hav K Achimuthu (No. 2587279M now JC-439723Y),
23 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2006
without effect on pay and allces).

Hav K Sekar (No. 2591206X now JC-439717L), 01 Aug
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jun 2006
without effect on pay and allces).

Hav R Sasikumar (No. 2591283M now JC-439718N),
01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006
without effect on pay and allces).

Hav Sudhakaran P (No. 2588709X now JC-439732A),
01 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2006
without effect on pay and allces).

Hav KB Ramakrishna (No. 2588695N now JC-439733H),
01 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2006
without effect on pay and allces).

Hav Laxman Bhadargade (No. 2590791W now JC-439734L),
01 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2006
without effect on pay and allces).

Hav R Govindaraj (No. 2590920L now JC-439735N),
01 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 2006
without effect on pay and allces).

Hav Pandra Srinivasulu (No. 2591428M now JC-439706Y),
09 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2006
without effect on pay and allces).

Hav JA Jaikumar (No. 2590737H now JC-439736W), 01
Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allces).

Hav Satheesh Babu N (No. 3391306P now JC-439738F),
08 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2006
without effect on pay and allces).

Hav T Seetha Ramulu (No. 2588755M now JC-439740Y),
11 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 2006
without effect on pay and allces).

Hav T Nagadhas (No. 2591547H now JC-439741F),
11 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 2006
without effect on pay and allces).

Hav M Maharajan (No. 2589025N now JC-439737Y),
04 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jun 2006
without effect on pay and allces).

Hav Bhimasen Ishwar Done (No. 2591291L now JC-
439719W), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006
without effect on pay and allces).

Hav Rona Gala Raja Rao (No. 2589568A now JC-439724F),
04 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006
without effect on pay and allces).

Hav Suhas Tore (No. 2587614L now JC-439742K), 01 Oct
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006
without effect on pay and allces).

Hav Ravi Kumar D (No. 2588938H now JC-439728X), 19 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2006 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub/RT (Pandit)

Rect/RT (Pandit) Govind Prasad Mishra (JC-439613K), 10 Dec 2005

Rect/RT (Pandit) Hem Chandra Joshi (JC-439614M), 10 Dec 2005

Rect/RT (Pandit) Subhash Chandra Kaktwan (JC-439620A), 10 Dec 2005

Rect/RT (Pandit) Chandra Kishor Mishra (JC-439621H), 10 Dec 2005

THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedar Majors

Sub Maj Raj Kumar (JC-478377K), 16 Jun 2006

Sub Maj Dwarika Prasad Tiwari (JC-478554Y), 01 Sep 2006

To be Subedar Clerks

Sub Clk Thakur Das (JC-479059M), 01 Apr 2006

Sub Clk Birham Prakash (JC-479060F), 01 Jul 2006

Sub Clk Anand Kumar Pandey (JC-479134L), 01 Aug 2006

Sub Clk Satyendra Pal Singh (JC-479135N), 01 Sep 2006

Sub Clk Jang Bahadur Singh Chauhan (JC-479287P), 01 Oct 2006

Sub Clk Sone Lal Pandey (JC-479354P), 01 Oct 2006

To be Subedars

Sub Mahender Singh (JC-479176X), 01 Sep 2004

Sub Shiv Kumar (JC-479083H), 01 Jul 2005

Sub Hari Shanker (JC-479371P), 01 Feb 2006

Sub Jagdish Prasad Gurjar (JC-479302Y), 01 Mar 2006

Sub Kailash Chand (JC-479166N), 09 Mar 2006

Sub Rup Narain Singh (JC-479228H), 09 Mar 2006

Sub Rehman Khan (JC-479314N), 09 Mar 2006

Sub Amiruddin (JC-479329W), 09 Mar 2006

Sub Eshak Ahmed (JC-479194A), 25 Mar 2006

Sub Raghunath (JC-479150H), 01 Apr 2006

Sub Raghu Raj Singh (JC-479363W), 07 Apr 2006

Sub Sappu Singh (JC-479335K), 01 May 2006

Sub Indra Singh (JC-479345N), 01 May 2006

Sub Bhanwar Singh (JC-479075K), 01 Jun 2006

Sub Gajender Singh (JC-479157M), 01 Jun 2006

Sub Barister Singh (JC-479203W), 01 Jun 2006

Sub Dharam Pal Singh (JC-479223K), 01 Jun 2006

Sub Om Prakash (JC-479391H), 01 Jun 2006

Sub Lal Chand Gurjar (JC-479364Y), 01 Jun 2006

Sub Chhittarmal Gurjar (JC-479386X), 01 Jun 2006

Sub Samunder Singh (JC-479409M), 01 Jun 2006

Sub Amar Singh Thakur (JC-479416K), 01 Jun 2006

Sub Ajab Singh Pundir (JC-479425L), 01 Jun 2006

Sub Kanhaiya Lal Gurjar (JC-479426N), 01 Jun 2006

Sub Suraj Mal Gurjar (JC-479440A), 01 Jun 2006

Sub Ram Avtar Gurjar (JC-479452P), 01 Jun 2006

Sub Satyabhan Singh (JC-479468A), 01 Jun 2006

Sub Sawai Singh Gurjar (JC-479471A), 01 Jun 2006

Sub Ram Bhagat Chaturvedi (JC-479479M), 01 Jun 2006

Sub Atar Singh (JC-479482M), 01 Jun 2006

Sub Surendra Singh Raghav (JC-479496M), 01 Jun 2006

Sub Jaivir Singh (JC-479486H), 01 Jun 2006

Sub Surendra Bahadur Singh (JC-479498X), 01 Jun 2006

Sub Mahesh Kumar (JC-479522H), 01 Jun 2006

Sub Sat Prakash (JC-479552A), 01 Jun 2006

Sub Rajvir Singh (JC-479583A), 01 Jun 2006

Sub Prathwi Singh (JC-479639F), 01 Jun 2006

Sub Ram Kishore Gurjar (JC-479160M), 01 Jul 2006

Sub Guru Dayal Gurjar (JC-479195H), 01 Jul 2006

Sub Bechan Singh (JC-479249Y), 01 Jul 2006

Sub Jorawar Singh (JC-479322M), 01 Jul 2006

Sub Shiv Charan (JC-479366K), 01 Jul 2006

Sub Kishan Singh (JC-479235Y), 01 Aug 2006

Sub Ram Niwas (JC-479256P), 01 Aug 2006

Sub Mahabal Singh (JC-479286M), 01 Aug 2006

Sub Krishan Pal Singh (JC-479299K), 01 Aug 2006

Sub Raj Singh (JC-479331N), 01 Aug 2006

Sub Rajendra Kumar Sharma (JC-479397K), 20 Aug 2006

Sub Satya Pal Singh (JC-479167W), 01 Sep 2006

Sub Pukh Raj Gurjar (JC-479516N), 01 Sep 2006

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Puran Chandra (JC-539585X), 13 Jul 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhim Singh (JC-539586A), 07 Jul 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ashok Singh (JC-539620P), 07 Jul 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Radhey Shyam (JC-539577Y), 13 Jul 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suresh Pal Singh Yadav (JC-539629K), 07 Jul 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Tribhuvan Chand (JC-539498K), 17 Apr 2006/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

To be Sub Major

Sub Kushal Singh Garia (JC-538112M), 02 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Diwan Singh (JC-538121N), 03 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2006).

Sub Kamla Pati Bhatt (JC-538156K), 01 Apr 2006

Sub Dalip Singh (JC-538182L), 20 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006).

Sub Satyapal Yadav (JC-538195H), 01 Aug 2006

Sub Kundan Singh (JC-538221Y), 02 Mar 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006).

Sub Rajendra Singh (JC-538245H), 01 Jan 2006

Sub Anand Singh (JC-538247N), 24 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2006).

Sub Dalip Singh (JC-538354P), 01 Feb 2006

Sub Pratap Singh (JC-538654X), 01 Apr 2006

Sub Diwani Ram (JC-538691K), 01 Apr 2006

Sub Ghamandi Lal Yadav (JC-538869P), 14 Aug 2006/01 Aug 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2006).

Sub (Musn) Padam Singh (JC-539033K), 17 Feb 2006/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2005).

Sub WS Lungtha Anal (JC-218034A), 10 Jan 2006/01 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005).

Sub LK Wungreishim (JC-208183A), 01 May 2005

Sub (Clk) Balbir Singh Yadav (JC-538387A), 01 Jan 2005

Sub (Clk) Prem Singh Kandari (JC-538488N), 03 Jul 2005/01 Jun 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2005).

Sub (Clk) Rama Shankar Yadav (JC-538536H), 18 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006).

Sub (Clk) Narain Singh Deopa (JC-538545K), 02 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006).

To be Nb Sub

CQMH Trilok Singh Jethi (No. 4177675N now JC-540034Y), 12 May 2006/08 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

CHM Khushal Singh (No. 4177782P now JC-540038P), 06 May 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

CHM Mahindra Singh Waldia (No. 4178930F now JC-540039X), 06 May 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 4180379N now JC-540040M), 06 May 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jiwan Singh (No. 4178360W now JC-540041P), 08 May 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Keshar Singh (No. 4177344M now JC-540054M), 07 Jul 2006/03 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Kailash Singh Bisht (No. 4178687P now JC-540045L), 06 Jun 2006/08 May 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 May 2006).

Hav Nandan Singh (No. 4179292A now JC-540055P), 01 Jul 2006

Hav Bheem Singh (No. 4179237K now JC-540035F), 30 May 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Singh (No. 4180644Y now JC-540037M), 30 May 2006/02 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Kharak Singh (No. 4181269L now JC-540042X), 16 May 2006/01 May 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Dharm Singh (No. 14701166W now JC-540043A), 01 May 2006

Hav Balbir Singh (No. 14701561K now JC-540046N), 01 Jun 2006

Hav Nathu Singh (No. 4179521A now JC-540044H), 10 May 2006/01 May 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Pal (No. 4180448Y now JC-540050W), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Naresh Kumar (No. 4180483F now JC-540051Y), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

CHM Surender Singh (No. 4179302Y now JC-540052F), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Chandra (No. 4178657X now JC-540036K), 19 May 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

THE NAGA REGIMENT

CQMH KT Kolensen Anal (No. 14702278H now JC-590194P), 19 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Kamei Languigai Rongmei (No. 14702283N now JC-590195X), 04 Jul 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

CHM Shyam Singh (No. 14701112P now JC-590196A), 19 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shri Prasad Thapa (No. 14701786M now JC-590197H), 19 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Umed Singh (No. 14701107K now JC-590198L), 26 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chatur Bahadur Thapa (No. 14701688M now JC-590189K), 24 Apr 2006/30 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Singh (No. 14701695H now JC-590190Y), 20 Apr 2006/30 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Yangerlemba (No. 14701967X now JC-590191F), 24 Apr 2006/30 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav S Benjamin (No. 14702260M now JC-590192K), 20 Apr 2006/30 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav K Sprayaima Kom (No. 14702416Y now JC-590193M), 19 May 2006/30 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Pushkar Chand (No. 4182308L now JC-540062L), 09 Sep 2006/01 Aug 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Satendra Singh (No. 14701159A now JC-540057A), 10 Jul 2006/01 Jul 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Chand (No. 14701535H now JC-540058H), 08 Jul 2006/01 Jul 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 4177564W now JC-540059L), 15 Jul 2006/04 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Singh (No. 4178185M now JC-540060A), 06 Jul 2006/16 May 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Dev (No. 4176180P now JC-540061H), 01 Aug 2006

Hav Brijesh Kumar (No. 4181644L now JC-540063N), 01 Sep 2006

Hav Nand Lal Singh (No. 4175628X now JC-540070K), 01 Oct 2006

Hav Narender Singh (No. 4177823N now JC-540065Y), 02 Aug 2006/06 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Narender Singh (No. 4180435F now JC-540067K), 31 Aug 2006/01 Aug 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rattan Singh (No. 4181327K now JC-540064W), 09 Sep 2006/01 Aug 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Basti Ram Yadav (No. 4181353L now JC-540069P), 06 Oct 2006/19 Sep 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Sep 2006 without effect on pay and allowances).

CQMH Anand Singh (No. 4182861X now JC-540066F), 31 Aug 2006/02 Jul 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

RPHM Harish Chander (No. 4180443A now JC-540049F), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

CQMH Anil Kumar (No. 4180451Y now JC-540020Y), 11 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar Yadav (No. 4180526L now JC-540068M), 31 Aug 2006/01 Aug 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Patil Bharmana Laxman (JC-458182X), 12 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 09 May 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Ishwar Laxman Patil (JC-458479Y), 22 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Balasaheb Babu Katkar (JC-220660F), 15 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub

Nb Sub Parashram Rama Kolap Gawade (JC-459188L), 01 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Khalate Ramchandra Vithoba (JC-459179K), 23 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Patil Keshav Pandurang (JC-459192N), 10 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhatkande Jotiba Shankar (JC-459213N), 08 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sadik Ali Khan (JC-459242N), 09 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nagane Ankush Babu (JC-459232K), 14 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vasappa (JC-459135M), 26 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satish Chandra Mishra (JC-459243W), 24 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 16 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vichare Pramod Gajanan (JC-458901L), 18 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jadhav Maruti Govinda (JC-459249X), 22 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pramod Pochiram Bhoyar (JC-458935Y), 26 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 12 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dhumal Dilip Shankar (JC-459221X), 03 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 10 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mundhe Abhiman Vyankatrao (JC-459072P), 03 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sube Singh (JC-458977L), 01 Aug 2006

Nb Sub Tanaji Santaram Devekar (JC-458985K), 05 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ramchandra Bhuralal Jadav, SM (JC-458986M), 10 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Rohtas (JC-459070K), 08 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Aeer Umesh Sakharam (No. 2784055L now JC-459651F), 08 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Koshti Mahananda Annasaheb, SM (No. 2786011M now JC-459652K), 26 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chaudhari Ramdas Haridas (No. 2782975K now JC-459653M), 17 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jadhav Tanaji Shamrao (No. 2782063L now JC-459654P), 17 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Kashid Ramachandra Maruti (No. 2783525Y now JC-459655X), 21 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Ashtekar (No. 2783052L now JC-459656A), 24 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major

Sub Nanda Kumar Limbu (JC-218091F), 01 Apr 2006

Sub Dhan Bahadur Limbu, SM (JC-634075F), 01 Apr 2006

Sub Lakpa Tshering Sherpa (JC-634181A), 01 Apr 2006

Sub Madhim Bahadur Rai (JC-634155Y), 14 Apr 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Apr 2006).

Sub Mani Rai (JC-634166L), 01 May 2006

To be Subedar

Nb Sub Birtha Man Rai (JC-634520P), 07 Feb 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Feb 2006).

Nb Sub Krishna Bahadur Rai (JC-634537H), 01 Mar 2006

Nb Sub Prem Kumar Rai (JC-634534P), 01 Apr 2006

Nb Sub Pandu Man Rai (JC-634521X), 08 Apr 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Feb 2006).

Nb Sub Taka Bir Limbu (JC-634535X), 01 May 2006

Nb Sub Arjun Tamang (JC-634558Y), 01 Jun 2006

Nb Sub Yam Bahadur Mukhia (JC-634543W), 01 Jun 2006

Nb Sub Lok Man Rai (JC-634551P), 01 Jun 2006

Nb Sub Sang Tshering Lepcha (JC-634556N), 01 Jun 2006

Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-634618H), 01 Jun 2006

Nb Sub Bikaram Pachabhaiya (JC-634540H), 13 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Devi Ram Rai (JC-634591W), 13 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Jagir Man Rai (JC-634603A), 13 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Tika Tamang (JC-634544Y), 14 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Aman Lama (JC-634548P), 14 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Ash Bahadur Rai (JC-634576P), 14 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-634577K), 14 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Benu Prasad Subba (JC-634549X), 15 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Rabindra Kumar Rai (JC-634542N), 16 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Tul Bahadur Limbu (JC-634545F), 16 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Raja Rai (JC-634541L), 16 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Jagat Bahadur Shrestha (JC-634570A), 16 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Tapta Bahadur Karki (JC-634596P), 16 Jun 2006
*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Shiv Raj Pradhan (JC-634565P), 19 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Aita Bahadur Limbu (JC-634567L), 19 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Khem Raj Rai (JC-634552X), 24 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Prakash Chandra Tamang (JC-634560W), 25 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Budi Raj Rai (JC-634555L), 26 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Sukbir Subba (JC-634619L), 27 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Nar Bahadur Tamang (JC-634572A), 01 Aug 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Ram Kumar Rai (JC-634569L), 12 Aug 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

Nb Sub Bharat Man Rai (JC-634601P), 21 Aug 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Jun 2006).

To be Nb Sub

Hav Hem Bahadur Sahi (9418226P now JC-634726M), 01 May 2006

*(Gtd notional seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Mar 2006).

Hav Rabin Kumar Limbu (9417499L now JC-634727P), 01 May 2006

Hav Anil Deo Rai (9418468X now JC-634728X), 06 May 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 May 2006).

Hav Indra Bahadur Limbu (9417607K now JC-634729A), 26 Jun 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with effect from 01 Mar 2006).

Hav Kamal Kumar Rai (9418103H now JC-634730P),
01 Jun 2006

Hav/Clk Vijay Bahadur Sharma (9418013F now JC-634731X), 01 Jul 2006

Hav Bhim Bahadur Dewan (9418101X now JC-634732A),
01 Jul 2006

Hav Boli Raj Sambambhe (9418243P now JC-634733H),
01 Jul 2006

Hav Pradhan Rai (9417805P now JC-634734L), 26 Jul 2006

*(Gtd seniority without effect on pay and allces with
effect from 01 Jul 2006).

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Maj Clks

Sub Clk Kashmir Singh Pathania (JC-428510L), 01 Jan
2006

Sub Clk Surinder Kumar (JC-428522A), 01 Jun 2006

Sub Clk Prem Chand Sharma (JC-428537H), 01 Jul 2006

To be Subedar Clks

Nb Sub Clk Adarsh Kumar (JC-428993N), 01 Oct 2004

Nb Sub Clk Kamal Singh (JC-428994W), 01 Dec 2004

Nb Sub Clk RS Saini (JC-428998M) 01 Jan 2005

Nb Sub Clk Jagdish Chand (JC-428995Y) 01 Jan 2005

Nb Sub Clk Baldev Singh (JC-428996F) 01 Feb 2005

Nb Sub Clk Tarlok Singh (JC-428999P) 01 Mar 2005

Nb Sub Clk Dinesh Kumar Sharma (JC-429029Y) 01 Apr
2005

Nb Sub Clk Randhir Singh (JC-429030N) 01 Jul 2005

Nb Sub Clk Roshan Lal (JC-429037X) 01 Jul 2005

Nb Sub Clk Mohinder Singh Dogra (JC-429041A) 01 Sep
2005

Nb Sub Clk Surjeet Kumar (JC-429080Y) 01 Sep 2005

Nb Sub Clk Mast Ram Verma (JC-429115K) 01 Oct 2005

Nb Sub Clk Bhagwan Das Sharma (JC-429116M) 01 Oct
2005

Nb Sub Clk Ram Krishan (JC-429196P) 01 Nov 2005

Nb Sub Clk Gauri Dutt Sharma (JC-429203A) 01 Nov 2005

Nb Sub Clk Rajender Prakash (JC-429295X) 01 Dec 2005

Nb Sub Clk Parampal Singh Sohi (JC-428958L) 01 Jan
2006

Nb Sub Clk Jagdish Chand Sharma (JC-429318L) 01 Jan
2006

Nb Sub Clk Jarnail Singh Vashist (JC-429296A) 01 Apr
2006

Nb Sub Clk Sat Paul (JC-429345X) 01 Apr 2006

Nb Sub Clk Hardit Singh (JC-429346A) 01 May 2006

Nb Sub Clk Anil Kumar (JC-429410M) 01 Jun 2006

Nb Sub Clk Sunil Singh (JC-429449Y) 01 Jun 2006

Nb Sub Clk Jaipal Singh (JC-429435Y) 01 Jul 2006

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj Clk (GD)

Sub Clk C D Sharma (JC-578626M), Jak Rif—01 Sep 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Dalbir Singh (JC-579808M), Jak Rif—01 Sep 2005

Nb Sub Manohar Lal (JC-579821W), Jak Rif—01 Oct 2005

Nb Sub Santokh Singh (JC-579795M), Jak Rif—01 Jan
2006

Nb Sub Mohan Lal (JC-579835W), Jak Rif—01 Jan 2006

Nb Sub Harish Chander (JC-579958H), Jak Rif—01 Jan
2006

Nb Sub Subhash Chander (JC-579867Y), Jak Rif—01 Mar
2006

Nb Sub Jagdish Chand (JC-579913H), Jak Rif—01 Mar
2006

Nb Sub Tarlochan Singh (JC-579805Y), Jak Rif—01 May
2006

Nb Sub Karnail Singh (JC-579854W), Jak Rif—01 May
2006

Nb Sub Ranvir Singh (JC-579842M), Jak Rif—01 Jun 2006

Nb Sub Hans Raj (JC-579843P), Jak Rif—01 Jun 2006

Nb Sub Uttam Singh (JC-579833L), Jak Rif—01 Aug 2006

Nb Sub Rama Nand Sharma (JC-579864L), Jak Rif—
01 Aug 2006

Nb Sub Hari Krishan (JC-579893A), Jak Rif—01 Aug 2006

Nb Sub Amar Nath (JC-579560N), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Tilak Raj (JC-579575W), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Mast Ram (JC-579577F), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Naresh Kumar (JC-579624N), Jak Rif—01 Sep
2006

Nb Sub Bhag Singh (JC-579525W), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Som Bahadur Rana (JC-579635A), Jak Rif—
01 Sep 2006

Nb Sub Biri Singh (JC-579748H), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Krishan Singh (JC-579756F), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Sunder Singh (JC-579758N), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Uttam Chand (JC-579759P), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Rajbir Singh (JC-579783L), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Harbans Lal (JC-579811M), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Vijay Singh (JC-579865N), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Bhup Singh (JC-579882N), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Raj Kumar (JC-579905K), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Pawan Kumar (JC-579906Y), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Mohan Singh (JC-580002Y), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Jasvir Singh (JC-579855K), Jak Rif—01 Oct 2006

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Subhash Chandra Singh (JC-579442A), Jak Rif—01 Jun 2006

Nb Sub Clk Data Ram (JC-579588N), Jak Rif—01 Aug 2006

Nb Sub Clk Narendra Chaudhary (JC-579603X), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Clk Sukhbir Singh (JC-579614X), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Clk Ramesh Chand Rana (JC-579630F), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Clk Harpal Singh (JC-579631K), Jak Rif—01 Sep 2006

Nb Sub Clk Dhanna Singh (JC-579642W), Jak Rif—01 Sep 2006

To be Nb Sub (GD)

Hav Kamlesh Chand Sharma (No. 13748570A now JC-580308F), 19 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2006).

Hav Durga Singh (No. 13748589Y now JC-580309K), 12 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2006).

Hav Daya Ram (No. 13748590N now JC-580310Y), 12 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2006).

Hav Tarsem Lal (No. 13747795W now JC-580311F), 23 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 Aug 2006).

Hav Dawinder Singh (No. 3381886F now JC-580312K), 19 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24 Aug 2006).

Hav Swami Ram (No. 13749229P now JC-580314P), 11 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Ran Singh Thakur (No. 13748680P now JC-580315X), 12 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Brahm Ram (No. 13749310F now JC-580316A), 12 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Sukhdarshan Singh Thakur (No. 13749313P now JC-580317H), 12 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Jagdish Kalta (No. 13756372K now JC-580318L), 21 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Jaswant Singh, S M (No. 13747720Y now JC-580319N), 11 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Yash Paul (No. 13748621L now JC-580320H), 23 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Mohd Nishal Khan (No. 13752455X now JC-580321L), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Rajveer Cheeta (No. 13752457H now JC-580322N), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Smail Khan Dhillon (No. 13752482F now JC-580323W), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Paramjit Singh (No. 13752575W JC-580324Y), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Sewa Ram (No. 13749395H now JC-580325F), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Kewal Krishan (No. 13752753N now JC-580326K), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Gurcharan Singh (No. 13752685L now JC-580327M), 18 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Surjit Singh (No. 13749068X now JC-580328P), 14 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav Clk Mandhoj Pradhan (No. 13751215N now JC-580313M), 01 Sep 2006

Hav Clk Ravinder Datta (13751245L now JC-580329X), 03 Oct 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2006).

To be Nb Sub (GD)

Hav Jai Singh (No. 13747698Y now JC-580294M), 01 Aug 2006

Hav Badri Dass (No. 13747908N now JC-580295P), 02 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2006).

Hav Yog Raj (No. 13749190N now JC-580300P), 04 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006).

Hav Surender Kumar (No. 13748017X now JC-580301X), 01 Sep 2006

Hav Rup Lal (No. 13748346N now JC-580302A), 01 Sep 2006

Hav Purshotam Lal (No. 13748419P now JC-580303H), 01 Sep 2006

Hav Pritam Singh (No. 13748462P now JC-580304L), 01 Sep 2006

Hav Om Prakash (No. 13749307F now JC-580305N), 01 Sep 2006

Hav Pradeep Singh (No. 13749320L now JC-580306W), 01 Sep 2006

Hav Chaman Lal (No. 13749021M now JC-580307Y), 01 Sep 2006

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav/Clk Ashwani Kumar Vishwakarma (No. 13751200L now JC-580296X), 01 Sep 2006

Hav/Clk Chandra Sekhar Acharya (No. 3989647Y now JC-580297A), 01 Sep 2006

Hav/Clk Ranjan Nath (No. 13751205K now JC-580298H), 01 Sep 2006

Hav/Clk S Singaraj (No. 13751226A now JC-580299L), 01 Sep 2006

SPECIAL LIST

JAK RIF

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Pandit Manoj Kumar Tiwari (No. 580117M now JC-580117MH), 10 Dec 2005

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Ashok Kumar (JC-412776N), 01 Nov 2005

Nb Sub Daulat Singh Manral (JC-412440N), 14 Aug 2006

Nb Sub Tara Chand (JC-412645H), 01 Sep 2006

Nb Sub Bir Bahadur Thapa (JC-412796N), 15 Sep 2006

Nb Sub Jaipal Singh (JC-412684F), 26 Sep 2006

Nb Sub Hari Singh (JC-412657X), 01 Oct 2006

Nb Sub Hari Har Prasad Giri (JC-412693H), 01 Oct 2006

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Smritter Singh Gondal (JC-519165W), 01 Aug 2006

To be Sub Maj/Clk

Sub Clk Partap Singh Chauhan (JC-518689L), 01 Aug 2006

To be Sub

Nb Sub Sodagar Singh (JC-519719K), 12 July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Kuldip Singh (JC-519703Y), 01 Nov 2005

Nb Sub Madan Lal (JC-519837X), 28 Aug 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Tilak Raj (JC-519890H), 01 July 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Udham Singh (JC-519871X), 01 June 2006

Nb Sub Surinder Singh (JC-519872A), 01 June 2006

Nb Sub Surjit Singh (JC-519892N), 01 July 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Dev Raj (JC-519874L), 10 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Surender Kumar (JC-519939N), 22 Aug 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Rajinder Singh (JC-519893W), 1 July 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Parmodh Kumar Chauhan (JC-519888L), 01 June 2006

Nb Sub Sukhdev Kumar (JC-519889N), 23 June 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Narayan Singh Khemta (JC-519894Y), 01 June 2006

Nb Sub Avinash Singh (JC-519900F), 01 July 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-519903P), 01 June 2006

Nb Sub Kashmiri Lal (JC-520007N), 01 June 2006

Nb Sub Kuldip Chand (JC-519737M), 27 Aug 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Sukh Dev (JC-519738P), 01 Sep 2006

To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Hans Raj Chambial (JC-519833F), 01 Apr 2006

Nb Sub/Clk Darshan Singh (JC-519816F), 01 June 2006

To be Sub Maj

Sub Dayal Singh, S C (JC-519084W), 01 Sep 2006

Sub Rajinder Singh (JC-519284M), 01 Sep 2006

Sub Balbir Singh Koshal (JC-518980X), 01 Oct 2006

To be Sub

Nb Sub Jagdev Singh (JC-519672K), 15 May 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 06 Dec 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Bira Ram (JC-519844N), 13 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Subash Chand (JC-519836P), 27 Aug 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Mohinder Singh (JC-519855A), 13 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Krishan Chand (JC-519859W), 11 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Shiv Kumar (JC-519873H), 01 June 2006

Nb Sub Gopal Singh (JC-519891L), 01 June 2006

Nb Sub Vijay Kumar (JC-519896K), 01 June 2006

Nb Sub Vijay Kumar Harchand (JC-519935X), 05 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Madan Lal (JC-519944Y), 01 June 2006

Nb Sub Lashkari Ram Thakur (JC-519977K), 15 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Subhash Chand (JC-519946K), 01 June 2006

Nb Sub Sanjay Kumar (JC-520008W), 12 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Ramesh Lal (JC-519982P), 01 June 2006

Nb Sub Mehar Chand (JC-520019H), 22 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Jaswant Singh (JC-520020X), 01 June 2006

Nb Sub Pratap Singh (JC-520043Y), 01 June 2006

Nb Sub Rama Kant (JC-519907L), 01 Oct 2006

To be Sub Maj

Sub Hem Raj (JC-518976P), 01 Sep 2006

Sub Daljit Singh (JC-518992M), 01 Nov 2006

To be Sub

Nb Sub Kamaljit Singh Katoch (JC-519849M), 15 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Balwinder Singh (JC-519932K), 27 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Kushal Singh Negi (JC-519933M), 15 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Kartar Singh (JC-519943W), 21 Aug 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Shakti Chand Chandel (JC-519972L), 23 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Ram Nath (JC-519973N), 05 Oct 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Surinder Kumar (JC-520066A), 15 Sep 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Kuldip Singh (JC-520103H), 04 Oct 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Sub/Clk.

Nb Sub/Clk Jagdish Chand Patyal (JC-519835M), 01 June 2006

Nb Sub/Clk Swaran Kumar Bal (JC-519860L), 01 July 2006

Nb Sub/Clk Balwant Singh (JC-519952X), 21 Aug 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Nb Sub

Hav Jaswant Singh (No. 3984725F now JC-520369P), 17 Feb 2006

Hav Om Parkash (No. 3983535H now JC-520370K), 30 June 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Ajit Lal (No. 3983657M now JC-520371M), 01 May 2006

Hav Sohan (No. 3985713Y now JC-520372P), 04 May 2006

Hav Surender Singh (No. 3984175K now JC-520373X), 06 June 2006+
 +(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05 May 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Sushil Kumar (No. 3985953W now JC-520374A), 06 May 2006

Hav Dola Singh (No. 3988268W now JC-520375H), 20 June 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 07 May 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Joginder Singh (No. 3984084A now JC-520376L), 24 July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Didu Ram Thakur (No. 3986340H now JC-520377N), 01 June 2006

Hav Ved Parkash Thakur (No. 3986365P now JC-520378W), 01 June 2006

Hav Kamlesh Kumar (No. 3387112P now JC-520379Y), 30 June 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Surinder Kumar (No. 3387119Y now JC-520380N), 24 July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Mehar Singh (No. 3984709K now JC-520381W), 29 June 2006

Hav Uttam Chand (No. 3390444K now JC-520382Y), 19 Aug 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 July 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Romesh Singh (No. 3984767N now JC-520383F), 27 July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 July 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Ravindra Kumar Achal (No. 3985675N now JC-520384K), 01 June 2006

Hav/Clk Prabhati Lal (No. 3985975P now JC-520385M), 01 June 2006

Hav/Clk Mangala Prasad Singh (No. 3986102W now JC-520386P), 01 July 2006

Hav/Clk Vijay Jaswal (No. 3985548Y now JC-520387X),
11 Aug 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Nb Sub

Hav Ranjit Singh (No. 3985638A now JC-520393L),
01 July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 Mar 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Ravinder Parkash (No. 3995296L now JC-520394N),
12 May 2006

Hav Gian Chand (No. 3982612A now JC-520395W),
12 May 2006

Hav Bahadur Chand (No. 3984184L now JC-520396Y),
28 July 2006

Hav Ghari Lal (No. 3984430L now JC-520397F), 28 July
2006

Hav Balwant Singh (No. 3984222W now JC-520398K),
19 Aug 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 June 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Suresh Singh (No. 3984945L now JC-520399M),
01 Oct 2006

Hav Paras Ram (No. 3983644P now JC-520400W), 01 Oct
2006

Hav Dharam Singh (No. 3983749Y now JC-520388A),
22 May 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 Mar 2006 without effect on Pay & Allowances).

Hav Bhim Singh (No. 3983770F now JC-520389H), 01 Apr
2006

Hav Kishan Chand (No. 3983775A now JC-520390X),
10 July 2006

Hav Bihari Lal (No. 3983765W now JC-520391A), 10 July
2006

Hav Parkash Chand (No. 3983638F now JC-520392H),
01 Sep 2006

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Ghanshyam (JC-469871Y), 13 May 2006

THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Karande Rajendra Maruti (No. 4558425L now JC-569808Y), 17 May 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2006).

Hav Bijender Singh (No. 4555485P now JC-569809F), 05
Jun 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 May 2006).

Hav Rajesh Kumar (No. 4557576X now JC-569810W), 12
Jun 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 06 May 2006).

Hav Mohan Singh (No. 4557668K now JC-569811Y), 12
Jun 2006#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2006).

Hav Sri Shivraj Singh Bhadoria (No. 4559948W now JC-569812F), 04 Jun 2006

Hav Hira Singh (No. 8031471M now JC-569813K), 15 Aug
2006##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2006).

Hav Mukhtiar Singh (No. 4556262K now JC-569814M), 15
Aug 2006###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2006).

Hav Bhaiya Lal Shukla (No. 4556295P now JC-569815P),
01 Aug 2006

Hav Chaitanya Behera (No. 4558077P now JC-569816X),
01 Aug 2006

Hav Jaybir Singh (No. 4559076Y now JC-569817A), 15
Aug 2006\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2006).

Hav Ashok Kumar Singh Yadav (No. 4554565A now JC-569800M), 22 Jun 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2006).

Hav Ramteke Suresh Yadaorao (No. 4560041P now JC-569801P), 19 Jun 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2006).

Hav Banwari Lal (No. 4554920M now JC-569802X), 08 Jun 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2006).

Hav Narayan Behera (No. 4555574N now JC-569803A), 13 Jun 2006#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2006).

Hav Kamal Chandra Ray (No. 4554257A now JC-569804H), 20 May 2006##

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2006).

Hav Ganga Sharan Singh (No. 2983859X now JC-569805L), 02 Jun 2006

Hav Manoj Kumar Thakur (No. 8031373M now JC-569806N), 21 Jul 2006###

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2006).

Hav Moli Ram Chobdar (No. 4557705M now JC-569807W), 01 Aug 2006

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Jagwinder Singh (No. 4465350N now JC-509384K), 27 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 Oct 2005).

Hav Paramjit Singh (No. 4466996K now JC-509385M), 14 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2005).

Hav Gurmel Singh (No. 4465810H now JC-509386P), 14 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2005).

Hav Tilak Raj Singh (No. 4466968X now JC-509387X), 05 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2006).

Hav Lakhbir Singh (No. 4465884X now JC-509388A), 22 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2006).

Hav Gursewak Singh (No. 4465855A now JC-509389H), 05 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 12 May 2006).

Hav Dharam Singh Chohan (No. 4463582M now JC-509390X), 10 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 12 May 2006).

Hav Suba Singh (No. 4467578F now JC-509391A), 23 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 May 2006).

Hav Santokh Singh (No. 4465940L now JC-509392H), 03 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 29 May 2006).

Hav Major Singh (No. 4463129P now JC-509393L), 03 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 29 May 2006).

Hav Kuldip Singh (No. 4464473M now JC-509394N), 08 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 Jun 2006).

To be Naib Subedar (Clerk GD)

Hav (Clk) Akolkar Bhagwan Jagan Nath (No. 4466582X now JC-509395X), 07 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk GD) with effect from 01 Jul 2006).

To be Naib Subedar (GD)

Hav Nirmal Singh (No. 4467280X now JC-509396Y), 05 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Feb 2006).

Hav Balvir Singh (No. 4469992Y now JC-509397F), 15 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Mar 2006).

Hav Satnam Singh (No. 4468277K now JC-509398K), 17 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2006).

Hav Surjit Singh (No. 13616042N now JC-509399M), 19 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 May 2006).

Hav Dilbag Singh (No. 4463966F now JC-509400W), 22 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 14 May 2006).

Hav Balvir Singh (No. 4468457M now JC-509401Y),
28 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 15 May 2006).

Hav Suresh Singh (No. 4463256K now JC-509402F),
31 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Jun 2006).

Hav Teja Singh (No. 4466894N now JC-509403K), 07 Sep
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Jun 2006).

Hav Jaspal Singh (No. 4466566A now JC-509404M),
07 Sep 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Jun 2006).

Hav Paljit Singh (No. 4466805K now JC-509405P), 07 Sep
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Jun 2006).

Hav Jagir Singh (No. 4463084A now JC-509406X),
07 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2006).

Hav Jagjit Singh (No. 4465167K now JC-509407A),
07 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 13 Jul 2006).

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Devajit Gogoi (No. 4357887F now JC-549127F),
27 Mar 2006/17 Nov 2004

Hav Dipen Bora (No. 4360020P now JC-519139K), 27 Mar
2006/30 Jun 2005

Hav Bishnu Prasad Gurung (No. 5750687M now JC-
549140Y), 17 Mar 2006/30 Jun 2005

Hav Manoj Kumar Gurung (No. 5449542W now JC-
549141F), 27 Mar 2006/30 Jun 2005

Hav Hom Bahadur Rana (No. 5448857N now JC-549142K),
27 Mar 2006/30 Jun 2005

Hav Kodar Manger (No. 5449697K now JC-549143M),
27 Mar 2006/30 Jun 2005

Hav Hem Bahadur Thapa (No. 5449774P now JC-549144P),
02 May 2006/04 Jul 2005

Hav Kartik Sinha (No. 13614724A now JC-549178H),
14 Feb 2006/01 Jan 2006

Hav Lelengzava (No. 4355101L now JC-549182L), 01 Jan
2006

Hav Suboth Chandra Narzary (No. 4355678L now JC-
549196L), 24 Feb 2006/01 Jan 2006

Hav Amit Kumar Nath (No. 4426546K now JC-549203W),
04 Mar 2006/28 Aug 2005

Hav Junu Sinha (No. 4356362L now JC-549204Y), 24 May
2006/01 Sep 2006

Hav Nijendra Baruah (No. 4357228M now JC-549205F),
01 Mar 2006/10 Nov 2005

Hav Chittar Bahadur (No. 4355127M now JC-549206K),
14 Mar 2006/27 Nov 2005

Hav Bhadra Gogoi (No. 4362655M now JC-549207M),
02 Mar 2006/15 Dec 2005

Hav Khamgou (No. 4353997Y now JC-549208P), 17 Apr
2006/23 Dec 2005

Hav Laishram Bhorot Singh (No. 4355447P now JC-
549209X), 17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Sukhendra Sinha (No. 4355200N now JC-549210M),
27 Feb 2006/01 Jan 2006

Hav Mani Babu Singha (No. 4356262A now JC-549211P),
19 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav Charan Chandra Das (No. 4355670L now JC-549212X),
17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Dal Bahadur Darlami (No. 10244526N now JC-
549214H), 14 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 4356731X now JC-549215L),
17 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav Bihari Singha (No. 4356254F now JC-549216N),
15 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav P S Phillip Anal (No. 4355898Y now JC-549217W),
17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Md Mohar Ali (No. 4355771M now JC-549218Y),
17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav H Shanti Singh (No. 4357325K now JC-549219F),
17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Chinkhanmang Paite (No. 4357762K now JC-
549220W), 17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Malsawm Dawngliana (No. 4360047M now JC-
549221Y), 17 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Ningthoujam Sanahal Singh (No. 4356532K now JC-
549222F), 26 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Chakradhar Das (No. 4356693M now JC-549223K),
25 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav Sukumar Basumatary (No. 4357155L now JC-
549224M), 19 May 2006/01 Jan 2006

Hav Ngulkhohen Khouthang (No. 4358223A now JC-549225P), 10 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav Babul Saikia (No. 4358778F now JC-549226X), 10 Apr 2006/01 Jan 2006

Hav S R Jam Anal (No. 4359141K now JC-549227A), 02 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav W S Koruwng (No. 4359130X now JC-549228H), 02 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav Gopal Bahadur (No. 4359303H now JC-549229L), 02 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav A Nobin Singha (No. 4359271M now JC-549230A), 02 Mar 2006/01 Jan 2006

Hav L H Mongam Anal (No. 4357360M now JC-549231H), 20 Apr 2006/06 Jan 2006

Hav Debajit Singha (No. 4358786A now JC-549232L), 10 Apr 2006/19 Jan 2006

Hav Brojo Behari Singha (No. 8031182X now JC-549233N), 17 Mar 2006/01 Feb 2006

Hav Yam Bahadur Chhetri (No. 4356433F now JC-549234W), 17 Mar 2006/01 Feb 2006

Hav Saikunga (No. 4356026Y now JC-549235Y), 08 Apr 2006/01 Feb 2006

Hav Patish Chandra Ray (No. 4358928M now JC-549236F), 15 May 2006/01 Feb 2006

Hav Bahiram Sutradhar (No. 4359021F now JC-549237K), 18 Apr 2006/01 Feb 2006

Hav Jamani Kanta Ray (No. 4359216L now JC-549238M), 10 Apr 2006/27 Feb 2006

Hav Biren Rabha (No. 4356293A now JC-549241M), 06 Apr 2006/01 Mar 2006

Hav Noren Borah (No. 10244503M now JC-549242P), 17 Apr 2006/01 Mar 2006
Nila Kanta Deka (No. 4355409Y now JC-549243X), 16 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Nandalal Rabha (No. 4355570N now JC-549244A), 16 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Vungzapau (No. 4354829M now JC-549245H), 01 Mar 2006

Hav Khum Bahadur Thapa (No. 4356206F now JC-549246L), 01 Mar 2006

Hav Ananda Bordoloi (No. 4355590F now JC-549247N), 25 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Lainmol Neihial (No. 4357258K now JC-549248W), 25 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Thangkhogin (No. 4357722H now JC-549249Y), 17 Apr 2006/01 Mar 2006

Hav Dulal Chandra Nath (No. 4358710A now JC-549250N), 09 May 2006/01 Mar 2006

Hav Muna Chiru (No. 4355140K now JC-549251W), 03 May 2006/01 Apr 2006

Hav Deba Kumar Bhuyan (No. 4355680H now JC-549252Y), 01 Apr 2006

Hav Karam Okendra Singh (No. 4356471X now JC-549253F), 06 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Rafiqul Ishlam Pathan (No. 4356792P now JC-549254K), 06 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Gunen Kumar Nath (No. 4356799Y now JC-549255M), 06 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav E N Ngaih Mung (No. 4357420W now JC-549256P), 06 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Chingenthung (No. 4357423K now JC-549257X), 30 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Kunjadhan Singha (No. 4357600X now JC-549258A), 26 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Sunil Boruah (No. 4355647L now JC-549259H), 05 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Athalamba Singha (No. 4355756X now JC-549260X), 05 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Shyam Bahadur Thapa (No. 4356338P now JC-549261A), 26 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Awani Barukial (No. 4355646H now JC-549262H), 10 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Sanamal Khakhalary (No. 4356271F now JC-549263L), 05 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Tilakram Chhetri (No. 4356287M now JC-549264N), 08 May 2006/01 Apr 2006

Hav Y Ranjan Singh (No. 4362444K now JC-549265W), 08 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Jagat Dehingia (No. 4356416F now JC-549266Y), 01 Apr 2006

Hav Amulya Chandra Das (No. 4356456H now JC-549267F), 15 May 2006/01 Apr 2006

Hav Dilip Kumar Rasaily (No. 4356431W now JC-549268K), 01 Apr 2006

Hav Rabindra Sinha (No. 4357862P now JC-549269M), 10 May 2006/01 Apr 2006

Hav Paosuanthang Zo (No. 4356672W now JC-549270F), 01 Apr 2006

Hav Kunja Das (No. 4356704N now JC-549271K), 01 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Anil Gogoi (No. 4356817W now JC-549272M), 01 Apr 2006

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 4357906F now JC-549273P), 17 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav M Birendra Singha (No. 4358685M now JC-549274X),
17 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Dipak Fulame Mugar (No. 4357144Y now JC-549275A), 15 May 2006/01 Apr 2006

Hav Romen Ch Roy (No. 4357240N now JC-549276H),
13 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Lahnilawama (No. 4361647F now JC-549277L), 05 Apr
2006/01 Apr 2006

Hav Pradip Das (No. 4356245A now JC-549278N),
30 May 2006/01 Apr 2006

Hav Ranjit Deoraja (No. 4357755H now JC-549279W),
15 Apr 2006/01 Apr 2006

Hav Seikhup Dimngel (No. 4357813M now JC-549280L),
16 May 2006/01 Apr 2006

Hav Pautinlal Vaiphei (No. 4357290Y now JC-549281N),
15 May 2006/01 May 2006

Hav Krishna Bahadur Chhetri (No. 4359606Y now JC-549282W), 15 May 2006/01 May 2006

Hav Swapon Kumar Barman (No. 4356781H now JC-549283Y), 24 Jun 2006/01 May 2006

Hav Md Alifudin Ahmed (No. 4356809X now JC-549284F),
01 May 2006

Hav Nanda Kishore Rajbongshi (No. 4358021Y now JC-549287P), 02 Jun 2006/01 Nov 2005

Hav Seiminthang Chongloi (No. 4363387A now JC-549288X), 01 Jul 2006/01 Jan 2006

Hav Mahesh Newar (No. 4355083N now JC-549289A),
09 Jun 2006/01 Jan 2006

Hav Thangboy Kuki (No. 4356824M now JC-549290P),
12 Jun 2006/28 Feb 2006

Hav Sher Bahadur Thapa (No. 4357921W now JC-549291X), 08 Jul 2006/01 Mar 2006

Hav Ashok Kumar (No. 5751152L now JC-549294L),
14 Jul 2006/01 Mar 2006

Hav Rupeswar Gogoi (No. 4355562P now JC-549296W),
09 Jun 2006/30 Mar 2006

Hav M K Ramseishing (No. 4358275W now JC-549297Y),
12 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Bidhan Mech (No. 4358419N now JC-549298F),
12 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Y Bhagirath Singha (No. 4355856A now JC-549299K),
20 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav K L Jemes Anal (No. 4355910N now JC-549300N),
09 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Sushil Sinha (No. 4356270Y now JC-549301W),
09 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Ngoman Nokbi (No. 4358248M now JC-549302Y),
12 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Ratul Das (No. 4361960M now JC-549303F), 15 Jul
2006/01 Apr 2006

Hav Bhudhar Mali (No. 4358770P now JC-549305M),
21 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Sunil Sinha (No. 4358976N now JC-549307X), 07 Jul
2006/01 Apr 2006

Hav Lalhminsang (No. 4358981F now JC-549308A),
12 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Puapa Kanta Boro (No. 4357480L now JC-549309H),
29 Jul 2006/01 Apr 2006

Hav Jagat Bahadur Thapa (No. 5449755K now JC-549310X), 14 Jul 2006/01 Apr 2006

Hav Ratna Kumar Kalita (No. 4359218F now JC-549311A),
20 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Manindra Sinha (No. 4359263N now JC-549312H),
23 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Kabit Chandra Boro (No. 4359872Y now JC-549313L),
19 Jun 2006/01 Apr 2006

Hav Shivendra Kumar Gurung (No. 4358834P now JC-549314N), 14 Jul 2006/01 Apr 2006

Hav Babu Ram Thapa (No. 4362424W now JC-549316Y),
15 Jul 2006/01 May 2006

Hav Bhaskar Sinha (No. 4358915M now JC-549317F),
12 Jun 2006/03 May 2006

Hav Lakhyeswar Borah (No. 4356441A now JC-549318K),
09 Jun 2006/07 May 2006

Hav Lil Bahadur Pradhan (No. 4357896H now JC-549319M), 08 Aug 2006/16 May 2006

Hav Til Bahadur Chhetri (No. 4356249W now JC-549320F),
09 Jun 2006/17 May 2006

Hav Bhupendra Kumar Sinha (No. 13615011F now JC-549321K), 16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav L K Phouching Anal (No. 4355872A now JC-549322M), 16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Radha Krishna Singha (No. 4355024P now JC-549323P), 26 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Rongang Konlun Anal (No. 4355844N now JC-549324X), 04 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Doukholun Baite (No. 4356478F now JC-549325A),
26 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Pritam Jamatia (No. 4357428H now JC-549326H),
16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav A Naba Kumar Singha (No. 4357166X now JC-549327L), 26 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav S R Mohnim Anal (No. 4357375P now JC-549328N),
27 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Netra Singh (No. 4358397A now JC-549330L), 24 Jul
2006/01 Jun 2006

Hav Keshab Kumar Deb (No. 4356626F now JC-549332W),
16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Haridas Singha (No. 4355625M now JC-549334F),
10 Jun 2006/01 Jun 2006

Hav Niren Bordoloi (No. 4358511M now JC-549335K),
20 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav M Jarma Singh (No. 7430934F now JC-549336M),
16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Samendra Deb Barman (No. 4356644K now JC-
549337P), 16 Jul 2006/01 Jun 2006

Hav Lalrinawma (No. 4357559N now JC-549349K), 03 Jul
2006/01 Jun 2006

Hav Tarun Borgohain (No. 4356161M now JC-549350Y),
01 Jul 2006

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Paujalum Lhoyvam (No. 4355449A now JC-
549239P), 28 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Clk Baldev Singh (No. 13750070F now JC-549240K),
18 Mar 2006/01 Mar 2006

Hav Clk Nandlal Singh (No. 4357889M now JC-549339A),
01 Jul 2006

Hav Clk Jaibir (No. 4358284X now JC-549340P), 01 Jul
2006

Hav Clk Suresh Kumar (No. 4358285A now JC-549341K),
19 Jul 2006/01 Jul 2006

Hav Clk Govind Bhallav (No. 4358287L now JC-549342A),
26 Jul 2006/01 Jul 2006

Hav Clk Dharamvir (No. 4358295K now JC-549344L), 01
Jul 2006

Hav Clk T R Subramani (No. 2586397N now JC-549345N),
26 Jul 2006/01 Jul 2006

Hav Clk Bijayananda Mohanty (No. 4358299A now JC-
549346W), 01 Jul 2006

Hav Clk Karnail Singh Bamel (No. 4358300K now JC-
549347Y), 01 Jul 2006

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kulbir Singh (No. 9089110P now JC-593442L), 24 Jun
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006).

Hav Ram Ditta (No. 9087998K now JC-593443N), 08 Jul
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006).

Hav Vijay Kumar (No. 9089141P now JC-593451M), 14
Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Jul 2006).

Hav Tarsem Singh (No. 9087729X now JC-593452P), 29
Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006).

Hav Narinder Singh (No. 9086748W now JC-593453X), 09
Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006).

Hav Ashok Kumar (No. 9085987Y now JC-593454A), 15
Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006).

Hav Subash Chander (No. 9089214W now JC-593455H),
11 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006).

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Diwan Singh (JC-528820L), 01 Apr 2006

Sub Chandan Singh (JC-529004F), 01 Apr 2006

Sub Surendra Singh (JC-528650M), 01 Jun 2006

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Nandan Singh (JC-528396N), 01 Jun 2006

To be Sub Maj (RT)

Sub (RT) Tota Ram (JC-109487P), 01 Apr 2006

To be Sub Maj (Musn)

Sub (Musn) Chitra Singh (JC-528789K), 16 Apr 2006

To be Sub

Nb Sub Thakur Singh (JC-529555M), 01 Dec 2005

Nb Sub Matwar Singh (JC-529479L), 07 Dec 2005

Nb Sub Kishan Singh Shah (JC-529458P), 01 Jan 2006

Nb Sub Pratap Singh (JC-529534W), 01 Feb 2006

Nb Sub Lakhpat Singh (JC-529151K), 01 Apr 2006

Nb Sub Kuldev Singh (JC-529157L), 01 Apr 2006

Nb Sub Rattan Singh (JC-529509X), 01 Apr 2006

Nb Sub Barinder Singh (JC-529535Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Pushkar Singh (JC-529569M), 01 Apr 2006

Nb Sub Dinesh Prasad (JC-529505F), 01 May 2006

Nb Sub Kunwar Singh, VrC (JC-529524M), 01 May 2006

Nb Sub Dan Singh (JC-529516N), 05 May 2006

Nb Sub Mahavir Singh (JC-529536F), 05 May 2006

Nb Sub Digamber Singh (JC-529539P), 06 May 2006

Nb Sub Jagdamba Prasad (JC-529573P), 13 May 2006

Nb Sub Karan Singh (JC-529557X), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhupal Singh (JC-529558A), 01 Jun 2006

Nb Sub Ganesh Chander (JC-529559H), 01 Jun 2006

Nb Sub Birendra Kumar (JC-529542P), 01 Jun 2006

Nb Sub Rabindra Singh (JC-529620F), 01 Jun 2006

Nb Sub Mastan Singh (JC-529564N), 01 Jun 2006

Nb Sub Suresha Nand (JC-529565W), 01 Jun 2006

Nb Sub Rewat Singh (JC-529580L), 01 Jun 2006

Nb Sub Narender Singh (JC-529645N), 01 Jun 2006

Nb Sub Vishal Mani (JC-529622M), 01 Jun 2006

Nb Sub Chander Singh (JC-529623P), 01 Jun 2006

Nb Sub Prabhu Dayal (JC-529624X), 01 Jun 2006

Nb Sub Naridan Singh (JC-529592A), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhag Chand Singh (JC-529594L), 01 Jun 2006

Nb Sub Jaibir Singh (JC-529660H), 01 Jun 2006

Nb Sub Dalbir Singh (JC-529627L), 01 Jun 2006

Nb Sub Sardar Singh Panwar (JC-529625A), 01 Jun 2006

Nb Sub Bharat Singh Chauhan (JC-529502N), 18 Jun 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Suresha Nand Joshi (JC-529261Y), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk) Rattan Lal (JC-529314M), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk) Kailash Chandra Bhatt (JC-529315P), 01 May 2006

Nb Sub (Clk) Daya Ram Khola (JC-529329P), 01 Jun 2006

To be Nb Sub

Hav Birendra Singh Bist (No. 4070407M now JC-530011K), 07 May 2006/01 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Lal (No. 4069091Y now JC-530012M), 01 Apr 2006

Hav Sudarshan Singh (No. 4068283K now JC-530013P), 11 Jun 2006/11 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Singh Rawat (No. 4067438F now JC-530014X), 18 May 2006/01 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

10—424 GH/06

Hav Ranbeer Singh (No. 4067611A now JC-530015A), 18 May 2006/01 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shiva Prasad (No. 4067687A now JC-530016H), 18 May 2006/01 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh Rawat (No. 4067180Y now JC-530017L), 01 May 2006

Hav Hira Singh (No. 4067406Y now JC-530018N), 22 Jun 2006/13 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Singh (No. 4063458X now JC-530019W), 01 Jun 2006

Hav Bhupal Singh (No. 4065099N now JC-530021N), 01 Jul 2006

Hav Balbir Singh Rawat (No. 4066208F now JC-530022W), 01 Jul 2006

Hav Manendra Singh (No. 4067274W now JC-530023Y), 08 Jul 2006/01 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Chhatrapal Singh (No. 4067116F now JC-530020L), 01 Jul 2006

S. ASHRAF
Under Secy.

No. 39 dated 27th December 2006.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sant Vijay Yadav (JC-265257H), 03 Aug 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Rajinder Singh (JC-267780M), 01 Sep 2006

Nb Sub Birjesh Kumar (JC-265506W), 29 Jul 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub R Pandia Raj (JC-264694W), 03 Feb 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Vijay Singh (JC-265808H), 23 Jan 2006/01 Nov 2006*

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-263756Y), 22 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Suren Kumar Chhetri (JC-265887H), 04 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Tribhuwan Singh (JC-265164N), 01 Aug 2006

Nb Sub Rameshwar Dayal Saini (JC-265687M), 02 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Om Prakash (JC-263513N), 19 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Balwinder Singh (JC-265101L), 03 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Uttam Das (JC-267324F), 12 Oct 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Satya Parkash (JC-265863Y), 23 Sep 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-266300L), 07 Aug 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Radhey Shyam Singh Yadav (JC-266243P), 03 Nov 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Baljeet Kumar (JC-267823X), 12 Sep 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub S Jawahar (JC-267276M), 16 Sep 2006/01 Sep 2006*

Nb Sub Surinder Pal (JC-265062X), 17 Aug 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Nihal Singh (JC-265018N), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhajan Lal (JC-263296H), 24 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Balbir Nath (JC-266312A), 07 Sep 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Madan Singh (JC-263065M), 06 Mar 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Monoranjan Adhikary (JC-264697K), 01 Jul 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Pritam Singh (JC-264701F), 27 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ishwar Dayal (JC-264700Y), 14 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Karun Kumar Singh (JC-266470P), 05 Oct 2006/01 Sep 2006*

Nb Sub Francis Arul Dhanpal S (JC-263915L), 02 Jul 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub A Arumainathan (JC-264818A), 08 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Karan Singh (JC-264932X), 26 Jul 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Shiv Kumar Sharma (JC-265606F), 25 Oct 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Golam Azdani (JC-262996L), 16 Nov 2005

Nb Sub Munna Lal Ojha (JC-267264X), 01 Oct 2006/16 Aug 2006*

Nb Sub Man Singh (JC-265171K), 06 Mar 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Daljeet Singh (JC-266319K), 08 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Rajinder Kumar Sharma (JC-264395X), 05 Jun 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ramanand Prasad Singh (JC-265316K), 25 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Rajpal Singh (JC-263120X), 22 Jul 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Prodip Chetia (JC-261431M), 25 Oct 2004

Nb Sub Ramesh Chand Choudhary (JC-263993H), 04 Mar 2006/01 Feb 2005*

Nb Sub Surjit Singh (JC-265301F), 04 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Nasirul Haque Choudhary (JC-262679H), 21 Feb 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Madan Lal (JC-264650Y), 05 Feb 2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-263398Y), 21 Jun 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Balbir Singh (JC-263693F), 06 Sep 2005/14 Aug 2005*

Nb Sub Venkatesha HR (JC-263230M), 06 Jun 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Kirpal Singh (JC-265012M), 01 Jun 2005

Nb Sub Sukvir Singh (JC-263760F), 06 May 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Shiv Nath Singh (JC-265496K), 13 Jun 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Faquir Chand (JC-264777F), 01 Aug 2004

Nb Sub Radha Singh (JC-263110F), 14 May 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub N Raj Kishore Singha (JC-266372P), 25 Jan 2006/01 Sep 2005*

Nb Sub Brahmjit Singh (JC-263201X), 04 Apr 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Chattar Singh (JC-266406X), 20 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Swapan Das (JC-261875W), 01 Mar 2005

Nb Sub Bhajan Lal (JC-266475N), 18 Dec 2005/05 Aug 2005*

Nb Sub Shiv Kumar Tripathi (JC-262669Y), 01 Mar 2004/25 Feb 2004*

*(Gtd seniority wef)

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 40, dated 29th December 2006.—The President is pleased to make the following Promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col (& equivalent) (Retd) to be Col (& equivalent)

BK Dutta (MR-03265P), 12 Apr 1997

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAfms (P)

No. 41, dated 29th December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-31692F Lt Col BM Nair, AAD—16 Dec 2004

IC-37576P Lt Col Pankaj Pant, Inf—30 Apr 2006

IC-30632A Lt Col S Chandra Shekar, Sigs—16 Dec 2004

IC-35714M Lt Col Gurdeep Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-35811K Lt Col Paramjit Singh, Engrs—16 Dec 2004

IC-36875F Lt Col Jaikrit, Sigs—16 Dec 2004

IC-37657P Lt Col SS Mehdi, AAD—30 Apr 2006

IC-38319A Lt Col Sanjeev Sekhri, Engrs—22 Dec 2005

IC-38368M Lt Col Lalan Chaubey, Arty—22 Dec 2005

IC-38837K Lt Col Sanjiv Sehgal, Inf—07 Jun 2006

IC-38965F Lt Col IP Singh, Inf—07 Jun 2006

IC-38987A Lt Col Hirak Kumar Paul, Arty—07 Jun 2006

IC-39007A Lt Col Arun Ambre, AOC—07 Jun 2006

IC-33724X Lt Col Sukhdev Kumar, Inf—16 Dec 2004

IC-38856P Lt Col DC Upadhyay, Inf—07 Jun 2006

IC-38925A Lt Col CS Bansal, ASC—07 Jun 2006

AJAY GOEL

Dy. Dir.

MS-8A

No. 42, dated 28th December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC No., Name and Arm

IC-31138 RS Sirohi, AC

SL-03902 Tej Singh Brar, SL TOT

— 16 Dec 2004—

IC-46911 Jal Singh, AOC

—09 Nov 2005—

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir.

MS-8C

GS BRANCH

No. 43, dated 29 December 2006.—The President is pleased to make the following Promotions :

To be Nb Sub

Rank, Name (Army No. now TJ No.), Unit, wef

Hav Shiv Mangal Sharan Patel (No. 10389751 now TJ-5017), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2003

Hav Ram Raj (No. 10466338 now TJ-5018), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 22 Oct 2002

Hav Rajbir Singh (No. 10135022 now TJ-5019), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Kishan Chand (No. 10135014 now TJ-5020), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Virender Singh (No. 10135031 now TJ-5021), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Sukhbir Singh (No. 10466522 now TJ-5022), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Rajender Kumar (No. 10466535 now TJ-5023), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Dharamvir Singh (No. 10466551 now TJ-5024), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Baljit Singh (No. 10466562 now TJ-5025), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Raghubir Singh (No. 10466586 now TJ-5026), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Chander Bhan (No. 10466622 now TJ-5027), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 25 Feb 2003

Hav Harjinder Singh (No. 10466574 now TJ-5028), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 May 2003

Hav Jagir Singh (No. 10361878 now TJ-5029), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 01 May 2003

Hav Arjun Singh (No. 10361909 now TJ-5030), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 13 May 2003

Hav R Tamilarasan (No. 10452057 now TJ-5031), 117 Inf Bn (TA) The Guards, 11 Jan 2003

Hav S Kumar (No. 10452125 now TJ-5032), 117 Inf Bn (TA) The Guards, 11 Jan 2003

Hav Mool Chand Sharma (No. 10314714 now TJ-5033), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Mar 2003

Hav Sattyabir Singh (No. 10314625 now TJ-5034), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Mar 2003

Hav Shiv Darshan Kori (No. 10314749 now TJ-5035), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Mar 2003

Hav Shri Prakash Sharma (No. 10314523 now TJ-5036), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Mar 2004

Hav Jadhav Dilip Hanmantrao (No. 10119264 now TJ-5037), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI 01 Apr 2003

Hav Gyan Bahadur Rai (No. 10373891 now TJ-5038), 107 Inf Bn (TA) 11 GR 26 May 2003

Hav Girish Babu (No. 10436371 now TJ-5039), 116 Inf Bn (TA) Para 20 Jun 2003

Hav Jai Singh (No. 10466710 now TJ-5040), 150 Inf Bn (TA) Punjab 25 Feb 2003

Hav Rambir (No. 10466572 now TJ-5041), 150 Inf Bn (TA) Punjab 25 Feb 2003

Hav Ram Kishor (No. 10302367 now TJ-5042), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers 01 Aug 2003

Hav R Arujunan (No. 10452129 now TJ-5043), 117 Inf Bn (TA) The Guards, 11 Jan 2003

Hav Thomas PT (No. 10452266 now TJ-5044), 117 Inf Bn (TA) The Guards, 11 Jan 2003

Hav Jawahar (No. 10436870 now TJ-5045), 116 Inf Bn (TA) Para, 24 Jul 2003

Hav K Vasudevan (No. 10166094 now TJ-5046), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Aug 2003

Hav Wazir Singh (No. 10134871 now TJ-5047), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 02 Apr 2003

Hav Manoj Kumar (No. 10182195 now TJ-5048), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 14 Aug 2003

Hav Shaikh Hasain Walisaheb (No. 10119350 now TJ-5049), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Apr 2003

Hav Pawar Suresh Tulshiram (No. 10119523 now TJ-5050), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Apr 2003

Hav Tandale Govind (No. 10119697 now TJ-5051), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Apr 2003

Hav Shinde Anil Madhukar (No. 10119878 now TJ-5052), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Apr 2003

Hav Moti Ram (No. 10227422 now TJ-5053), 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Oct 2003

Hav Ranjit Singh (No. 10361897 now TJ-5063), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 01 Nov 2003

Hav Rajinder Singh (No. 10466497 now TJ-5064), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 09 Jul 2003

Hav Sada Shiv Giri (No. 10182005 now TJ-5065), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 14 Aug 2003

Hav Mannu Singh (No. 10182021 now TJ-5066), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 14 Aug 2003

Hav Kuldip Singh (No. 10479456 now TJ-5067), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Sep 2003

Hav Jaginder Pal (No. 10197894 now TJ-5068), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Oct 2003

Hav Santash Kumar (No. 10479679 now TJ-5069), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Oct 2003

Hav Balbir Singh (No. 10479391 now TJ-5070), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Bal Krishan (No. 10479614 now TJ-5071), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Ashwani Kumar (No. 10479671 now TJ-5072), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Santokh Singh (No. 10479785 now TJ-5073), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Subhash Chander (No. 10479716 now TJ-5074), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Dalip Kumar Agnihotri (No. 10479741 now TJ-5075), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Oct 2003

Hav Surjit Singh (No. 10479709 now TJ-5076), 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 01 Dec 2003

Hav Gobardhan Mahanta (No. 10260057 now TJ-5077), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Mahendra Jena (No. 10260256 now TJ-5078), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Gobardhan Swain (No. 10260224 now TJ-5079), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Radhamohan Sahoo (No. 10260258 now TJ-5080), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Sashi Bhusan Mahanta (No. 10260197 now TJ-5081), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Sharat Chandra Biswal (No. 10260213 now TJ-5082), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Dilip Kumar Pradhan (No. 10260333 now TJ-5083), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Mihir Kumar Mall (No. 10260240 now TJ-5084), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2003

Hav Kothiram (No. 10227593 now TJ-5085), 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Jan 2004

Hav Sonam Tshering Lepcha (No. 10373966 now TJ-5086), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 13 Oct 2003

Hav Kalyan Bhujel (No. 10373841 now TJ-5087), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Nov 2003

Hav Ram Singh (No. 10361927 now TJ-5088), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 06 Jan 2004

Hav Brahama Nand (No. 10361929 now TJ-5089), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 06 Jan 2004

Hav Dharam Chand (No. 10361939 now TJ-5090), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 06 Jan 2004

Hav Salim KA (No. 10290474 now TJ-5091), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Pradeepan K (No. 10290764 now TJ-5092), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Muraleedharan E (No. 10290844 now TJ-5093), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Kaladhara Panicker B (No. 10290690 now TJ-5094), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Prasad M (No. 10290701 now TJ-5095), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Arokyaswamy P (No. 10290820 now TJ-5096), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Manoj BP (No. 10290769 now TJ-5097), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Mahendralal N (No. 10290839 now TJ-5098), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Govindan K (No. 10290911 now TJ-5099), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Ramachandran M (No. 10290916 now TJ-5100), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav George PM (No. 10291031 now TJ-5101), 122 Inf Bn (TA) Madras, 13 Feb 2004

Hav Arun Kumar (No. 10259704 now TJ-5104), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 24 Feb 2004

Hav SL Prasad (No. 10259722 now TJ-5105), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 24 Feb 2004

Hav MN Mahakud (No. 10259794 now TJ-5106), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 24 Feb 2004

Hav Gawande Arjun Kisan (No. 10436888 now TJ-5107), 116 Inf Bn (TA) Para, 01 Mar 2004

Hav Gaware Ramnath Sukdeo (No. 10436901 now TJ-5108), 116 Inf Bn (TA) Para, 01 Mar 2004

Hav M Shivanandan (No. 10436904 now TJ-5109), 116 Inf Bn (TA) Para, 01 Mar 2004

Hav Nirmal Kumar Das (No. 10274308 now TJ-5110), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 21 Apr 2004

Hav Basudeb Sarkar (No. 10274355 now TJ-5111), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 21 Apr 2004

Hav Ajay Kumar Upadhyay (No. 10274383 now TJ-5112), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 21 Apr 2004

Hav Ramesh Chandra (No. 10274395 now TJ-5113), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 21 Apr 2004

Hav Panchanan Bera (No. 10212608 now TJ-5114), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 21 Apr 2004

Hav Kaushal Kishor (No. 10182201 now TJ-5115), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 28 Apr 2004

Hav Ramesh Kumar Chaturvedi (No. 10182004 now TJ-5116), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 28 Apr 2004

Hav Jai Ram (No. 10182091 now TJ-5117), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 28 Apr 2004

Hav Attipal Singh (No. 10182168 now TJ-5118), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 28 Apr 2004

Hav Bhoop Singh (No. 10182176 now TJ-5119), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 28 Apr 2004

Hav Brig Keshor Singh (No. 10260171 now TJ-5120), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 28 Apr 2004

Hav Santosh Kumar Misra (No. 10181924 now TJ-5121), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 28 Apr 2004

Hav Durga Sharma (No. 10259993 now TJ-5122), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 28 Apr 2004

Hav Jagdish Gochhayat (No. 10260181 now TJ-5123), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 28 Apr 2004

Hav Tambekar Shankar Rajaram (No. 10146722 now TJ-5124), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 28 Apr 2004

Hav Kapase Sadashiv Bandu (No. 10149875 now TJ-5125), 1099 Inf Bn (TA) Maratha LI, 28 Apr 2004

Hav/AA Amar Nath (No. 12684555 now TJ-5132), GH (TA) Allahabad, 13 May 2004

Hav Kuldip Singh (No. 10479422 now TJ-5133), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 13 May 2004

Hav Laxman Prasad Patel (No. 10389588 now TJ-5134), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 21 May 2004

Hav Naresh Prasad Tiwari (No. 10389626 now TJ-5135), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 21 May 2004

Hav Jagdish Prasad Nirwar (No. 10389696 now TJ-5136), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 21 May 2004

Hav Prabhu Nath Yadav (No. 10314536 now TJ-5137), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 20 May 2004

- Hav Mahveer Singh (No. 10314839 now TJ-5138), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 20 May 2004
- Hav C S Palani (No. 10452346 now TJ-5139), 117 Inf Bn (TA) The Guards, 21 May 2004
- Hav Mir Singh (No. 10134895 now TJ-5140), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 13 Dec 2003
- Hav Sat Pal (No. 10134487 now TJ-5141), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 13 Dec 2003
- Hav Bidyadhar Jena (No. 10260230 now TJ-5142), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Jun 2004
- Hav Karn Singh (No. 10466628 now TJ-5143), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Feb 2004
- Hav Ajay Kumar Kalaria (No. 10466637 now TJ-5144), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Feb 2004
- Hav Rohtash (No. 10466712 now TJ-5145), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Feb 2004
- Hav Ramesh Kumar (No. 10135247 now TJ-5146), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Feb 2004
- Hav Kalyan Chopde (No. 10227661 now TJ-5148), 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Apr 2004
- Hav Brij Pal Singh (No. 10314781 now TJ-5149), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 14 Jan 2004
- Hav Baljeet Singh (No. 10314861 now TJ-5150), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 14 Jan 2004
- Hav Charanjit Singh (No. 10479637 now TJ-5151), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 05 Feb 2004
- Hav Hari Chand (No. 10314981 now TJ-5152), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 15 Feb 2004
- Hav Anoj Kumar Singh (No. 10314709 now TJ-5153), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 21 Mar 2004
- Hav Madan Mohan Mahanta (No. 10259905 now TJ-5154), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Mar 2004
- Hav Rabindranath Mahanta (No. 10260125 now TJ-5155), 154 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Mar 2004
- Hav Bishamber Singh (No. 10361634 now TJ-5156), 126 Inf Bn (TA) JAK Rif, 01 Jul 2004
- Hav Sri Ram Singh Bundela (No. 10389718 now TJ-5157), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jul 2004
- Hav Yogesh Kumar (No. 10405316 now TJ-5158), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jul 2004
- Hav Om Pal Singh (No. 10405298 now TJ-5159), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jul 2004
- Hav/Clk Kirpal Singh Sandhu (No. 10361781 now TJ-5160), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 02 Aug 2004
- Hav Som Raj (No. 10361673 now TJ-5161), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Butta Ram (No. 10361745 now TJ-5162), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Suresh Kumar (No. 10361860 now TJ-5163), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Janak Singh (No. 10361881 now TJ-5164), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Kewal Krishan (No. 10361911 now TJ-5165), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Subash Chander (No. 10361913 now TJ-5166), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Sudesh Kumar (No. 10361925 now TJ-5167), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Sohan Lal (No. 10361943 now TJ-5168), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Rana Kumar (No. 10361964 now TJ-5169), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Pawan Singh (No. 10361750 now TJ-5170), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 05 Aug 2004
- Hav Jawahar Singh (No. 10134978 now TJ-5171), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Jun 2004
- Hav Pramod Kumar (No. 10135114 now TJ-5172), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Jul 2004
- Hav Gopal Tanti (No. 10244818 now TJ-5173), 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Sep 2004
- Hav Rafique Uddin Kazi (No. 10245092 now TJ-5174), 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Sep 2004
- Hav Roshan Lal (No. 10466332 now TJ-5175), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 26 May 2004
- Hav Karmbir (No. 10466542 now TJ-5176), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 05 July 2004
- Hav Mahesh Giri (No. 10212689 now TJ-5177), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Jun 2004
- Hav Raghubir Sharan Patel (No. 10389822 now TJ-5178), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004
- Hav Sri Krishan Kumar Tiwari (No. 10389873 now TJ-5179), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004
- Hav Sri Amrit Lal Patel (No. 10389877 now TJ-5180), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004
- Hav Vijay Kumar Goutam (No. 10389899 now TJ-5181), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004
- Hav Mahboob Ahmed (No. 10389905 now TJ-5182), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004
- Hav Shiv Sharan (No. 10359025 now TJ-5183), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Sep 2004
- Hav Chavan Deepak Vasant (No. 10436906 now TJ-5184), 116 Inf Bn (TA) Para, 14 May 2004
- Hav Porje Prabhakar Keru (No. 10436914 now TJ-5185), 116 Inf Bn (TA) Para, 12 Jun 2004
- Hav Santosh Kumar (No. 10314847 now TJ-5187), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 01 Jul 2004

Hav Anil Kumar Mishra (No. 10314901 now TJ-5188), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 01 Jul 2004

Hav Sahdev (No. 10314950 now TJ-5189), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 01 Jul 2004

Hav Ramesh Chand (No. 10314838 now TJ-5190), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 06 Jul 2004

Hav Devendra Kumar (No. 10314859 now TJ-5191), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 06 Jul 2004

Hav Ashok Dey (No. 10274241 now TJ-5192), 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Jun 2004

Hav Tapash Some (No. 10212819 now TJ-5193), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Sep 2004

Hav Gawli Sanjay Santu (No. 10436942 now TJ-5194), 116 Inf Bn (TA) Para, 01 Sep 2004

Hav Veerappa Hasabi (No. 10420784 now TJ-5195), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004

Hav Kadappa Barigidad (No. 10420788 now TJ-5196), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004

Hav Anantgouda Patil (No. 10420794 now TJ-5197), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2004

Hav Rameshwar Shah (No. 12017402 now TJ-5198), 1101 Rly Engr Regt (TA), 14 Jan 2004

Hav Kul Bhushan Kukreja (No. 12052568 now TJ-5199), 1101 Rly Engr Regt (TA), 14 Jan 2004

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 12085227 now TJ-5200), 1101 Rly Engr Regt (TA), 14 Jan 2004

Hav Babu Lal Meena (No. 12017435 now TJ-5201), 1101 Rly Engr Regt (TA), 14 Jan 2004

Hav Richhpal Singh (No. 12371431 now TJ-5202), 1101 Rly Engr Regt (TA), 14 Jan 2004

Hav Surinder Singh (No. 10361636 now TJ-5203), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 10 Oct 2004

Hav Golap Sinha (No. 10244861 now TJ-5204), 119 Inf Bn (TA) Assam, 11 Dec 2004

Hav Man Bahadur Gurung (No. 10373956 now TJ-5205), 119 Inf Bn (TA) 11 GR, 20 Mar 2004

Hav Taramani Tamang (No. 10373980 now TJ-5206), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Jul 2004

Hav Sajeev Kumar A (No. 10328972 now TJ-5207), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Oct 2004

Hav J Linga Reddy (No. 10329015 now TJ-5208), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Oct 2004

Hav/Clk Sadasivan K (No. 10329043 now TJ-5209), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Oct 2004

Hav J Jaya Babu (No. 10329039 now TJ-5210), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Oct 2004

Hav K Varada Rafulu (No. 10329068 now TJ-5211), 125 Inf Bn (TA) The Guards, 05 Oct 2004

Hav Mehar Chand (No. 10362069 now TJ-5212), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 08 Nov 2004

Hav K Madhavan (No. 10166145 now TJ-5213), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Dec 2004

Hav V Muraleedharan (No. 10166211 now TJ-5214), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Dec 2004

Hav CK Johnson (No. 10166305 now TJ-5215), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Dec 2004

Hav Udai Singh (No. 10301995 now TJ-5217), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Sep 2004

Hav Narpat Singh (No. 10302476 now TJ-5218), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers 01 Sep 2004

Hav Ram Nath Singh Tomar (No. 10389538 now TJ-5219), 151 Inf Bn (TA) Jat 01 Feb 2005

Hav Sri Ram Lal (No. 10389793 now TJ-5220), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Feb 2005

Hav Anoke Lal (No. 10405163 now TJ-5221), 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Feb 2005

Hav K Ramadasan (No. 10165951 now TJ-5222), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Dec 2004

Hav Rakesh Kumar (No. 10134817 now TJ-5223), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Feb 2005

Hav Ram Sarup (No. 10405100 now TJ-5224), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Rai Singh (No. 10405223 now TJ-5225), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Ashok Kumar (No. 10405226 now TJ-5226), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Arbind Singh (No. 10405239 now TJ-5227), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Vijay Kumar Sharma (No. 10405255 now TJ-5228), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Mahavir Singh Rajput (No. 10405280 now TJ-5229), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Jai Narain (No. 10405302 now TJ-5230), 114 Inf Bn (TA) Jat, 27 Nov 2004

Hav Banche Lal (No. 10405305 now TJ-5231), 114 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2005

Hav Shiv Kumar (No. 10405327 now TJ-5232), 114 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2005

Hav Mokashe Wyagrambar (No. 10119553 now TJ-5233), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2005

Hav Chandanshiv Udhav (No. 10119627 now TJ-5234), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2005

Hav Suresh Kumar AM (No. 10119670 now TJ-5235), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2005

Hav Dube Chotulal (No. 10119800 now TJ-5236), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2005

Hav Balbir Singh (No. 3381665 now TJ-5237), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 01 Dec 2004

Hav Todakar Krisna Chandrappa (No. 10149887 now TJ-5238), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 30 May 2005

Hav Patil Eknath Babaso (No. 10119897 now TJ-5239), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 30 May 2005

Hav Gurao Suryakant Shamarao (No. 10149906 now TJ-5240), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 30 May 2005

Hav Ashok Kumar (No. 10466584 now TJ-5241), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 30 May 2005

Hav Bichitrnanand Parida (No. 10259925 now TJ-5242), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Chittaranjan Sahoo (No. 10260212 now TJ-5243), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Birendra Nath Sahoo (No. 10260245 now TJ-5244), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Debaraj Baliar Singh (No. 10260136 now TJ-5245), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Sanjay Kumar Mangaraj (No. 10260255 now TJ-5246), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Naraola Chandra Sahu (No. 10260300 now TJ-5247), 120 Inf Bn (TA) Bihar, 07 Nov 2004

Hav Prasanna Subba (No. 10373957 now TJ-5248), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Sep 2004

Hav Prem Kumar Rai (No. 10374086 now TJ-5249), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 01 Sep 2004

Hav Yash Pal (No. 10361960 now TJ-5250), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 01 Jan 2005

Hav Sulakhan Singh (No. 10362018 now TJ-5251), 155 Inf Bn (TA) JAK Rif, 01 Jan 2005

Hav Bharat Kewal (No. 10212668 now TJ-5252), 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Feb 2005

Hav Siblal Sarkar (No. 10244871 now TJ-5253), 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Apr 2005

Hav Subhash Chand (No. 10135275 now TJ-5254), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 10 Feb 2004

Hav Rakesh Kumar (No. 10466166 now TJ-5255), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Jul 2004

Hav Rajvir Singh (No. 10134989 now TJ-5256), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Jul 2004

Hav Pritam Chand (No. 10466283 now TJ-5257), 150 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Jul 2004

Hav Patil Chandrappa (No. 10359208 now TJ-5258), 106 Inf Bn (TA) Para, 01 Oct 2004

Hav Ram Ujager Mishra (No. 10182022 now TJ-5259), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 01 Jan 2005

Hav MP Krishnan (No. 10166369 now TJ-5260), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Feb 2005

Hav K Shaji (No. 10166398 now TJ-5261), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Feb 2005

Hav A Yesuraj (No. 10166306 now TJ-5262), 110 Inf Bn (TA) Madras, 01 Feb 2005

Hav Darshan Singh (No. 10466591 now TJ-5275), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 06 Jun 2005

Hav Purushottam (No. 10227597 now TJ-5276), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 23 Jun 2005

Hav Balbir Singh (No. 10134880 now TJ-5277), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 23 Jun 2005

Hav Sukhvir Singh (No. 10135061 now TJ-5278), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 23 Jun 2005

Hav Mahabir (No. 10135111 now TJ-5279), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 23 Jun 2005

Hav Krisahan Kumar (No. 10466517 now TJ-5280), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 23 Jun 2005

Hav Y Gope Singh (No. 10244870 now TJ-5281), 119 Inf Bn (TA) Assam, 08 Jul 2005

Hav Morale Babashheb (No. 10119637 now TJ-5282), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 13 Jul 2005

Hav Ahir Magan Tulsiram (No. 10436939 now TJ-5283), 116 Inf Bn (TA) Para, 25 Jul 2005

Hav Phool Chand Khedar (No. 10135235 now TJ-5284), 156 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Jul 2005

Hav Venkataramanaiah G (No. 10359263 now TJ-5285), 106 Inf Bn (TA) Para, 22 Aug 2005

Hav Sadashivappa MH (No. 10359290 now TJ-5286), 106 Inf Bn (TA) Para, 22 Aug 2005

Hav Arjun Ram (No. 10361896 now TJ-5287), 161 Inf Bn (TA) JAK LI, 13 Sep 2005

Hav Ram Kumar Singh (No. 10302856 now TJ-5288), 161 Inf Bn (TA) JAK LI, 13 Sep 2005

Hav Deepak Kumar Deka (No. 12818823 now TJ-5289), 801 Engr Regt R&P (TA), 14 Sep 2005

Hav UN Rao (No. 12818897 now TJ-5290), 801 Engr Regt R&P (TA), 14 Sep 2005

Hav T Janki Rao (No. 12818905 now TJ-5291), 801 Engr Regt R&P (TA), 14 Sep 2005

Hav Banwari Singh (No. 12818928 now TJ-5292), 801 Engr Regt R&P (TA), 14 Sep 2005

Hav Mehar Singh (No. 10361629 now TJ-5293), 160 Inf Bn (TA), 23 Sep 2005

Hav Mohan Singh (No. 10227776 now TJ-5294), 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 26 Sep 2005

Hav Manohar Singh (No. 10197917 now TJ-5299), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Sep 2005

Hav Ravindra Kumar (No. 10135178 now TJ-5300), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Sep 2005

Hav Ramvir Singh (No. 10135200 now TJ-5301), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Sep 2005

Hav Satya Deo (No. 10135237 now TJ-5302), 153 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Sep 2005

Hav Birendra Rai (No. 10374036 now TJ-5303), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 26 Aug 2005

Hav Sunil Bomzan (No. 10374177 now TJ-5304), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 04 Oct 2005

Hav Ranjeet Thapa (No. 10374108 now TJ-5305), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 04 Oct 2005

Hav Man Kumar Rai (No. 10374129 now TJ-5306), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 04 Oct 2005

Hav Mahesh Gurung (No. 10374607 now TJ-5307), 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 04 Oct 2005

Hav Chaina Ram (No. 10302722 now TJ-5308), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 18 Oct 2005

Hav Belavalekar Namdev Masu (No. 10149761 now TJ-5309), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 19 Oct 2005

Hav Patale Gopal Laxman (No. 10149986 now TJ-5310), 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 19 Oct 2005

Hav Daya Nand (No. 10314984 now TJ-5311), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 21 Oct 2005

Hav Malkhan Singh (No. 10314991 now TJ-5312), 124 Inf Bn (TA) Sikh, 24 Oct 2005

Hav Satish Kumar (No. 10314914 now TJ-5313), 158 Inf Bn (TA) Sikh LI, 24 Oct 2005

Hav Dayanidhi Panda (No. 10260098 now TJ-5314), 158 Inf Bn (TA) Sikh LI, 24 Oct 2005

Hav Rajesh Kumar Verma (No. 10405282 now TJ-5315), 158 Inf Bn (TA) Sikh LI, 24 Oct 2005

Hav Netar Pal (No. 10315009 now TJ-5316), 158 Inf Bn (TA) Sikh LI, 24 Oct 2005

Hav Pratap Kumar Pattanaik (No. 10260222 now TJ-5317), 158 Inf Bn (TA) Sikh LI, 24 Oct 2005

Hav Sohan Lal Charmkar (No. 10182055 now TJ-5318), 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 24 Oct 2005

Hav Manjit Singh (No. 10314846 now TJ-5319), 152 Inf Bn (TA) Sikh, 24 Oct 2005

Hav M Murugan (No. 10359298 now TJ-5320), 106 Inf Bn (TA) Para, 07 Nov 2005

Hav Bhutakar Ashok (No. 10119794 now TJ-5321), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 11 Nov 2005

Hav Ashok Kumar Huple (No. 10119708 now TJ-5322), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 11 Nov 2005

Hav Patel Jabbar Munir (No. 10119656 now TJ-5323), 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 11 Nov 2005

Hav Vikraman K (No. 10359238 now TJ-5324), 106 Inf Bn (TA) Para, 16 Nov 2005

Hav Shankar Badni (No. 10420833 now TJ-5333), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 16 Nov 2005

Hav Mallapa Sunagar (No. 10420758 now TJ-5334), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 16 Nov 2005

Hav Rajashekhar Dhula (No. 10420634 now TJ-5335), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 16 Nov 2005

Hav Desai Amrut (No. 10420838 now TJ-5336), 115 Inf Bn (TA) Mahar, 16 Nov 2005

Hav Ram Chand (No. 10405343 now TJ-5337), 114 Inf Bn (TA) Jat, 21 Nov 2005

Hav R Nagaraj (No. 10166407 now TJ-5339), 110 Inf Bn (TA) Madras, 28 Nov 2005

Hav Balbir Singh (No. 10466623 now TJ-5340), 102 Inf Bn (TA) Punjab, 30 Nov 2005

Hav Virendra Kumar Mishra (No. 10389807 now TJ-5341), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 30 Nov 2005

Hav Sri Uma Shankar Napit (No. 10389917 now TJ-5342), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 30 Nov 2005

Hav Madan Singh (No. 10389931 now TJ-5343), 108 Inf Bn (TA) Mahar, 30 Nov 2005

Hav Sant Ram (No. 10197847 now TJ-5344), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Ram Ludhaya (No. 10197958 now TJ-5345), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Balkar Singh (No. 10197963 now TJ-5346), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Charanjiv (No. 10198056 now TJ-5347), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Sukhbir Singh (No. 10198138 now TJ-5348), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Bachan Lal (No. 10197841 now TJ-5349), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 30 Nov 2005

Hav Ravinder Singh (No. 10198152 now TJ-5350), 112 Inf Bn (TA) Dogra, 02 Dec 2005

Hav Bhagirath Singh (No. 10302711 now TJ-5351), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 12 Dec 2005

Hav Kailash Chander (No. 10302689 now TJ-5352), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 12 Dec 2005

Hav Narayan Lal (No. 10302718 now TJ-5353), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 12 Dec 2005

Hav Prabhati Lal (No. 10302717 now TJ-5354), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 12 Dec 2005

Hav Bhoop Singh (No. 10302726 now TJ-5355), 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 13 Dec 2005

Hav Palde Devidas Chandrabhan (No. 10437009 now TJ-5356), 116 Inf Bn (TA) Para, 30 Dec 2005

Hav Arvind Singh (No. 10134877 now TJ-5357), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 30 Dec 2005

Hav Dalip Kumar Sahoo (No. 10135054 now TJ-5358), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 03 Jan 2006

Hav Surender Singh (No. 10135132 now TJ-5359), 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 03 Jan 2006

Hav Patil Sanjay Narayan (No. 10437059 now TJ-5360),
116 Inf Bn (TA) Para, 03 Jan 2006

Hav Satya Narayan Pandit (No. 12208153 now TJ-5361),
1032 Rly Engr Regt (TA), 06 Jan 2006

N. KALIAPPAN
Under Secy.

No. 44, dated 28th December 2006.—The under-mentioned officers are awarded the following punishment by the GCM.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

IC-47649K Major JS Babbar, Arty

- (a) To forfeit five years service for the purpose of promotion.
- (b) To be severely reprimanded.

—21 Nov 2004—

IC-42617X Lt Col Bakshi Sunny, ASC

- (a) To forfeit three years service for the purpose of promotion.
- (b) To forfeit six years past service for the purpose of pension and
- (c) To be severely reprimanded.

—14 Jun. 2004—

IC-47438F Lt Col K. K. Singh, Inf

- (a) To forfeit one year service for the purpose of increased pay.
- (b) To be severely reprimanded.

—25 Apr 2005—

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the SGCM.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

RC-00729 Capt BS Malhi, Arty

To be dismissed from service.

—28 May 2004—

S. R. BAIRWA
Dy. Director
MS-8C

No. 45, dated 29th December 2006.—

CORRIGENDUM

Maj to Lt Col (TS)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification (Part-I Section-4) published on 29 April 2000 (Ser No. 185) under the heading "Regular Army Permanent Commission" sub heading "Maj to substantive Lt Col (By Time Scale)", the following amendment is made :—

For—RM Singh (IC 30948), MF—22 Dec 95

Read—RM Singh (IC 30948), MF—22 Dec 98

AJAY GOEL
Dy. Director
MS-8A

ARMY BRANCH

No. 46, dated 28th December 2006.—

CORRIGENDUM

Maj to Lt Col (TS)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification (Corrigendum) No. 283 published on 03 Jun 2006 under the heading "CORRIGENDUM" sub heading "Capt to Maj", the following amendment is made :—

For—SL-04217 Kasaraju Chennakesava Rao, SLRO

Read—SL-04217 Kosaraju Chennakesava Rao, SLRO

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 387/2005 published on 06 Aug 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" wef 16 Dec 2004 the following amendment is made :—

For—IC-45768 Arun Kumar Kholi, EME

Read— Blank

SHIV RAM BAIRWA
Dy. Dir.
MS-8C